

## **BHAVAN'S LIBRARY**

This book is valuable and  
**NOT** to be ISSUED  
out of the Library  
without Special Permission



ॐ श्रीगणेशाय नमः ॐ

# पञ्चस्वराभिधः ।



संस्कृत-भाषा-टीका सहितम् ।



हिमाचलेन्द्रदारिकां प्रचण्डचण्डदारिकाम् ।  
स्वभक्तवृन्दपालिकां सदा भजामि कालिकाम् ॥ १ ॥  
नमामि गोपिकावरं सदा विसासिताम्बरम् ।  
लसत्सुपिङ्गलाम्बरं हताहितोद्यसम्बरम् ॥ २ ॥

पञ्चस्वरारयेऽत्र निरावलम्बे

दुरूहपद्यौघयुते सुगुप्त ।

धीकृष्णदत्तो विततोम्यहं तां

टीकाऽतिरम्या च सुपोधिनो या ॥ ३ ॥

भक्तजनानामधेने षलीयान् घृन्दारकाणां सुगणे गीयान् ॥  
वस्ताण्डवीयेपटले पटीयान् विन्दवेदवोऽभीष्टफलाय भूयात् ॥ १ ॥  
जगद्यथाभीष्टफलप्रदोपि श्रीशङ्करोर्यित्वमुपैति यस्याम् ॥  
तानल्लपूर्णासमिताथं दार्थी विनापतन्तु हनुमे प्रणामाः ॥ २ ॥

पिशुप्रगस्य मिथिलावनिमण्डनस्य

धीचन्द्रशेखर इति प्रथितस्य लोके ॥

भौमहरोश्च सुधियो ह्युनाथनाम्नः

पादाभ्युजे प्रपिनतः सालो करोमि ॥ ३ ॥

मत्वा महेशं पितरं स्वकीयं ज्योतिः सुशाखार्थविदां वरेण्यम् ॥  
पञ्चस्वराख्ये नितनोति विज्ञो गोविन्दसार्मा सरलाख्यटीकाम् ॥ ४ ॥

सत्रादौ निर्विघ्नपूर्वकं स्वग्रन्थपरिपूर्णार्थं सत्प्रचयगमनाय शिष्टा-  
च स्वामीष्टदेवस्य श्रीकृष्णस्य नमस्काररूपं  
महालाचरणं "इष्टदेवं" इत्यादिना वितनोतिस्म ।

गोपालं कुलदैवतम् ।  
क्रियते ग्रन्थसङ्ग्रहः ॥ १ ॥  
नवग्रहान्नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं तथा ।  
प्रणिपत्य गुरुं किञ्चिज्ज्योतिः शाखं निरूप्यते ॥ २ ॥

ॐ सुबोधनी टीका ॐ

श्रीप्रजापतिदासेन प्रजापतिदासनाम्ना गणकेन ग्रन्थसङ्ग्रहः "ग्रन्थस्य  
पञ्चस्वराभिधानस्य सङ्ग्रहः किन्तु बालाचारिष्ठायुर्दायावरिष्ठपरामर्शपुरःसरं  
त्रिपताकी केतुपताकी केतुकुण्डली गुरुकुण्डलीचेति विचारानुसाराद्देशदशान्त-  
र्दशपरामर्शेन शुभाशुभनिर्णयः क्रियते । किं कृत्वा । इष्टदेवं गोपालं श्रीकृष्णं  
नमस्कृत्य मनोवाङ्मायकर्मभिर्नमस्कारं कृत्वा किं विशिष्टं तं कुलदैवतं स्वकुलो-  
पासनारूपदेवम् ॥ १ ॥

अथ ग्रन्थकारस्तु विघ्नबाहुल्यभयात्पुनर्महालाचरणं करोति नवग्रहानर्कादि-  
केत्वन्तप्रहान् तथा सरस्वतीं वागधिष्ठात्रीं देवीं च नमस्कृत्य । किं च गुरुं  
गुरुदेवं प्रणिपत्य । प्रणिपातपूर्वकं नमस्कृत्य । किञ्चित्स्वल्पं ज्योतिः शाखं  
ज्योतिषग्रन्थं पञ्चस्वराभिधानं निरूप्यते कथ्यते ॥ २ ॥

ॐ सरला टीका ॐ

मैं श्रीप्रजापतिदास नामक देवज्ञ अपने इष्टदेव तथा स्वकुल पूज्य स्वरूप  
श्रीकृष्णजी को नमस्कार करके पञ्चस्वरा नामक ग्रन्थका संग्रह करता हूँ ॥ १ ॥  
पुनः सूर्यादि नवग्रहों को तथा सरस्वती देवी और गुरुदेव को नमस्कार  
करके इस स्वल्प पञ्चस्वरा नामक ग्रन्थको विचार पूर्वक कहता हूँ ॥ २ ॥

स्वकुल निरूपणमाह —

सद्वैद्यकुलजातेन परिहारः कृतो मया ।

ज्योतिर्वित्सु च सर्वेषु ब्राह्मणस्य विशेषतः ॥ ३ ॥

सं० टी०—सद्वैद्यकुलजातेन पवित्रे वैशाख्यवंशे चोत्पन्नेन मयाऽयं परिहारः शास्त्रानिवारणरूपः कृतः कथितः । केषु सर्वेषु ज्योतिर्वित्सु ज्योतिः शास्त्रविशेषु । तत्रापि ब्राह्मणेषु विशेषतः किन्तु विशेषतयाऽनेन ग्रन्थेन ज्योतिः शास्त्रज्ञेषु ब्राह्मणेषु चोपकारो भवेत् । इत्यनेन स्वकुलनिरूपणं कृतम् ॥ ३ ॥

भा० टी०—ज्योतिः शास्त्रज्ञों के लिये उसमें भी विशेष करके ज्योतिः शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों के विशेष उपकार के निमित्त सद्वैद्य कुलोत्पन्न मैं प्रजापतिदास देवज्ञ इस ग्रन्थ द्वारा शांकाओं का निराकरण करता हूँ ॥ ३ ॥

निजागमं प्रकटयति—

बराहकृतसूत्रेण यत्किञ्चित्क्रियते मया ।

ज्योतिर्विदः प्रपश्यन्तु ब्रह्मणां सुविचारतः ॥ ४ ॥

सं० टी०—मया बराहकृतसूत्रेण बराहमिहिराचार्योक्तसूत्राणामनुसारेण यत्किञ्चित् क्रियते तच्च ज्योतिर्विदो ज्योतिः शास्त्रज्ञा ब्रह्मणां सुविचारतः सम्यग्-विचारपूर्वकेण प्रपश्यन्तु विलोकयन्तु ॥ ४ ॥

भा० टी०—मैं बराह मिहिराचार्य कृत सूत्र के अनुसार जो कुछ इस ग्रन्थ में लिखता हूँ उसे ज्योतिः शास्त्रज्ञ चतुरजन ब्रह्मों के सुन्दर विचार ( अर्थात् बक्ष्यमाण बालाघरिष्ठ आयुर्दायाघरिष्ठ एवं श्रिपताकी केतु पताकि केतु कुण्डली गुरु कुण्डली इत्यादि द्वारा निरूपित शुभाशुभ विचार ) द्वारा सभी फलों को देखें ॥ ४ ॥

अथ श्लोकचतुष्टयेन निब्रह्मतमन्यस्यविशेषप्रयोजनं निरूपयति—

पञ्चस्वराभिधानं च ग्रन्थं निघनसंश्रयम् ।

किञ्चिदुद्देशगम्यं च स्वल्पं वक्ष्यामि शास्यतम् ॥ ५ ॥

ज्योतिर्विद्धिः पुरा सर्वैः कृतो निर्णय विस्तरः ।  
 तन्वादि व्ययपर्यन्तं राशिचक्रे व्यवस्थितम् ॥ ६ ॥  
 अपान्म्यमरणं जीवं प्रपद्यन्ति शुभाशुभम् ।  
 मरिष्यति यदा देवात्कोभुङ्क्ते तच्छुभाशुभम् ॥ ७ ॥  
 तस्मात्सर्वं प्रयत्नेन आयुः स्थानं विचिन्तयेत् ।  
 बालस्य जन्ममात्रेण जन्मारिष्टं विचारयेत् ॥ ८ ॥

सं० टी०—अहं पञ्चस्वराभिधानं पञ्चस्वराख्यं ग्रन्थं स्वल्पं लघुरूपं  
 पुनः किञ्चिदुद्देशगम्यं गुरोः किञ्चिच्छ्रवणं च कृत्वा वक्ष्यामि । तं कथम्भूतं  
 निघनसत्रयं निघनस्य मरणस्याश्रयो यस्मिन्तर्धान्मरणनिर्णयरूपम् ॥ ५ ॥

पुरा पूर्वस्मिन् समये सर्वैर्ज्योतिः शास्त्रविद्धि ज्योतिशास्त्रज्ञैस्तु राशिचक्रे  
 राशिषमूहे व्यवस्थितं स्थापितं तन्वादिव्ययपर्यन्तं लग्नादिद्वादशभावावधिकं यथा  
 स्यात्तथा निर्णयविस्तरस्तज्जनितशुभाशुभफलकपनाधिकः कृतः । अर्यात्तन्निर्मि-  
 तेषु ग्रन्थेषु केवलं लग्नादिद्वादशभावानां फलमेवस्थितमिति ॥ ६ ॥

तत्र लग्नादिभावपरामर्शे ते गणका मरणंजीवनं चापादय विहाय शुभाशुभं  
 प्रपश्यन्ति वदन्ति । यदा देवाददिष्टवशाज्जातको मरिष्यति तदा तच्छुभाशुभं  
 तद्विहितं शुभाशुभफलंको भुङ्क्ते किन्तु तद्गणोत्पन्नरस्याभावात्तदुक्तफल  
 व्यर्थमेवजातम् । अनेन तन्मतं दुषितमिति ॥ ७ ॥

तस्मात्कारणात्सर्वप्रयत्नेनायुः स्थानं मृत्युनिर्णयरूपस्थानं गणको विचारयेत् ।  
 अनेन ग्रन्थप्रयोजनकथनं जातम् । बालस्योत्पन्नस्य जन्ममात्रेण जन्मसमया  
 वगममात्रेण जन्मारिष्टं जन्मसमयोद्भवमरिष्टं विचारयेत् ॥ ८ ॥

भा० टी०—मैं प्रजापति दास दैवज्ञ जिस ग्रन्थ से मृत्यु का निश्चित ज्ञान  
 होता है उस लघु पञ्चस्वरा ग्रन्थ को गुरु से कुछ ज्ञान प्राप्त करके कहता हूँ  
 क्योंकि प्राचीन ज्योतिर्विदों ने लग्नादि द्वादश भावों का विस्तार पूर्वक विचार  
 किया है परंश वे जीवन मरण के निश्चित विचारों को छोड़कर शुभाशुभ

अथ राशि चक्रेऽह् स्थापनमोह—


वेदपञ्चनखान्दत्त्वा घट्टयष्ट समयं तथा ॥

भुवनं युगलञ्चैव दश देयास्तथैव च ॥ १५ ॥

सं० टी०—वेदपञ्चनखान् तथा वट्टयष्टसमयं दत्त्वा । तथैव भुवन चतुर्दश-  
सङ्ख्याकं युगलं द्विमितं दश चैते अह्का देयाः स्थाप्याः किंलशाद्द्वन्द्वद्विधि ।  
अत्रायं भावः । कलशाद्विलोमगणनया मिथुनपर्यन्तं याम्योत्तराख्यस्य तथा कर्णा-  
काराख्यस्याधःस्थस्यार्षाङ्गलारख्य च वेधक्रमेण पूर्वोक्ताह्का वेदाद्या यथाक्रम-  
स्थाप्याः । तद्यथा । अह्कस्थापनचक्रे मध्यरेखाप्रगं मेघराशिमारभ्य पूर्वरूपगण-  
नया षड्विकोणाप्रगं कुम्भराशि च प्रकल्प्योच्यते । कुम्भराशौ चतुः सङ्ख्याकं  
तत्सम्मुखेऽर्षाद्याम्योत्तररूपवेधे मिथुनराशौ पञ्च तथा कुम्भराशेरधःस्थकर्णाका-  
रवेधे कन्याराशौ विंशतिमितम् । एवं तत उत्क्रमगणनया तत्पृष्ठभागे मकरराशौ  
त्रिसङ्ख्याकं ततस्तदाम्योत्तररूपवेधे कर्कराशौ चाष्टसङ्ख्याकं तथा तदधः  
स्थवेधे तुलाराशौ रसमितम् । एवं धनुषिराशौ चतुर्दशमितं तथा तत्सम्मुखवेधे  
सिंहराशौ द्विमितं पुनस्तदधः स्थे वृश्चिकराशौ दशमितमेवेति लेख्यम् । तत्रापि  
मीनमेघवृषदाशीनामेवमल्काभावो जातः । यतो वक्ष्यमाणविधिना कस्यापि राशेः  
वधितेन राशित्रयेण सार्धं वेधो भास्ति किन्तु तद्दशत्रयगतप्रदस्य चान्यराशिग  
सर्वेधो भवेत् ॥ १५ ॥

भा० टी०—पूर्व श्लोक में कहे गये “कलशाद्द्वन्द्वपर्यन्तमद्भदान” के  
अह्को को लाङ्गल चक्र की रीति से स्थापन क्रम को बतलाते हैं कि लाङ्गल  
चक्रको रीति से चार पांच बीस तथा तीन आठ छव और चौदह दो  
दश स्थापन करे । यथा अंकदानार्थं त्रिपताकि चक्र तथा लाङ्गल चक्र  
देखिये ॥ १५ ॥

अङ्कास्थापनार्थं त्रिपताकिचक्रम् (नं० २) लाङ्गलचक्रम् (नं० ३)



तथान्यैरप्युक्तम्—

वेदवह्नीन्द्रदिक्त्तर्कं नखचातुगजाः शराः ।

अङ्काः देया क्रमादेते फलशादौ विपर्ययान् ॥ १ ॥

सं० टी०—अस्वार्थस्तु । कलशात्कुम्भाद्विपर्ययात्पृष्ठभागस्यराशीनां क्रमात् वेदवह्नीन्द्रदिक्त्तर्कंनखचातुगजास्तथा शराथैते अङ्काः स्वसङ्ख्यासमाप्तिं यावदर्थाः निमग्नराशिपर्यन्तं देयाः स्याप्याः । यथा कुम्भे चतुः सङ्ख्याकमङ्कं ततो मकरे त्रिमितम् । तथा धनुषि चतुर्दशमितमितं विधिना मिथुने शरमितम् ॥ १६ ॥

भा० टी०—उन्हीं अंकों को अन्याचार्यों के प्रमाण पुष्ट करते हैं कि कुम्भ से विलोम राशियों में मिथुन राशि पर्यन्त मम से ४।३।१४।१०।६।२। १।८।५। इन सब अंकों को क्रम से स्थापन करना चाहिये ॥ १ ॥

तथान्वैरपि ग्रहस्थापन चक्रपक्षेवाऽङ्कदानमूचू—

पञ्चाष्टयुग्मविंशतिश्च पट्टशेन्द्राग्निसागराः ।

कर्कटाग्नीनपर्यन्त मङ्कदानं सुनिश्चितम् ॥ १६ ॥

स० टी०—पञ्चाष्टयुग्मविंशतिस्तथा पट्टशेन्द्राग्निसागरा एते अङ्काः कर्कटाकर्कराशिमारभ्य क्रमगणनया मीनपर्यन्तं मीनपर्यन्तं मीनराश्यवधिकं देया इत्यङ्कदानं सुनिश्चितं कथितं प्राचीनैरिति शेषः । अत्रेदमवधेयम् । ग्रहस्थापनचक्रपक्षे चान्त्ये पूर्वापरारख्यरेखायां मेघराशिमारभ्य द्वादश राशयो निवेशिताः सन्ति । अतोऽङ्कस्थापनचक्रे यत्र कुम्भराशिस्तत्रैव ग्रहस्थापनचक्रे मीनराशिः ॥ तथा तत्र यत्र मिथुनराशिस्तत्रैवात्र कर्कराशिः । एवं सर्वत्र बोध्यम् । तेनात्र कर्कराशौ पञ्च ततः सिहराशावष्टौ तथा कन्याराशौ विंशतिः । एवं मीने वेदमितं जातम् । एवं चक्रद्वयवशादपि स्वस्वरेखाग्रेषु चाङ्कप्रमाणमेकमेव जातम् ॥ १६ ॥

अत्र मदीय सूत्रम् ।

शून्यं धियद्व्योमसमं शाराश्च  
नागाश्च नैत्रं नखसम्मिता वै ।

रसाः खचन्द्राः खलु शक्रतुल्या  
रामाश्चवेदा अजतोत्र बोध्याः ॥ १ ॥

आद्यं चरादित्रयमन्तरेण  
चरे शरा विंशतिरथ शक्राः ।


स्थिरे गजाः पट्फिल रामतुल्या  
युग्मं स्वचन्द्रा निगमास्तथाऽन्त्ये ॥ २ ॥

अत्र ग्रहस्थापनचक्रे मेघादेते चाङ्का ज्ञेयाः ॥ १ ॥ २ ॥

भा० टी०—अन्य प्राचीनाचार्यो ने ग्रह स्थापन चक्र ही में क्रम से कर्क से मीन पर्यन्त राशियों में क्रमशः ५८१२१२०१११०१११३१४ इन अंकों की स्थापना की है । वस्तु स्थिति यही है कि अंक स्थापन चक्र में जहां कुम्भ राशि है वहां ग्रह स्थापन चक्र में मीन और जहां मिथुन राशि है वहां कर्क



ग्रहस्थापनाङ्कस्थापनमिथितत्रिपताकिचक्रम् ( नं० ४ )



अथ वेध प्रकारमाह—

मेवादिनामचिह्नानि ग्रहयुक्तानि कारयेत् ।


एकरेखास्थिते रोटे त्रितये वेध निश्चयः ॥ १७ ॥

लग्ने धा दक्षिणे घामे सममुखे ग्रहसंस्थिते ।

वृण्डे शेषं शिशोरिष्टं दिनं मासञ्च हायनम् ॥ १८ ॥

सं० टी०—ग्रहयुक्तानि ग्रहसहितानि मेवादिनामचिह्नानि मेवादीनां राशीनां नामाक्षरैश्चिह्नानि कारयेद्गणक इति शेष । अयमप्रफलितार्थ ॥ जन्मकालिका ग्रहा यत्र यत्र राशी वर्तन्ते ते राशयोप्यत्रत्रिपताकीचक्रे यत्र यत्र त्रिपतास्तत्र तत्र ते रोटास्तथा जन्मकालिकं लग्नञ्चेति स्थाप्यम् ॥ अत्रैकरेख स्थिते रोटे ग्रहे सति त्रितये स्थानत्रयेऽपि वेधनिश्चयः द्विष्टु वेधनिर्णयोप्यः ॥ १७ ॥

सं० दो०—अत्रोदाहरणम् । तथा । तत्र ( अक ) ( गल ) ( इउ )  
इति रेखात्रयं पूर्वापररूपम् । तथा ( अक ) ( ग ख ) ( इ उ ) इति बान्धोत्तरं  
रेखात्रयम् । एवं ( अक ) ( खख ) ( उउ ) ( कइ ) ( ख ग ) ( उअ ) ( इइ ) ( गग )  
( अअ ) ( अउ ) ( ग ख ) ( इक ) इति कर्णाकारं द्वादश सङ्घटकं रेखाप्रमाणं च  
विधाय तदा जातं त्रिपातकीचक्रस्वरूपम् ।



सं० टी०—अत्र प्रहरथापनापेक्षया ( इउ ) पूर्वापररूपाया अन्तररेखायाः  
( इ ) चिन्होर्ध्वं शृङ्गायै मेघराशिमारभ्य स्वस्वाद्यक्षरोपलक्षिताः पूर्वाभिमुखग-  
णनया द्वादश राशयो देवाः । अत्रैवमण्डकस्थापनचक्रपक्षे ( गख ) पूर्वोपराया  
मध्यरेखायां स्वरविशिष्टं मेघराशिमारभ्य क्षमगणनया स्वरविशिष्टः स्वस्वा-  
द्यक्षरोपलक्षिता द्वादश राशयः स्थाप्याः । अथाण्डकस्थापनमुच्यते । तत्राण्डक

स्थापनाजादिवशात् ( क ) स्वरविशिष्टे कुम्भराशौ चत्वारः । तस्य सम्मुखे याम्योत्तरसूत्रे ( अ ) बिन्दौ स्वरविशिष्टमिधुनराशौपथ । एव तत्कुम्भराशेरधस्ये कर्णाकारसूत्रे ( क ) चिह्ने कन्याराशौ विशतिः एव तन्मकरराशौ वह्निमितं तथा तद्याम्योत्तरसूत्रे ( ग ) बिन्दौ तत्कीटराशौ चाष्टौ । तथा तत्कर्णाकारसूत्रे तदधस्ये तुलाराशौ षट्ष-बह्व्याकमङ्कम् । एवधनुषि चतुर्दश । तथा तद्याम्योत्तरसूत्रे ( इ ) बिन्दे तत्सिद्धे द्विकम् । तथा तदधस्ये कर्णाकारसूत्रे ( उ ) समाख्यचिह्ने वृद्धि कराशौ दशचेति स्थाप्यम् ॥ तथामीने मेये वृषे चाङ्कानां पठिनाभावात्तस्थान त्रये शून्यानि बोध्यानि । अथवा विहितमदीयसूत्रानुसारेण प्रहस्यापनपक्षे मेध मारभ्य मीनपर्यन्त "शून्यं वियदध्योमसममित्याद्याङ्का वा "भाष्यचरादित्रय मन्तरेण" इति सूत्रोक्ता अङ्काः क्रमात्स्थाप्या ॥ १७ ॥

सद्य इत्यत्र पञ्चम्यर्थे सप्तमी स्थितेन लग्नादर्थाच्चतकजन्मकालिकलानाद् दक्षिणे किन्तु दक्षिणदिग्गततिर्यग्नेस्वाम्रदण्डे प्रहे सति वा वामे वामगततिर्यग्नेस्वाम्रदण्डे । तथा सम्मुखे सम्मुखगतरेखाप्रदण्डे वेधो वेधविचारो ज्ञेयः । तत्र वेधे शिशोर्बालस्य दिनं मासं तथा हायन वर्षं चारिष्टं ज्ञेयमिति ॥ अत्रेदमवधेयम् । पूर्वोक्तप्रकारेण त्रिपताकोसमाख्य चक्र विधाय तत् खेटस्थापनमेवादिराशिवशा जन्मकालिकलमर्देयं तद्यत्र राशौ भवेत्तस्मादेव वेधविचारः कर्त्तव्यः । तत्र जन्मकालिकान् खेटाय दत्त्वादिक्षणादिवेधत्रितयेपि जन्मलग्नस्य यद्दण्डगतरोटेन सह वेधो भवेत्तद्दण्डस्थिताङ्कं पूर्वविहितं चाङ्कस्थापनचक्राद्द्वगम्य प्रहस्यापन-चक्रे तत्र दण्डे तदङ्कमानं रेख्यम् । ततस्तदङ्कत्रुल्ये वर्षे मासेवा दिने बालस्या रिष्टं भवेत् तत्रापि वेधे ज्ञाते वक्ष्यमाणविधिना दण्डेशो पापे सति तदा याम्य दण्डात्पापप्रहवेधस्थितदण्डाङ्कप्रमाणेन निधनम् । एव दक्षिणवेधमायेजते सति वामदण्डस्यपापप्रहवेधस्थाननिष्ठाङ्कमानेन निधनम् । एवं तद्द्वयस्यार्थाशाप्यवा-माख्यदण्डस्य यदा वेधाभावस्तदा सम्मुखदण्डगतपापरोटजरेषस्थानगताङ्कप्रमा-णेन मरणम् । एवं यदा जन्मलग्नस्य वामदक्षिणसम्मुखस्यै पापे सह वेधत्रयः ।

जातं तदा तु वेधकारकाणां खेटानां मध्ये वक्ष्यमाणविधिना यः खेटोऽधिकबलवान्  
तद्गतदण्डस्थिताह्कप्रमाणेन मरणं विधेयम् ।

तथाऽत्र विश्वेश्वरः—

“जन्मलग्ने यदा वेधः पापदण्डे मृति वदेत् ।

दक्षवामाप्रमानेन पूर्वाभावे परं विदुः ॥ १ ॥

यदा वेधस्त्रयाणां च जन्मलग्नेऽशुभमहे ।

प्राप्तिस्तत्र बलाधिक्याद्दामर्दक्षिणसम्मुखैः ॥ २ ॥

एवं वेधत्रयाभावस्तदा जन्मलग्नात्क्रूरप्रहाकमेण क्रूरप्रहस्थानात्कृकङ्ख्यामाने-  
नार्थाजन्मलग्नगतदण्डकप्रमाणेन निघनं स्यात् । अत्र मेयादित्रये राशौ  
पूर्वरीत्या चाङ्काभावादत्र जन्मलग्ने कथं वेधो भवेत् । तदुच्यते । कथितवेधत्र-  
याभावे सति मेयादित्रये राशौ जन्मलग्नस्य तत्र पापप्रहस्थितिस्तदा तदक्षिणवा-  
मभिमुखस्थानगानामङ्कानां त्रयाणां योगप्रमाणेन मरणम् ।

तदुक्तं वराहेण—

अभावे सर्ववेधानां क्रूरकमणतो वदेत् ।

मेयादित्रितये धोर्ष्यं मानं वामाप्रदक्षिणैः ॥ १ ॥

एवमत्र दक्षिणदण्डगतः । तथा वामदण्डगतः । तत्सम्मुखदण्डनिष्ठः ।

जन्मलग्नगतः । इति चतुर्धा वेधो जातः । अत्रैव निघनसमयावबोधं प्रक्षारा-  
न्तरेण वदति ।

चलवर्षे यदा वेधो दण्डेशः पापसम्भवः ।

तदा मृत्युर्भवेन्नून मन्यथा कष्टमादिदोत् ॥ १ ॥

यदा जन्मकाले दण्डेशः स्वयं पापस्तदा वक्ष्यमाणोक्ते चलवर्षे भासे च वेधे  
सति नूनमवर्ष्यं मृत्युर्भवेत् । अन्यथाकिन्तु दण्डेशस्य शुभत्वरूपे कष्टं कष्टमार्द्र  
चादिशोकथयेदित्यर्थः ॥ १८ ॥

भा० टी०—पूर्वोक्त प्रकार से त्रिपताकि चक्र लिखकर मेयादि राशियों को  
स्थापना करके जन्म समय जो २ प्रह जिस २ राशि में हो उनको उनको उन  
२ राशियों में स्थापित करे । एक रेखा में स्थित प्रह से तीन स्थान में अर्थात्  
३ प्रह से दक्षिण और वाम गत तिर्यक् रेखाप्र में तथा सम्मुखगत रेखाप्र में  
स्थित प्रहों से वेध होता है ॥ १० ॥

अथवा जन्म लग्न से दक्षिण और वाम तथा सम्मुख रेखाप्र गत ग्रह हों तो ( वक्ष्यमाण ४४ वा ४५ वां श्लोक सकलेत्र ग्रहे पापे दिनमात्रं विधीयते ) इत्यादि के अनुसार बालक के अरिष्ट का निश्चय करे अर्थात् इतने वर्ष मास दिन पर अरिष्टादि होगा इस का निश्चय करे ॥ १८ ॥

अथ छात्राणांबोधजननार्थं पुनः वेधान् दर्शयति—

कर्के धनुषि मीने च हरिकोटघटेषु च ।  
 कन्यामकर यूकेषु तुलामोनाङ्गनासु च ॥ १९ ॥  
 वृश्चिके घटासिहे च धनुर्मकरकर्कटे ।  
 मकरे च धनुः कन्ये घटे सिहे च वृश्चिके ॥ २० ॥  
 मोने च कर्कटे यूके मेपकन्याधनुर्ज्ञपे ।  
 वृषे सिहे च कुम्भे च वृश्चिके च विनिर्दिशेत् ॥ २१ ॥  
 तुलामकरकर्केषु वेधं चैवं यथाक्रमम् ।  
 यथा योनं यथान्यायं यथा भागं विनिर्दिशेत् ॥ २२ ॥

सं० टी०—अथ पूर्वन्तु ग्रहस्थापनचक्रे चान्त्यश्रृङ्गाप्रे मेषराशिमारभ्य द्वादश राशयो निवेशितास्तेनात्र तदभिप्रायेण क्रीडादिग्रहवेधं दर्शयति । तत्र कर्के कर्क राशौ धनुषि मोने मीनराशौ च खेटे सति मिथो वेधो जायते । यतः कर्काःसम्मुखे मीनराशिस्तथा कर्णाकारसूत्रश्चापरशिः स्वादिति विहितचक्रे स्पष्टमेवातो वेधो विहितः । परञ्च कर्कराशोः कर्णाकारसूत्रे ( अ अ ) रूपे मिथुनराशि वर्तते तथापि तस्य मिथुनेन सड वेधो न विहितोः मेषादिराशि-त्रयेणान्येषां वेधाभावस्वीकारागमवशात् । एवमन्यवेधोऽपि बोध्यः । तथा । एवं हरो सिंहराशौकीटे वृश्चिकराशौ घटे कुम्भराशौ च वेधः । तथा कन्याराशौ मकरराशौ यूके तुलाराशौ च वेधः । एवं तुलामोनाङ्गनासु वेधः किन्तु तुलाराशौ मीनराशौ कन्याराशौ चैकत्र खेटे चान्यतमेजन्मलग्ने वेधः ॥ १९ ॥

स० टी०—छात्राणां बोधजननार्थं पुनः सर्वराशिगतवैधान् दशयति ।  
 वृद्धिके ग्रहे सति कुम्भसिंहयोर्वेधः । तथा धनुषि ग्रहे सति मकरकर्कटयोर्वेधः ।  
 मकरराशौ खेटे सति धनुः कन्याराश्योर्वेधः । तथा घटे कुम्भराशौ ग्रहे सति  
 सिंहवृद्धिकराश्योर्वेधो जन्मलग्न तत्र वेधो जायते ॥ २० ॥

मीनराशौ खेटे सति कर्कटे कर्कराशौ यूक्तेतुलाराशौ च वेधः । मेघराशौ  
 जन्मलग्ने सति कन्याधनुर्ज्ञानां राशीनां गतखेटानां दक्षिणामिमुखवामाभि-  
 धक्रमाद्वेधः । एवं वृषे जन्मलग्ने सति सिंहे दक्षिणाख्यस्तथा वृद्धिक सम्मुखा-  
 ख्यरतथा कुम्भे वामाख्यो वेधः स्यादिति विनिदिशेत्कथयेत् । एवं कर्कादि-  
 मीनपर्यन्त चान्यतमे जन्मलग्ने सति द्वयोर्द्वयोराश्योर्गतानां खेटानां वेधः  
 प्रदर्शितः ॥ २१ ॥

एव तुलामकरकर्केषु यथाक्रमं वेधं वदेत् । परचायं वेधः पूर्वापररूपायां मध्य-  
 रेखायां मेघस्थापनवशाद्यत्पूर्वं चाङ्गस्थापनचक्रं प्रतिपादितं तदधिकृत्य प्रदर्शितः ।  
 तत्र यथायोगे जन्मलग्नेदक्षाभिमुखवामाख्यवेधवशात् । यथान्यत्वं रव्यादिखेटानां  
 स्वोचनोचवक्रादिवशात् । यथा भाग्यं वर्षमासदिनानां चाङ्गमानवशाद्द्वालारिष्ट  
 विनिदिशेद्भवेत् ॥ २२ ॥

भा० टी०—ग्रहस्थापननिपताकि चक्रके क्षमिप्रायः से चर्कं राशिमे  
 ग्रहद्वौ या जन्मलग्न हो तो उसको धन और मीन राशिमें स्थित ग्रहों से  
 वेध होता है अर्थात् कर्क से सम्मुख मीन राशि तथा कर्णाकार धन राशि है  
 इसलिये कर्क धनु और मीनका परस्पर वेध स्पष्ट है । अथ च कर्कसे कर्णा-  
 कार मिथुन राशि भी है परन्तु मेघादि तीन राशियों से अन्य राशियों का वेधा-  
 भाव-आगम से स्वीकृत है इसलिये मिथुन का पाठ न लिखकर “कर्कं धनुषि  
 मीने” पाठ पठित है एवं सभी राशियों का वेध पठित है यथा सिंह राशिस्थ  
 ग्रहसे वृद्धिक और कुम्भ से वेध होता है एवं कन्या राशिसे मकर तुलासे,  
 तुला राशिसे मीन कन्या से, वृद्धिक राशिसे कुम्भ सिंहसे, धन राशिसे  
 मकर कर्कसे, मकर राशिसे धनु और कन्या से, कुम्भ राशिसे सिंह और

वृश्चिक से, मीन राशिको कर्क तुलासे तथा मेषको कन्या धनु और मीन राशिसे वेध होता है अर्थात् मेष राशि जन्म लग्न हो तो कन्या राशिसे दक्षिण वेध, घन राशिसे सम्मुख वेध तथा मीन राशिसे वाम वेध होता है । एवं वृषसे सिंह वृश्चिक और कुम्भ राशिको क्रम से दक्षिण सम्मुख और वाम वेध होता है तथा मिथुन राशि से तुला मकर और कर्क राशिसे क्रम से सम्मुख वाम और दक्षिण वेध होता है । इसमें यथा योग अर्थात् दक्षिण संमुख और वाम वेध के वश यथा न्याय अर्थात् स्वोच्चनीचादि के बलानुसार यथा भाग अर्थात् वर्ष मास और दिनके मानानुसार बालारिष्ट को कहे । आचार्य ने इन श्लोकों से १८ श्लोक को स्पष्टीकरण किया है जिससे वेध ज्ञान अति सुगम से हो जाय\* ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥

एकोनविंशतिः कर्के सिंहे सप्तदशैव तु ।

षट्त्रिंशद्वेध कन्यायां तुला षड्विंशतिस्तथा ॥ २३ ॥

वृश्चिके सिंहवज्जेयं नवयुग्मं धनुर्धरे ।

तुलायां च यथा वर्षे तथैव मकरेपि च ॥ २४ ॥

कुम्भे वृषे यथा सिंहे मोने चैव यथा धनुः ।

मेघे षोडश वर्षाणि मिथुने नवनेत्रकम् ॥ २५ ॥

पूर्वे वेदादयो येऽङ्कास्त्रिषु स्थानेषु कोर्तिताः ।

तेऽप्यो लाङ्गलवेधेऽस्मिन्नेकीकृत्य प्रकोर्तिताः ॥ २६ ॥

यथाङ्को दृश्यते मासो दिनं वर्षं तथैव च ।

ब्रह्मणां च बलं युष्या पूर्वोक्तं तु विनिर्दिशेत् ॥ २७ ॥

\* एवं कर्कादि मीन पर्यन्त राशियों को दो दो राशियों से तथा मेष वृष मिथुन राशि को तीन दो राशियों से वेध कहा गया है । गोविन्दशर्मा ।

† अत्र तु मानैक्येन नवत्रयमायात्यतः "मिथुने तु नवत्रयम्" ।

इति पाठः साधुः प्रतिभातीति गोविन्दः ॥

सं०-टी०—अग्रान्त्यशृङ्गाप्रगताजादिस्थापनवशाद्विप्रताकीवक्त्रे मोनारितः कर्कराशिपर्यन्तं वेदाद्यङ्गानां स्थापनपक्षे यस्य राशेर्येन येन सह वेध पूर्व प्रदर्शितस्तस्य राश्यङ्कसंख्यायास्तथा वेधजनितराशिस्थिताङ्कसंख्यायाश्च योग-समाः सङ्ख्याः कर्कादितो मीनपर्यन्तमाचार्यैर्विहिताः । यथा । कर्कराशेः पूर्वविधिना मीनधनुर्धरान्यां सह वेधस्तेनात्र कर्कराश्यङ्कस्य पञ्चमितस्य ( ५ ) तथा मीनस्थाङ्कस्य वेदमितस्य च ( ४ ) तथाधनुर्धरस्थस्य खेन्दुमितस्य ( १० ) चेति राशिप्रयगताङ्कयोगे कृते चैकोनविंशतिः कर्कराशौ जाता । एवं सर्वत्र बोध्यम् । एवं तक्षिप्पन्नाङ्कमानं कर्के चैकोनविंशतिः स्यादर्थदितुल्य-माने पूर्ववदूर्धादिकल्पनावशाद्वालस्यारिष्टं षष्कभ्यम् । एवं सिंहेवेधे सति सप्तदश-सङ्ख्यामाने रिष्टम् । तथा कन्यायां षट्त्रिंशदेवं तुल्यायां षड्विंशतिः ॥ २३ ॥

एवं शृङ्खिके वेधे जाते सिंहवदार्धात्सप्तदशङ्कया तथा धनुर्धरे धनुषि नवयुग्मं स्यादूर्धादेकोनत्रिंशदिति । तुलायां यथा वर्षं तथैव मकरे स्यादूर्धात्षड्-विंशतिः ॥ २४ ॥

एवं सिंहे यथाङ्कमानं विहितं तथैव तन्मितैवार्थात्सप्तदशसङ्कयैव कुम्भे कुम्भराशौ शृपे शृपराशौ च बोध्या । मीने यथाधनुः किन्तु धनुर्धरवदर्धा देकोनत्रिंशन्मिता । मेघे षोडशवर्षाणि मानानि तथा मियुने तु नवत्रयं एवोन चत्वारिंशत् ॥ २५ ॥

मया पूर्वमङ्कस्थापनचक्रकयने त्रिषु स्थानेषु किन्तु कर्कादितो मीनपर्यन्तं स्वस्थानं तथा दशवामामिमुखस्थानां मध्ये स्थानद्वयं चेति स्थानत्रये तथा मेघशृपमियुनराशीनां स्वस्थानजानामङ्गानामभावात्तेषां श्रयाणां राशीनां दक्षिणादिवेधजाते स्थानत्रये ये वेदादयोद्वाः क्रींतिताः कथितास्तेऽमी सर्वेऽस्मिन् काङ्गलवेधे चैकैकृत्य तद्योगं कृत्वाऽत्र प्रक्रींतिताः ॥ २६ ॥

अङ्कः किन्तु स्थानत्रयाहो यथा दृश्यते येन प्रकारेणावगतः । तथैव ग्रहाणां षड्यमाणप्रकारेण षडं नकारादवलं बुध्या पूर्वोक्तं पूर्वकथितं मासं दिने वर्षं चेति सर्वं विनिर्दिशेत्कययेद्रणक इति शेषः । अर्थाद्यथाकर्म प्राप्तेषु मासदिनवर्षेषु चालस्यारिष्टं जानीयात् ॥ २७ ॥



भा० टी०—त्रिपताकि चक्र में अङ्क स्थापन विधि से जो अङ्क स्थापित हैं उन अङ्कों का ग्रह स्थापन चक्र के अनुसार जो वेधानयन विधि से कर्कदि राशियों का वैधेय्य होता है उसे लिखते हैं कर्क राशिका १९ सिंह का १७ कन्या का ३६ तुला का २६ वृश्चिक का १७ धनु का २९ मकर का २६ कुंभ का १७ मीन का २९ मेष का १६ वृष का १७ और मिथुन राशि का वैधेय्य ३९ कहा गया है ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥



पूर्वोक्त अङ्क स्थापन चक्रमें जो वेदादि अंक कहे हैं उनका पूर्वोक्त वेधानुसार तीन २ स्थानों के अंकोंका योग करके योग मानको में यहाँ कहा हूँ \* ॥२६॥

अब बताते हैं कि इस प्रकार जो अंक आवे उतने दिन मास वर्ष पर वक्ष्यमाण प्रकारसे ग्रहोंके बलानुसार बालारिष्ट के समय को निश्चित करे ॥२७॥

इसके स्पष्टता तथा सुगमता के लिये यहाँ मैं दोनों चक्रों को लिख देता हूँ । कर्क से मीन पर्यन्त राशियों में स्वस्थान तथा दक्ष, वाम और सम्मुख में दो ही स्थानों का एवं स्थान त्रय का योग किया गया है तथा मेष वृष मिथुन इन तीन राशियों में स्वस्थान के अंकाभाव से दक्ष संमुख और वाम स्थित स्थान का योग किया है यथा मेष के संमुख धनराशि का अंक=१० दक्षिण स्थित कन्या का अंक=२ वाम रेखास्थित मीनका अंक=४ तीनों का ऐक्य=१६ । एवं वृष मिथुन का क्रमशः १७।३९ ॥

तथा कर्क स्थान स्थित अंक=५ दक्षिण कर्णाकार स्थित अंक=१० एवं संमुखस्थित ४ तीनों का ऐक्य=१९ एवं सिंहादिमान क्रमशः १७।३६।२६। १७।२९।२६।१७।२९ होता है ।

\* विशेषता यह है कि मेष वृष मिथुन राशियों में स्वस्थान स्थित अङ्कों का अभाव तथा कर्क सिंह कन्या राशियों में वाम स्थित अङ्कों का अभाव, तुला वृश्चिक धन राशियों में सम्मुख अङ्कों का अभाव और मकर कुम्भ मीन राशियों में दक्षिण कर्ण स्थित अङ्कों का अभाव है इसलिये आचार्य ने तीन २ ही स्थानों के अङ्कों का योग किया है । गोविन्द शर्मा ।



अथ ग्रहाणां बलाबलनिरूपणाय प्रथमं राशीशादिकं दर्शयति ।—

कुज शुक्र बुधेन्द्रकं सौम्य शुक्रावनीभुवाम् ।

जीवार्किं भानुजेज्यानां क्षेत्राणि स्युरजादयः ॥ २८ ॥

सं० टी०—दीपकायामजादित एतेषां ग्रहाणां क्षेत्राणि स्युः । अर्धेवं ग्रहाणां नैसर्गिकं मित्रादिकं वराहमिहिरादिभिः प्राचोनैः ।

“शत्रू मन्दसितौ समथ शशिजो मित्राणि शेपा रवेः ।

तीक्ष्णांशुर्हिमरदिमजथ सुहृदौ शेपाः समा शीतगोः ॥ १ ॥

जीवेन्द्रुग्रकराः कुजस्य सुहृदो ज्ञोऽरिः सिताकीं समौ ।

मित्रे सूर्यसितौ बुधस्य हिमगुः शत्रुः समाश्रपरे ॥ २ ॥

सुरेः सौम्य सितावरीं रविसुतो मथ्यो परे त्वन्यथा ।

सौम्याकीं सुहृदौ समौ कुजगुरुशुकस्य शेपावरी ॥ ३ ॥

शुक्रशौ सुहृदौ समः सुरगुरुः सौरस्य चान्येऽरवः” इति यद्विहितं तदेवात्र बोध्यम् । एवं तात्कालिकं मित्रामित्र “अन्योन्यस्य धनव्ययायसहजव्यापारबन्धु-स्थितास्तत्काले सुहृदः” उक्तातिरिक्तस्था शत्रवः । इति तैर्यद्विहितं तदेव्यत्र बोध्यम् ॥ २८ ॥

भा० टी०—शेषादि राशियों के क्रम से मंगल शुक्र बुध चन्द्रमा सूर्य बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि, शनि और बृहस्पति स्वामी है ॥ २८ ॥

स्वक्षेत्रस्थे बलं पूर्णं पादोनं मित्रभे स्थिते ।

अर्धे सम गृहे ज्ञेयं पादं शत्रु गृहे स्थिते ॥ २९ ॥

पतदुक्तं बलं सौम्ये क्रूरे ज्ञेयं विपर्ययात् ।

शत्रुनेहस्थिते पूर्णं पादोनं समवेदमनि ॥ ३० ॥

अर्धं मित्रगृहे ज्ञेयं पादं पापे स्ववेदमनि ।

सं० टी०—प्रहे स्वक्षेत्रस्ये निजगृहगते सति पूर्णं रूपं बलम् । तथा मित्रभे स्वमित्रग्रहस्य राशौ स्थिते खेटे सति पादोनं ( ४५ ) बलम् । सम-गृहे स्वसमग्रहस्य राशौ स्थिते खेटे सत्यर्द्धं ( ३० ) बलम् । शत्रुगृहे स्वशत्रु-ग्रहस्य राशौ खेटे स्थिते सति पादं ( १५ ) बलं ज्ञेयमिति ॥ २९ ॥

एवममुनाप्रकारेण यद्बलं कथितमेतद्बलं सौम्ये वक्ष्यमाणशुभग्रहविषय-कमित्यर्थः । क्रूरे पापग्रहे विपर्ययात्कथितबलविचारस्य विलोमाद्बलं ज्ञेयमिति । तदेव स्पष्टयति—शत्रुगृहेस्थिते पापे पापखेटे सति पूर्णं बलम् । तथा समवेदमनि समग्रहराशौ पादोनं बलम् मित्रगृहे स्थिते पापे सत्यर्द्धं बलम् । तथा स्ववेदमनि निजगृहे पादं बलमिति ज्ञेयं गणकेनेति शेषः ॥ ३० ॥

भा० टी०—धरिष्ठादि निर्णय के लिये बलाबल का निर्णय करते हैं । यदि शुभ ग्रह अपने गृह का हो तो पूर्णबल ( ६० कला ) मित्र राशि का हो तो चतुर्थांशोन ( ४५ क. ) सम ग्रहके राशिका हो तो अर्द्ध ( ३० क. ) बल तथा शत्रु राशि का हो तो ( १५ कला ) चतुर्थांश बल होता है ॥ २९ ॥

उक्त बल शुभ ग्रहके लिये कहा गया है इससे विपरीत पाप ग्रहके बलको जानना चाहिये । अर्थात् पापग्रह शत्रुराशि का हो तो पूर्ण बल, सम-राशिका हो तो पादोन मित्र राशिका हो तो अर्धबल और यदि अपने राशि का हो तो चतुर्थांश बल होता है ॥ ३० ॥

अथ ग्रहाणां राशिभोगकालमाह—

भूवर्षे हि बृहस्पते निर्गदितं सार्द्धद्वयं भास्करेः ।

पादं घासरयुग्मकं मृगतनोः पक्षत्रयं भूमिजे ॥ ३१ ॥

षड् विशानि दिनानि दानघगुरो द्विंशति रात्रि युधे ।

षड् मासं ससमामितं विधुरिपोर्मासं तथा भास्करे ॥ ३२ ॥

सं० टी०—अत्राचार्येण बालानां ग्रहसंघारज्ञानं क्षटिति यथा स्यात्तथा मध्यगतिवशात्प्रदर्शितम् । अत्र युक्तिः । तद्यथा । बृहस्पतेर्मध्यगतिकलामानं सिद्धान्तजं ४।५९।९।९। अत्राल्यान्तराद्ब्रह्मवहारार्थं षड्कला मितं

तद्गतिकलामानं स्वीकृतम् । ततोऽनुपातादेकस्मिन् मासे तच्चलनं खबाणेन्दुमित  
कलात्मकं स्यात् ( १५० ) एतत्पष्टिमकं फलं भागात्मकं स्यादिति जातं सार्ध-  
द्विभागमितं । यदैकमासेनेदं चलनं तदा द्वादशमासैः किमिति । फलमेक-  
स्मिन्नपि वर्षे तच्चलनं स्यादिति स्पर्ध ( २+३० ) १२=(२४+३६०)=३०+० ।  
अतः सिद्धमेकस्मिन्नवर्षे तच्चलनमेकराशिमितं स्यात् । एवं स्वस्वमध्यमगति-  
वशादन्येषामपि योग्यम् । तथा-शनेद्विवर्षं मासपट्कदैकराशिभोगमानम् । एवं  
मृगतनोधन्द्रस्य सपार्दं दिनद्वयम् । तथा मङ्गले साद्वैकमासमितम् ॥ ३१ ॥

तथा शुक्रस्य किन्तु तदुक्तस्य षड्विंशतिमितानि दिनानि । बुधे द्वाविंशराशि  
द्वाविंशतिमितं दिनम् । विधुरिपोः किन्तु राहो, सप्तमासितं षड्मासं सार्धैकवर्षं  
मितम् । तथा सूर्यस्यैकमासमितं इति राशि भोग कालः । अत उपपद्यं  
सर्वम् ॥ ३२ ॥

भा० टी० बृहस्पति मध्यम राशि के भोग से अर्थात् मध्यगति के हिसाब  
से प्रत्येक राशि में १ वर्ष रहते हैं ( यथा श्रीभास्कराचार्य ने भी लिखा है  
बृहस्पते मध्यम राशिभोगात् सन्वत्सरं साहितिका यदन्ति ) एवं शनि एक  
राशि में २॥ वर्ष, चन्द्रमा २। दिन, मंगल ३ तीन पक्ष शुक्र २६ दिन, बुध  
२२ दिन, राहु केतु १॥ वर्ष और सूर्य १ राशि में १ मास रहते हैं । बालकों  
के शीघ्र ग्रह सगर के ज्ञान के लिये आचार्य ने मध्यगतिवश राशिभोग काल  
का ज्ञान लिखा है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

अथ ग्रहानां मुद्यादि लक्षणमाह—

सूर्यं मुक्ता उदीयन्ते शीघ्राध्याके द्वितीयगे ।

समास्वृतीयगे घेया मन्दा भानी चतुर्थगे ॥ ३३ ॥

यक्राः पञ्चमपद्मेऽके त्यति यक्रा नगाएके ।

नयमे दशमे भानी जायते फुटिलागतिः ॥ ३४ ॥

द्वादशैकादशे भानी जायते शीघ्रतां पुनः ।

अष्टदशतां पुनर्लोपं प्रजन्त्यर्कयुता ग्रहाः ॥ ३५ ॥

सं० टी०—सूर्यमुक्ताः सूर्यत्यक्त्याः किन्तु सिद्धान्ते दक्षेन्दवः शैलभुपथ  
( १७ ) शकाः ( १४ ) रुद्राः ( ११ ) खचन्द्राः ( १० ) तिथयः  
( १५ ) क्रमेण ।

चन्द्रादितः काललवा निरुक्ता शशुक्रयोर्वक्रमयोर्द्विहीनाः ।

‘इति पठिता ये स्वस्वसमयांशास्तदधिकैः सूर्यादन्तरिता ये खेटास्ते चो-  
दिताः स्युः । एवं येभ्यो ग्रहेभ्योऽर्के सूर्येद्वितीयगे द्वितीयस्थानगते तदा ते खेटाः  
शीघ्राः शीघ्रगत्याः । एवं येभ्यस्तृतीयगे भानौ सति ते खेटाः समाः समसंज्ञका  
शेयाः । तथा येभ्यश्चतुर्थगे भानौ ते मन्दसंज्ञकाः ॥ ३३ ॥

तथा येभ्य पञ्चमषड्भे पञ्चमे षड्भेचार्के रवी ते वक्राः वक्रसंज्ञकाः । तथा  
येभ्यो नगाष्टके सप्तमे चाष्टमे सूर्ये ते खेटा अतिवक्रा अतिवक्रसंज्ञका । एवं  
येभ्यो नवमे दशमे भानौ तेषां कुटिला गतिर्जायते । अर्थात्ते कुटिलगति-  
संज्ञकाः ॥ ३४ ॥

एवं येभ्यो द्वादशे त्रयोदशे भानौ तेषां गतिर्पुनः शीघ्रता जायते किन्तु  
ते खेटाः शीघ्रगतिसंज्ञकाः स्युः । अर्कयुता ग्रहा ये ते चादृश्यतां पुनर्लोपं व्रजन्ति  
प्राप्नुवन्ति । अर्थात्सूर्यात्स्वस्वकालांशान्तर्गता ये खेटास्ते चादृश्यसंज्ञका  
लोपसंज्ञकाश्चेति । एतै रोटानामुदयादिलक्षणं प्रदर्शितमिति ॥ ३५ ॥

भा० टी०—सूर्य से मुक्त ग्रह\* उदय को प्राप्त है तथा जिस ग्रह से

\* श्री भारवराचार्य ने कालांश पठित किया है यथा “दक्षेन्दव १२ शैलभुपथ  
१७ शका १४ रुद्रा ११ खचन्द्रा १० तिथयः १५ क्रमेण । चन्द्रादित काललवा  
निरुक्ता श शुकुक्रयोर्वक्रमयो द्विहीनाः ॥ १ ॥

चन्द्रादि ग्रहों का क्रम से १२, १७, १४, ११, १०, १५ कालांश है तथा  
‘शुक्र’ ग्रह का १२ शुक्र ८ कालांश है अर्थात् ये ग्रह जब सूर्य से अपने अपने अंश  
शुन्य अंश सूर्य से अधिक रहते हैं । तब उदित रहते हैं तथा पठित कालांश के अन्त-

सूर्य द्वितीय में वह ग्रह शीघ्र गति को प्राप्त होता है । जिस ग्रह से तीसरे सूर्य हों वह सम संज्ञक जिस से चतुर्थ में सूर्य हों वह मन्द संज्ञक होता है ॥ ३३ ॥

जिससे पञ्चम तथा षष्ठम में सूर्य हों वह बकी तथा सप्तम अष्टम में सूर्य हो वह अतिबकी और जिस से नवम दशम सूर्य हो वह कुटिल गति को प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥

तथा जिस से एकादश तथा द्वादश स्थान में सूर्य हो वह फिर शीघ्रता को प्राप्त होता है पुनः सूर्य से संयुक्त ग्रह पुनः अस्तगत हो जाते हैं ॥ ३५ ॥

अथ ग्रहणां सौम्यासौम्य लक्षणमाह—

शान्यकर्कराहुकेत्वाराः क्रूराः शेषाः शुभग्रहाः ।

क्रूरयुको युधः क्रूरः क्षीणचन्द्रस्तथैव च ॥ ३६ ॥

क्रूरा पक्राः महत्क्रूराः सौम्याः घक्रा महच्छुभाः ।

सहजाः स्यु स्वभावस्थाः सौम्याः क्रूराश्च शीघ्रगाः ॥ ३७ ॥

\*यंक्रोच्चगः स्वगेहेषु पूर्णवीर्यो भवेद्ग्रहः ।

तदप्रपृष्ठगे खेटे धलं त्रैराशिकाद् भवेत् ॥ ३८ ॥

सं० टी०—शनिरविराहुकेतुमौमाः क्रूराः पापग्रहाः स्युः शेषा बुधशुक्र-शुक्रपूर्णचन्द्राः सौम्याः शुभग्रहाः स्युः । यदि युधः क्रूरदुर्गः पापखेटेन सह

गंत रहते है तो अस्तगत रहते है । जैसे जब कि चन्द्रमा सूर्य से १२ अंश से अधिक अंश तुल्य पीछे रहता है तब उदित, १२ अंश के अन्तर्गत होता है तो अस्त हो जाता है पुनः जब सूर्य का साथ कर १२ अंश से अधिक हो जाता है तब उदय को प्राप्त होता है । एवं सभी ग्रह अपने कार्यांश के अन्तर्गत रहने अस्तगत तथा अधिक रहने पर उदित रहने हैं ।

• बक्रोदयग्रहर्ष्येभिर्नि पाठान्तरम्

संस्थितस्तदा पाप स्यात् । क्षीणचन्द्र किन्तु कृष्णपक्षीयैकादशीमारम्य शुक्र-  
पक्षमां यावदिन्दुस्तथा स्यादर्थात्पाप एव स्यात् ॥ ३६ ॥

सं० टी०—यदि क्रूरा प्रदर्शितपापखेटा वक्रा किन्तु पूर्वकथितवक्रलक्षणो  
पयुक्तस्तदा ते महत्क्रूरा अतिपापग्रहा स्यु । यदि सौम्या शुभग्रहा वक्रास्तदा ते  
महच्छुभा अतिशुभकारका स्यु । यदि स्वभावस्था समाख्या रोदास्तदा सहजा  
सहजफलदा स्वभाविकफलदा स्यु । यदि सौम्याः शुभग्रहा शीघ्रगा पूर्ववि-  
हितशीघ्रलक्षणलक्षितास्तदा त क्रूरा पापफलदा स्यु । चशब्दोपादानात्क्रूरा  
पापग्रहा यदि शीघ्रगास्तदा ते सौम्या शुभफलदा स्यु ॥ ३७ ॥

यो ग्रहो वक्रोच्चमस्तथा स्वगेहेषु स्थित स च पूर्णवीर्य पूर्णबली भवेत् ।  
तद्ग्रहपृष्ठमे कथितस्थानात्पूर्वापरस्थे खेटे सतित्रैराशिकादनुपाताद्बलं भवेत् । एतै  
खेटानां क्रूरादिवलक्षणं प्रदर्शितम् ॥ ३८ ॥

भा० टी०—शनि सूर्य राहु केतु और मंगल ये पांच पाप ग्रह हैं शेष  
बुध बृहस्पति शुक्र और पूर्ण चन्द्र ये शुभ ग्रह है परम बुध पाप ग्रहों के  
साथ से पापग्रह तथा क्षीण चन्द्रमा\* भी पापग्रह होते हैं ॥ ३६ ॥

पाप ग्रह यदि बक्री हों तो अत्यन्त पापी तथा बक्री शुभ ग्रह अति  
शुभ ग्रह हो जाते हैं । पूर्वांकित रीति से सम सङ्गक ग्रह सहज ही ( अर्थात्  
शुभ ग्रह शुभ पाप ग्रह पापी ही ) रह जाते हैं । तथा कथित प्रकार से शीघ्र  
सङ्गक शुभ ग्रह पापी तथा पाप ग्रह शुभ हो जाते हैं ॥ ३७ ॥

बक्री तथा उच्च राशि और निज राशि स्थित ग्रह १ पूर्ण बली होस्ते हैं  
इन स्थानों से आगे पीछे रहने वाले ग्रहों के बल का ज्ञान त्रैराशिक से करना  
चाहिये ॥ ३८ ॥

\* क्षीणचन्द्र पूर्णचन्द्रयोर्लक्षणमाह वसिष्ठेन—

सपूर्णन्दूभयाष्टम्यो मध्येन्दु पूर्ण सङ्गक ।

विनष्टेन्दूभयाष्टम्यो मध्ये सौ क्षीण सङ्गक ॥ १ ॥ गोविन्दशर्मा ।

सपूर्णं दु पूर्णमा-

संशब्दम्-३ च राशी बिल मे च बल नान्यै हरिष्यते ।

शरररादि बहुत्वाच्च तरमारवोच्येऽति बक्तिरे ॥ १ ॥ गोविन्दशर्मा ।



एवं शुभ पाप तथा बल मार्ग उच्च नीच आदि स्थानों द्वारा बल का अच्छी प्रकार ज्ञान करके फल कहना चाहिये ॥ ४२ ॥

यदि ग्रह बन्धी हो तो फल को द्विगुणित करे, उच्च का हो तो त्रिगुणित शीघ्र संशक हो तो स्वभावज और नीच राशि का हो तो अर्द्ध १/२ फल होता है ॥ ४३ ॥

अथ बालारिष्टस्य समय ज्ञानमाह —

सबलेत्र ग्रहे पापे दिनमात्रं विधीयते ।

मध्ये बले तथा मासो वर्षं चैवाबले तथा ॥ ४४ ॥

बलान्विते शुभे चापि वर्षं विद्याद्यथातथम् ।

मध्ये बले तथा मासं क्षोण चोयं तथा दिनम् ॥ ४५ ॥

सं०टी०—पापे ग्रहे बेधकारके पापग्रहे सबले पूर्णबले सति दिनमात्रं रिष्ट विधीयते बराहमिहिरादिभिः कथ्यते । तथा बेधकारके पापग्रहे मध्ये बले मध्यबले सति मासः किन्तु मासप्रमाणेन रिष्टं कथ्यते । तथा बेधकारके पापग्रहे चाबले बलरहिते सति वर्षं वर्षमानेन रिष्टं कथ्यते ॥ ४४ ॥

अनुपात—यदि ग्रह उच्च राशि से नीच राशि के अन्तर्गत हो तो यों बल जाना चाहिये कि उच्च नीचान्तर तुल्य १८० अंश में आधा बल पाते हैं तो उच्च करके रहित ग्रह तुल्य अंश में क्या । पर जो फल आवे उस रूप में से पयवे तो इष्ट स्थानीय बल होता है । तथा यदि नीच राशि से उच्च राशि के अन्तर्गत हो तो यों अनुपात करे कि नीचोच्चान्तर तुल्य १८० अंश में आधा बल पाते हैं तो नीचोचान्तर तुल्य अंश में क्या । पर जो फल आवे उसे स्पार्द्ध में युक्त कर दे इष्ट स्थानीय बल होता है ।

$$( १ ) \quad \frac{१ \times \text{उच्चोचान्तरग्रहान्तरांश}}{२ \times १८०} = \text{फल, स्पार्द्ध तदा बलं स्यात् ।}$$

$$( २ ) \quad \frac{१ \times \text{नीचोचान्तरग्रहान्तरांश}}{२ \times १८०} = \text{फल, फलं स्पार्द्धं युक्तं बलं स्यात् ।}$$

सं० टी०—वा अथवा वेधकारके शुभे शुभग्रहे सति यथातथं यथाहमानेन वर्षे रिष्टं विधातुं जानीयान् गणक इति शेषः । तथा वेधकारके शुभखेटे मध्ये बले समबले सति मासं मातमानेनारिष्टम् । तथा वेधकारके शुभखेटे क्षीणवीर्ये नष्टबले सति दिनं दिनमानेन रिष्टम् ॥ ४५ ॥

भा० टी०—यदि वेध कारक पाप ग्रह बलवान् हों तो वेध कारक पाप ग्रह जिस राशि में स्थित हों तो तद्वत् एकोन विंशतिः कर्क इत्यादि के अनुसार तद्देशिगत अंक तुल्य दिन पर बालारिष्ट कहना चाहिये । एवं पाप ग्रह यदि मध्य बली हो तो कथित प्रकार से ग्रहगतांक तुल्य मास पर बालारिष्ट कहना चाहिये एवं दुर्बल हों तो वेधकारक पापग्रहगतांक तुल्य वर्ष पर बालारिष्ट कहना चाहिये ॥ ४४ ॥

यदि वेध कारक शुभ ग्रह बलवान् हों तो शुभग्रहगतांक तुल्य वर्ष पर, मध्य बली हों तो तद्देशि गतांक तुल्य मास पर और क्षीण बल हों तो तद्देशि गतांक तुल्य दिन पर बालारिष्ट कहना चाहिये ॥ ४५ ॥

अथ जन्मलग्नवशेन बालारिष्टमाह—

पापग्रहयुते लग्ने युते वा शत्रुचोक्षिते ।

तदा दिनं भवेत्तस्य मरणाय सुनिश्चितम् ॥ ४६ ॥

सं० टी०—जन्मलग्ने पापग्रहयुते शत्रुणा युते वा दृष्टे सति तदा तस्य बालस्य दिनं तदहमानेन दिनं मरणाय सुनिश्चितमिति ॥ ४६ ॥

भा० टी०—यदि त्रिपताकि चक्र में जन्म लग्न पाप ग्रह से अथवा शत्रु से युक्त वा दृष्ट हो तो जन्म लग्न गतांक तुल्य दिन पर बालक की मृत्यु होती है ॥ ४६ ॥

तुल्यदृष्टिद्वयोर्वापि तुल्य योगो भवेद्यदि ।

तदा मासं विधातव्यं ग्रहाणां च बलावलम् ॥ ४७ ॥

सं० टी०—यदि जन्मलग्ने द्वयोः शुभाशुभयोस्तुत्या दृष्टि स्यात् । वा तत्र तुल्यशुभाशुभयोर्योगः किन्तु जन्मलग्ने शुभाशुभयोर्वेत्ते समता भवेत् । तदा ग्रहणां बलावलमेवावगम्य मासं मासप्रमाणेनाहृत्युत्प्रेन रिष्टं विधातव्यं ज्ञेय-

मिति अत्रेदमवधेयम् । शुभग्रहे बलवति सति पापस्त्रे बलरहिते सति तदा मासो ज्ञेयः । अन्यथा दिनानि । तयोक्तमन्यत्र "असद्वृत्तयोर्बलशून्यैर्दिनानि विमिश्रेण मासा बलात्तारतम्यमिति ॥ ४७ ॥

भा० टी०—यदि जन्म लग्न शुभ तथा पापग्रह दोनों से तुल्य दृष्ट हो अथवा शुभाशुभ ग्रहों से युक्त हो तो जन्मलग्न गत अंक तुल्य मास पर बालारिष्ट कहे । उसमें भी यदि शुभ ग्रह अधिक बलवान् हो तो मास संख्या तथा यदि पाप ग्रह अधिक बलवान् हो तो तत्संख्या तुल्य दिन पर ही अरिष्ट को कहे ॥ ४७ ॥

शुभदृष्ट शुभयुते शुभस्थानस्थितेषु वा ।

तदा वर्षे विजानीयात्स्वामिना दृश्यते यदि ॥ ४८ ॥

स० टी०—जन्म लग्ने शुभग्रहवेषे सति शुभैर्दृश्यते सति वा पुनरपि शुभस्थानस्थिते शुभग्रहस्य राशी प्राप्ते सति तदा वर्षे तदङ्गमानेन रिष्टं विजानीयाद्गणक इति शेषः । अथवा शुभग्रह वेषेसति जन्मलग्ने स्वस्वामिना युते दृष्टे सति तथैव वर्षं बोध्यम् । तयोक्तमन्यत्रापि शुभस्थानभोगेभ्यः समास्तु ॥ ४८ ॥

भा० टी०—यदि जन्मलग्न शुभ ग्रहवेषे विद्ध हो तथा शुभ ग्रहो दृष्ट युक्त हो अथवा जन्मलग्न शुभ ग्रहबी राशि हो तो लग्न गतक के तुल्य वर्ष पर बालारिष्ट कहुना चाहिये । अथवा यदि जन्मलग्न शुभ ग्रहवेषे विद्ध हो तथा यदि अपने स्वामि ने दृष्ट हो तो लग्न गत तुल्याह वर्ष पर बालारिष्ट कहुना चाहिये ॥ ४८ ॥

अथान्य प्रकारेणरिष्टमाह—

अशुभे दृष्टसंयोगे क्षोणे पापयुते यदि ।

शुभ ग्रहाः प्रपद्यन्ति तत्र वर्षाणि योजयेत् ॥ ४९ ॥

स० टी०—यदा दृष्टेक्षो पापस्त्रे सति तत्रापुनः क्षीने नीवारिभाजनवशाद् बलरहिते सति तथा जन्मलग्ने पापग्रहयुते सति दिनानि । तत्र यदि बलग्रहः शुभस्त्रे जन्मलग्नं प्रपद्यन्ति तदा वर्षाणि तदङ्गानुसृत्यवर्षमानेनारिष्टं भोगयेज्जानीयात् ॥ ४९ ॥

भा० टी०—यदि जन्मलग्न दृश्यमाण रीति से पाप दण्डेश से युक्त हो तथा दण्डेश चलहीन हो और जन्म लग्न पाप ग्रहसे युक्त हो ऐसी उपस्थिति में यदि बलवान् शुभ ग्रह जन्म लग्नको देखते हों तो वहाँ पर जन्मलग्न गत अथवा तुल्यवर्ष में अरिष्ट जाने ॥ ४९ ॥

वर्गोत्तमे स्वतुङ्गे वा केन्द्रे च गुरु भार्गवौ ।

तथापि प्रयत्ने पापे वर्षं भागो न लभ्यते ॥ ५० ॥

सं० टी०—यदि गुरुभारगवौ वर्गोत्तमे वर्गोत्तमाख्ये नवांशे । वा स्वतुङ्गे निजोच्चे स्थितौ रात्रौ केन्द्रेऽपि भवेतां तथापि पापे वेधकारकपापग्रहे प्रयत्ने बलविषये घटि तदा वर्षं भागो न लभ्यते वर्षंमार्गेनरिष्टं न जायते किन्तु दिनप्रमाणेन रिष्टं बोध्यम् ॥ ५० ॥

भा० टी०—यदि बृहस्पति शुक्र दोनों वर्गोत्तम नवांश में स्थित होकर या निजोच्च में स्थित होकर केन्द्र में हों तो भी यदि वेध कारक पाप ग्रह बलवान् हों तो ऐसी स्थिति में प्राक्ताद् तुल्य वर्षं न कट करके तत्तुल्य दिन प्रमाण ही अरिष्ट के लिये कहना चाहिये ॥ ५० ॥

स्वमतं वाद—

विद्धे ऋक्षप्रितयस्यै दिनमात्रं विधीयते ।

पतदुक्तं मम मतं शिशोरिष्टं च सर्वदा ॥ ५१ ॥

स० टी०—यदि जन्मलग्ने ऋक्षप्रितयस्यै, किन्तु राशिप्रयगतैर्भूद्विद्धे ऽस्ति तदा दिनमात्रं रिष्टं विधीयते । एतन्मम मतं यदुक्तं तत्सर्वदा शिशोर्बालस्य रिष्टं ज्ञेयम् ॥ ५१ ॥

भा० टी०—ग्रन्थकार का यह मत है कि यदि जन्म लग्न तीनों राशिमत ग्रह से विद्ध हो तो तद्वत्ताद् तुल्य दिन पर अरिष्ट कहना चाहिये । अर्थात् यदि राशिप्रय मत ग्रहों से विद्ध होगा तो अवश्य तद्वत्ताद् दिन पर अरिष्ट हीया ॥ ५१ ॥

शुभ लक्षणमाह—

शुभे च दण्ड संयोगे सर्वथा पाप वर्जिते ।

बालस्य कुशलं सर्वं शुभे यदि युतेक्षिते ॥ ५२ ॥

सं० टो०—अनेन दण्डेशार्धयामेशयोर्वशात्फलं दक्षितम् । यद्यथा । वक्ष्यमाणविधिना दण्डेशे शुभग्रहे सति तथा सर्वथा वेधार्धयामेशयोर्मध्ये पापवर्जिते पापखेटसम्बन्धाभावे सति पुनर्यदि जन्मलग्ने शुभग्रहेयुतेक्षिते सति तदा बालस्य सर्वं सर्वथा कुशलं कल्याणं कैययेत् न चारिष्ट-मित्यर्थः ॥ ५२ ॥

भा० टो०—यदि वक्ष्यमाण विधि से दण्डेश ग्रह हों तथा जन्म लग्न किसी पापग्रह से विद्ध न हो वक्ष्यमाण रीति से अर्धयामेश भी पापग्रह न हो एवं सर्वथा पाप ग्रह का अभाव हो ऐसी स्थिति में जन्म लग्न यदि शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो बालक के लिये निरन्तर कुशल ( कल्याण ) कहना चाहिये ॥ ५२ ॥

अशुभ लक्षणमाह—

अशुभे दण्ड संयोगे सर्वत्र शुभवर्जिते ।

बालस्य मरणं शीघ्रं यदि पापैर्युतेक्षिते ॥ ५३ ॥

सं० टी०—अत्रापि दण्डेशार्धयामेशयोः सम्बन्धात्फलमुक्तम् । तथा । अशुभे पापग्रहे दण्डाधिपे सति तथा सर्वत्रेति पदबलाद्देधार्धयामेशयोर्मध्ये शुभवर्जिते शुभखेटसम्बन्धाभावे सति किन्तु तद्द्वयं पापग्रहाणामेवास्ति तथा जन्मलग्ने पापैर्युतेक्षिते सति तदा बालस्य शीघ्रं मरणं स्यात् । अत्रेदमवधेयम् दण्डेशस्य पापामावे रिष्टमात्रं नच मरणम् । तथोक्तमन्यत्र ।

पापार्धग्रहरे जन्म पापदण्डेऽथवा पुनः ।

लग्ने पापे यदा जातस्तदा मृत्युर्न संशयः ॥ ५३ ॥

भा० टी०—वक्ष्यमाण विधि से दण्डेश पाप ग्रह हो सभी जगह शुभ ग्रह का अभाव हो ( अर्थात् वेध कारक ग्रह तथा अर्धयामेश ये भी शुभ ग्रह

न हों ) ऐसी स्थिति में यदि जन्म लग्न पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो अति शीघ्र ही बालक की मृत्यु होती है ॥ ५३ ॥

१ अयार्धयामेशानाह—

• दिवा पट्क क्रमेणैव रात्रौ पञ्चक्रमेण च ।

वारेशाद्धेयामानां पतयः कीर्तिताः बुधैः ॥ ५४ ॥

सं० टी०— दिवा दिने पट्कक्रमेण पट्सङ्ख्या परिवर्त्तनेनाऽर्धयामाधिपाः । रात्रौपञ्चक्रमेण पञ्चसङ्ख्यापरिवर्त्तनेन चार्धप्रहरेशाः स्युः । इत्येवं बुधैर्वारेशाद्द्वारेशमारभ्यार्धयामानां पतयः कीर्तिता । अत्रेदमवधेयम् । यस्मिन् दिनेऽर्धयामेशस्य ज्ञानमर्भाष्टं तद्दिने दिनमानमष्टधाविभज्य प्रथमखण्डस्याधिर्षं तद्दिनेशं कृत्वा तस्मादिनेशात्पष्ठग्रहं द्वितीयखण्डाधिर्षं ततो द्वितीयखण्डेशात्पुनः षष्ठग्रहं तृतीयखण्डाधिर्षं जानीयादेवमत्रेपीष्टदण्डं यावदिति । तद्यथा । रविदिने प्रथमार्धयामेशो वारेशरूपो रविरेव तस्मात्पष्ठशुक्रः स च द्वितीयार्धयामेशः । एवं तृतीयेशो बुधः ३ । चतुर्थेशश्चन्द्रः ४ । पञ्चमार्धयामस्य पतिः शनिः । ततः षष्ठेशो गुरुः । सप्तमार्धयामाधिपतिः कुजः । अष्टमाधिपतिः पुनर्वारेशः सूर्य एव । एवमन्यवारेषु बोध्यम् ।

अथ रात्रावपि प्रथमार्धयामेशं वारेशं कृत्वा ततस्तस्माद्द्वारेशात्पञ्चमोग्रहो द्वितीयार्धयामाधिपतिः । एवं ततस्ततः पञ्चसङ्ख्यायां तृतीयार्धयामानां पतयः स्युः । तद्यथा । रविरात्रायाद्यार्धयामेशो रविः । १ । ततो द्वितीयस्य पतिर्गुरुः । २ । तृतीयस्येन्दुः । ३ । चतुर्थस्य शुक्रः । ४ । पञ्चमस्य मङ्गलः । ५ । षष्ठस्य शनिः । ६ । सप्तमस्य बुधः । ७ । अष्टमस्य सूर्यः । एवमन्यवारिणामपि रात्रिषु बोध्यम् ॥ ५४ ॥

भा० टी०—दिनमें आठ अर्द्ध प्रहर होते हैं एवं रात्रिमें भी आठ अर्द्ध प्रहर होते हैं । दिनमें यदि अर्द्धयामेश जानना हो तो प्रथम अर्द्ध प्रहर दिवसाधिपति का होता है द्वितीय उससे षष्ठ प्रहकर एवं तृतीयादि का भी विचार करना चाहिये । यथा रविवार को दिनमें प्रथमार्द्धयामेश सूर्य द्वितीय शुक्र तृतीय बुध चतुर्थ चन्द्र, पञ्चम शनि, षष्ठ वृहस्पति सप्तम मङ्गल अष्टम पुनः सूर्य

अर्धयामेश होते हैं । तथा रात्रिमें पञ्चम २ प्रहृके-परिवर्तन से अर्ध यामेश होते हैं ।

यथा रविवार के रात्रि में १ सूर्य २ वृ० ३ चं० ४ शु० ५ मं० ६ श० ७ बु० ८ सू० अर्धयामेश हुए अतएव अर्धयामेशों के सुगम ज्ञान के लिये अधो लिखित चक्र नं० १ नं० २ देखिये ।

( १ )

दिवार्ययामेश चक्रम् ।

( २ )

रामावर्धयामेश चक्रम् ।

१	सू	चं	मं	बु	वृ	शु	श
२	शु	श	र	चं	मं	बु	वृ
३	वृ	वृ	शु	श	र	चं	मं
४	चं	मं	बु	वृ	शु	श	र
५	श	र	चं	मं	बु	वृ	शु
६	वृ	शु	श	र	चं	मं	बु
७	मं	बु	वृ	शु	श	र	चं
८	सू	चं	मं	बु	वृ	शु	श

१	सू	चं	मं	बु	वृ	शु	श
२	वृ	शु	श	र	चं	मं	बु
३	चं	मं	बु	वृ	शु	श	र
४	शु	श	र	चं	मं	बु	वृ
५	मं	बु	वृ	शु	श	र	चं
६	श	र	चं	मं	बु	वृ	शु
७	बु	वृ	शु	श	र	चं	मं
८	सू	चं	मं	बु	वृ	शु	श

अर्धयामेशान् स्पष्टयति—

अर्कः शुक्रोः बुधश्चन्द्रो मन्दो जीवः कुजो रविः ।

अर्कोः जीवः शशो शुक्रः बुजो मन्दो बुधो रविः ॥ ५१ ॥

भा० टी०—पूर्व प्लोक में वारेश से “दिवा षट्क रात्रौ पञ्च क्रमेण” अर्धयामेश को कहे है उसो को स्पष्ट कर देने हैं कि दिन में वारेश से सू० शु० बु० चं० श० वृ० मं० १० और रात्रि में वारेश से सू० वृ० चं० शु० मं० श० बु० सू० के क्रम से अर्ध यामेश होते हैं ॥ ५५ ॥

अथ दिवा दण्डेशानाह—

दिवा यामार्धपस्त्वाद्यो दण्डेशः परिकीर्तितः ।

प्रोक्ता ग्रहाः क्रमेणात्र चत्वारो दण्डनायकाः ॥ ५६ ॥

सं० टी०—दिवा दिने यस्मिन् अर्धयामे दण्डेशस्य ज्ञानमभिमतं तदाऽऽद्यो दण्डेशस्त्वर्धयामाधिप एव परिकीर्तितः । ततः क्रमेणार्धादक्ष्यमाणार्धाधिपरीत्या चैवं चत्वारो दण्डनायका दण्डेशाः प्रोक्ताः कथिता गणकेनेति शेषः ।

अत्रेदमवधेयम् । दिने चाभीष्टार्धयामप्रमाणस्यचत्वारो भागा विधेयाः । तेषां विभागानां दण्डाख्या ग्रन्थे कथिता इति । तत्रार्धयामेशो यः स एवाद्यो दण्डेशः । तदर्धतुल्यग्रहो द्वितीयभागस्य दण्डाभिधस्येशः । पुनस्तदर्थं तृतीयस्येशः । पुनस्तदर्थं चतुर्थेशः । तद्यथा । रविदिने प्रथमार्धयामेशो रविरेव स चात्राद्यो दण्डेशश्च । तदर्धपरि मितो राहुर्द्वितीयदण्डेशः । पुनस्तत्सङ्ख्याार्धसमा बुधस्तृतीयेश । पुनस्तद्वलेन द्विकेन समद्वन्द्वतुर्थदण्डेशः । एवं सर्वेषामर्धयामानां प्रमाणं चतुर्धा विभज्यार्धाधिकमरीत्या दण्डेश्वरो बोध्यः ॥ ५६ ॥

भा० टी०—दिन में जिस अर्धयाम में दण्डेश ज्ञान अभिमत हो उस में प्रथम दण्डेश अर्धयामेश ही होता है तथा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ दण्डेश वक्ष्यमाण प्रकार से अर्ध २ प्रक्रम से जो ग्रह कहे गये हैं वे होते हैं । एवं प्रत्येक अर्धयाम में चार दण्डेश होते हैं । यथा रविवार को प्रथम अर्धयाम में प्रथम दण्डेश रवि, द्वितीय दण्डेश वक्ष्यमाण रवेरर्ध भवेद्राहु के रीति से राहु तृतीय दण्डेश राहोरर्ध बुधस्तथा से बुध चतुर्थ दण्डेश बुधस्यार्ध शशी श्रेयः से शशि बुधा एवं सभी अर्धयामों में दण्डेश का आनयन करना चाहिये ॥ ५६ ॥



दिने दण्डेशानां क्रममाह—

रवे रर्धे भवेद्राहू राहो रर्धे बुधस्तथा ।

बुधस्यार्धे शशी क्षयश्चन्द्रस्यार्धे दिवामणिः ॥ ५७ ॥

भौमस्यार्धे तथा सूर्यो गुरोरर्धे हि चन्द्रमा ।

शुक्रस्यार्धे कुजो ज्ञेयः शनेरर्धे तथैव च ॥ ५८ ॥

सं० टी०—अत्र यदा सावयता सङ्ख्या स्यात्तदा तदवयवमपहाय पूर्णसङ्ख्या प्राप्ता । तथा शून्यस्थलेराहुः । एवं राहुसङ्ख्यावारर्धे कर्तव्ये चाष्टसङ्ख्यावारर्धे विधेयं यतो राहुरष्टमो ग्रहः ॥ ५७ ॥ ५८ ॥

भा० टी०—रवि का अर्ध राहु, राहु का अर्ध बुध, बुध का अर्ध चन्द्रमा चन्द्रमा का अर्ध सूर्य होता है । तथा मंगल का अर्ध सूर्य, शुक्र का अर्ध चन्द्रमा शुक्र का अर्ध मंगल और शनि का भी अर्ध मंगल होता है इसी अर्धार्ध के क्रम से प्रत्येक अर्धयाम में दण्डेश होते हैं जिस को ग्रन्थकार ने भी-अप्रिम श्लोक “रवि शिखि बुध चन्द्रा-” इत्यादि स्पष्ट से स्पष्ट दिखाया है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥

अथ दिने दण्डेशान् स्पष्टयति—

रविशिखिबुधश्चन्द्राश्चन्द्रसूर्यासुरक्षाः

कुजरविदनुजज्ञा श्नेन्दुसूर्यासुराश्च ।

गुरुशाशरविदैत्याः शुक्रभौमार्कदैत्याः ।

शानिकुजरविदैत्याः स्युर्दिवा दण्डपालाः ॥ ५९ ॥

सं० टी०—अत्र रवेरर्धयामे रम्यादिवचनान्ता । एव चन्द्रार्धयामे चन्द्रा-दिष्वचान्ताः । कुजरर्धयामे कुजादि बुधावधिकः । बुधार्धग्रहरे बुधादिराहन्ताः । गुरुवारे गुरोराहुग्रहावधिकः । शुक्रार्धयामे शुक्रादिराहुं यावत् । एवं शनिवारे शानिमारभ्य राहुग्रहं यावत् । इत्येवं दिने दण्डेश्वराः स्युः ॥ ५९ ॥

भा० टी०—यदि दिन में दण्डेश का ज्ञान का अभिमत हो तो सूर्य के अर्धयाम में प्रथम दण्डेश सूर्य द्वितीय दण्डेश राहु तृतीय दण्डेश बुध चतुर्थ दण्डेश चन्द्रमा होते हैं चन्द्रमा के अर्धयाम में प्रथम दण्डेश चन्द्रमा द्वितीय सूर्य तृतीय राहु और चतुर्थ दण्डेश बुध, बुध के अर्धयाम में बुध चन्द्रमा सूर्य राहु और बृहस्पति के अर्धयाम में बृहस्पति चन्द्रमा सूर्य राहु, शुक के अर्धयाम शुक मंगल सूर्य राहु और शनि के अर्धयाम में क्रमशः, शनि मंगल सूर्य राहु दण्डेश्वर होते हैं ॥ ५९ ॥



सूर्यवासरे

चन्द्रवासरे

भोमादने

अ.	प्र.	द्वि.	तृ.	च.	अ.	प्र.	द्वि.	तृ.	च.	अ.	प्र.	द्वि.	तृ.	च.
	द.	द.	द.	द.		द.	द.	द.	द.		द.	द.	द.	द.
१	सु.	रा.	बु.	चं.	१	चं.	सु.	रा.	बु.	१	मं.	सु.	रा.	बु.
२	शु.	मं.	सु.	रा.	२	श.	मं.	सु.	रा.	२	सु.	रा.	बु.	चं.
३	बु.	चं.	सु.	रा.	३	बु.	चं.	सु.	रा.	३	शु.	मं.	र.	रा.
४	चं.	सु.	रा.	बु.	४	मं.	सु.	रा.	बु.	४	बु.	चं.	सु.	रा.
५	श.	मं.	सु.	रा.	५	सु.	रा.	बु.	चं.	५	चं.	सु.	रा.	बु.
६	बु.	चं.	सु.	रा.	६	शु.	मं.	र.	रा.	६	श.	मं.	र.	रा.
७	मं.	सु.	रा.	बु.	७	बु.	चं.	र.	रा.	७	बु.	चं.	सु.	रा.
८	सु.	रा.	बु.	चं.	८	चं.	सु.	रा.	बु.	८	मं.	सु.	रा.	बु.

## बुध दिने

## शुक्र दिने

अ.	प्र. द.	दि. द.	वृ. घं.	च. द.		अ.	प्र. द.	दि. द.	वृ. घं.	च. द.	
	१	२	३	४			१	२	३	४	
	१	घ.	चं.	र.	रा.		१	घ.	चं.	र.	रा.
	२	घ.	र.	रा.	घु.		२	मं.	र.	रा.	घु.
	३	श.	मं.	र.	रा.		३	र.	रा.	घु.	घं.
	४	घृ.	घं.	र.	रा.		४	घृ.	मं.	र.	रा.
	५	मं.	र.	रा.	घु.		५	घु.	घं.	र.	रा.
	६	र.	रा.	घु.	घं.		६	घं.	र.	रा.	घु.
	७	घृ.	मं.	र.	रा.		७	श.	मं.	र.	रा.
	८	घु.	घं.	र.	रा.		८	घृ.	घं.	र.	रा.

## शुक्राशमरे

## शनिशमरे

अ.	प्र. द.	दि. द.	वृ. घं.	च. द.		अ.	प्र. द.	दि. द.	वृ. घं.	च. द.	
	१	२	३	४			१	२	३	४	
	१	घृ.	मं.	र.	रा.		१	श.	मं.	र.	रा.
	२	घु.	घं.	र.	रा.		२	घृ.	घं.	र.	रा.
	३	मं.	र.	रा.	घु.		३	मं.	र.	रा.	घु.
	४	श.	मं.	र.	रा.		४	र.	रा.	घु.	घं.
	५	घृ.	घं.	र.	रा.		५	घृ.	मं.	र.	रा.
	६	मं.	र.	रा.	घु.		६	घु.	घं.	र.	रा.
	७	र.	रा.	घु.	घं.		७	घं.	र.	रा.	घु.
	८	घृ.	मं.	र.	रा.		८	श.	मं.	र.	रा.

अथ दिनरात्र्योर्दण्डेशानाह—

दिवाधं प्रक्रमेणैव यामार्धशाब्दं दण्डपाः ।

रात्रौ पट् क्रमेणैव तदीशा यामखण्डपात् ॥ ६० ॥

सं० टी०—अत्र पूर्वदिने दिने दण्डेशाः प्रदर्शिताः । तस्यार्धस्तु पूर्वमेव प्रकृतः कृत । अथोत्तरार्धं व्याख्यायते । रात्रौ यामखण्डपादर्धयामेशादारभ्य पट्क्रमेण पट्परिवर्तनवशेन तदीशा दण्डपाः स्युः ।

अग्नेदगवधेयम् । रात्रावपि यस्मिन् यामार्धेदण्डेशरोऽभीष्टस्तु दार्धयामस्या-  
चतुर्थांशस्य दण्डाख्यस्य पतिरर्धयामेश एव । ततः पष्टो प्रहो द्वितीयदण्डेशः ।  
पुनस्तत्पष्टस्तृतीयदण्डेशः । एव ततः पष्टधत्तुर्धदण्डेशो बोध्यः ।

तथोक्तस्वरपद्याशिकायाम्—

“दिवाधंप्रक्रमेणैव शेषा दण्डेश्वरावुधै ।

निशियामार्धपात्पष्टः पष्टः क्षणदलेध्वरः ॥”

तद्यथा । रात्रौ रवियामार्धेदण्डेश्वराणां परामर्शं कर्तव्यं प्रथमदण्डेशो या  
मार्धेशरूपो रविरेव । तस्मात्पष्टप्रहः शुक्रो द्वितीयदण्डेशः । ततः पष्टो  
पुषत्तृतीयदण्डेशोः । तत्पष्टधत्तुर्धदण्डेशः । एवमन्यार्धयामेष्वपि  
विभात्यम् ॥ ६० ॥

भा० टी०—दिन में दिवाधं प्रक्रम से दण्डेश होते हैं जिसका अर्थ पूर्व  
में ही कर दिया है । उत्तरार्ध का अर्थ कहता है रात्रि में अर्धयामेश से  
पष्टमपष्टम प्रहके क्रमसे दण्डेश जानना चाहिये अर्थात् रात्रि में जिस अर्ध-  
याममें दण्डेश ज्ञान करना है उसमें अर्धयामेश ही प्रथम दण्डेश होता है तथा  
अर्धयामेश से छठवां प्रह द्वितीय दण्डेश, द्वितीय दण्डेश से पष्टम प्रह तृतीय  
दण्डेश, तृतीय दण्डेश से पष्टम प्रह चतुर्थ दण्डेश होता है । यथा रात्रि में  
रवि के अर्धयाम में दण्डेश ज्ञान करना है तो सूर्य ही प्रथम दण्डेश हुआ ।  
सूर्य से पष्ट शुक्र द्वितीय दण्डेश, शुक्र से पष्ट पुष तृतीय दण्डेश और  
पुष से पष्ट चन्द्रमा चतुर्थ दण्डेश हुआ एवं रात्रि में दण्डेश र का ज्ञान करना  
चाहिये ॥ ६० ॥

रात्रौ दण्डेश्वरान् स्पष्टयति—

रविसितबुधचन्द्राश्चन्द्रमन्देज्यभोमाः

कुजरविसितसौम्याः सौम्यचन्द्रार्किजोवाः ।

गुरुकुजरविशुक्राः शुक्रसौम्येन्दुमन्दा-

शनिगुरुकुजसूर्या रात्रिदण्डेश्वराः स्युः ॥ ६१ ॥

स० टी०—रात्रावर्क्ययामे रविमारभ्य चन्द्रं यावत् । तयेन्दुयाभदले चन्द्रादिमङ्गलान्ताः । एवं मङ्गलार्धप्रहरे मङ्गलादि बुधावधिकः । बुधार्धयामे बुधमारभ्य गुरुं यावत् । गुरोरर्धयामे गुरुमारभ्य शुक्रान्ताः । एवं शुक्रार्ध-प्रहरे शुक्रमारभ्य शन्यन्ताः । तथा शनैरर्धयामे शन्यादिरव्यन्ताः । इत्येवं रात्रौ दण्डेश्वराः स्युः ॥ ६१ ॥

अथेवं कृते सति तच्चक्राणि लिख्यन्ते ॥

भा० टी०—यदि रात्रि में दण्डेश का ज्ञान अभिमत हो तो रवि के अर्धयाम में क्रमशः रवि शुक्र बुध चन्द्रमा ये चारो ग्रह दण्डेश होते हैं, एवं चन्द्रमा के अर्धयाम में चन्द्रमा शनि गुरु मंगल, मंगल के अर्धयाम में मंगल रवि शुक्र बुध, बुध के अर्धयाम में बुध चन्द्रमा शनि बृहस्पति, बृहस्पति के अर्धयाम में बृहस्पति मंगल रवि शुक्र, शुक्र के अर्धयाम में शुक्र बुध चन्द्रमा शनि, शीर शनि के अर्धयाम में शनि बृहस्पति मंगल शीर सूर्य ये ग्रह रात्रि में क्रमशः दण्डेश होते हैं । जा कि अभिमत चक्रों से स्पष्ट है ॥ ६१ ॥

रवि रात्रौ (अथ रात्रौ दण्डेशचक्राणि) चन्द्र रात्रौ

अ.	प्र. द.	द्वि. द.	तृ. द.	च. द.		अ.	प्र. द.	द्वि. द.	तृ. द.	च. द.
१	र.	शु.	बु.	वं.		१	च.	श.	बु.	मं.
२	बु.	मं.	र.	शु.		२	शु.	बु.	वं.	श.
३	वं.	श.	बु.	मं.		३	मं.	र.	शु.	बु.
४	शु.	बु.	च.	श.		४	श.	बु.	मं.	र.
५	मं.	र.	शु.	बु.		५	बु.	वं.	श.	बु.
६	श.	बु.	मं.	र.		६	र.	शु.	बु.	वं.
७	बु.	वं.	श.	बु.		७	बु.	मं.	र.	शु.
८	र.	शु.	बु.	वं.		८	वं.	श.	बु.	मं.

कुज रात्रौ

बुध रात्रौ

गुरु रात्रौ

अ.	प्र. द.	द्वि. द.	तृ. द.	च. द.		अ.	प्र. द.	द्वि. द.	तृ. द.	च. द.		अ.	प्र. द.	द्वि. द.	तृ. द.	च. द.
१	क.	र.	शु.	बु.		१	बु.	च.	मं.	बु.		१	बु.	मं.	र.	शु.
२	श.	बु.	मं.	र.		२	र.	शु.	बु.	वं.		२	वं.	श.	बु.	मं.
३	बु.	वं.	श.	बु.		३	बु.	मं.	र.	शु.		३	शु.	बु.	च.	श.
४	र.	शु.	बु.	च.		४	च.	श.	बु.	मं.		४	मं.	र.	शु.	बु.
५	बु.	मं.	र.	शु.		५	शु.	बु.	वं.	श.		५	श.	बु.	मं.	र.
६	वं.	श.	बु.	मं.		६	मं.	र.	शु.	बु.		६	बु.	वं.	श.	बु.
७	शु.	बु.	वं.	श.		७	श.	बु.	मं.	र.		७	र.	शु.	बु.	वं.
८	मं.	र.	शु.	बु.		८	बु.	वं.	श.	बु.		८	बु.	मं.	र.	शु.

## शुक्र राशौ

## शनि राशौ

शुक्र राशौ	शनि राशौ
१ शुक्र	१ शनि
२ मंगल	२ बुध
३ शनि	३ शनि
४ बुध	४ बुध
५ मंगल	५ मंगल
६ शनि	६ शनि
७ बुध	७ बुध
८ मंगल	८ मंगल
९ शनि	९ शनि



सं० टी०—अश्लेषाहरणम् । संवत् १९३६ शकः १८०१ चैत्रकृष्ण-  
 त्रयोदश्यां सोमवासरे दण्डादिकं ३२ । ५७ पूर्वभाद्रपदशुक्ल दण्डादिकं ३८।२१  
 अश्लेषागो दण्डादिः ५४।२६ विष्टिकरणम् । मीनाकर्कशांशः ११।२६।२२।१०  
 दिनमानं ३१।६ राशिमानं २८।५४ धोमन्मार्तण्डमण्डलादौदयादिष्टं ४५।३३  
 एवं पञ्चाङ्गमुद्धौ कार्मुक्यनोदये कस्यचिज्जन्म ।


## तात्कालिकाः स्पष्टरोटाः

११	११	२	११	११	११	११	११	८
२६	४	४	६	९	९	२६	२०	
२२	५२	५६	४९	३९	३४	३	३९	
१०	०	५५	५९	३६	३८	२	५९	
५८	७७५	३४	७	१४	७३	७	३	
४६	१	९	३	४६	५६	५०	११	

अथ रात्रिमानविदं २८।५४ अष्टभिर्मर्कं लब्धमर्धयामप्रमाणं ३।३६।४५  
 अथरात्रिगतप्रमाणेऽस्मिन् १४।२७ अर्धयामसङ्घाज्ञानार्थं पूर्वानीतार्धयाम-  
 प्रमाणं चतुर्गुणं जातं १४।२७ परशेदं रात्रिगतप्रमाणेन समं स्यात्तेन चतुर्थया-  
 मार्धविरामे विहितबालस्य जन्म स्यात् । अतो यामार्धेषपरामर्शेन यामार्धेशः  
 क्षान्तिः । अथ दण्डेश्वरावगमार्थं यामार्धमानस्यास्य ३।३६।४५ चतुर्थशेनानेन  
 ०।५४।११ दण्डालयप्रमाणं जातम् ०।५४।११ परश्यास्य चतुर्गुणस्य विरामे  
 जन्म स्यात्तेनात्र दण्डेश्वरानारादनाकौ दण्डेशो जातः ।

अथ "प्रहृदानविचारे तु अन्त्येमेपं विनिर्दिशेत्" ॥ १ ॥

इति सुबोधेण जातं धिपताकीचक्रसुरूपम् ।



सं० टी०—अप्रार्थयामेशः । तथा दण्डेश्वरार्कः स च पापः । अत्र  
 क्रामुंकरूपस्य जन्मभस्य केनचिदुद्गृहेण सह पूर्वकथितदशादिवेधो नास्ति तेनात्र  
 वैप्रशशास्त्रे इति "जन्मजन्मजन्मकूरुदशकमेव" इति टीका जन्मजन्मगतदण्ड-



निष्ठो राहुः । तेन एकोनत्रिंशत्मानेन बालस्य रिष्टं ज्ञतम् । अत्रेदमवधेयम् ।  
 अर्धयामदण्डेशयोः पापत्वे सति तथा पापप्रहजनिते वेधे सति बालस्य मरणं  
 ग्रन्थकारेण विहितम् । एवं यागार्धेने तथा दण्डेशे पापे सति तथा यदि  
 वेधाभावस्तदा बालस्यारिष्टमात्रं स्यादर्थादरिष्टं लब्धा जीवेत् । अत्राचार्येणारिष्ट-  
 परामर्शे तु दण्डेशस्याति मुख्यत्वं विहितम् । अत्रोदाहरणे तु दण्डेशस्य तथार्ध-  
 यामेशस्य पापत्वं तथा जन्मलग्ने राहुमहः पापह्यस्ति तथा वेधाभावः परम  
 जन्मलग्नोपरि शनेः पूर्णदृष्टिः स्यात्तेन जन्मलग्नाद्दुमानेन महदरिष्टस्य भोगं  
 कृत्वा जीवेत् । अत्रैवं यदि पापप्रहजनितो वेधश्चेत्तदा “अशुभे दण्डसंयोगे  
 सर्वत्र शुभवर्जिते” इत्यादि पद्यबलादवश्यमेव बालस्य मरणं भवेत् । अथ  
 कदा तदरिष्टं भवेदित्युच्यते । अत्र तु गुरुमार्गेशे चतुर्थस्थानगौ तथा गुरुः  
 स्वशीघ्रोच्चगस्तथा गुरुस्तु स्वशीघ्रोच्चगनोनास्ति परत स्वराशिगतत्वेन ‘दार्शन-  
 भेस्वतुल्ये वा केन्द्रे वा गुरुमार्गेशौ’ इति विहितपदानुसारेण समाङ्केन द्वाविंशति-  
 मितेन दिनमानेनास्य बालस्य रिष्टं बोध्यम् । परमप्रापि बलाबलप्रहस्य दृष्टि-  
 साद्विहितदिनानामप्यधिष्ठानं चानुक्तमपि निजमत्वा विमान्नीयम् । अथ यत्र  
 मातृविषमकं वा धर्मविषमकं चारिष्टमायाति तदा तत्र कस्मिन्दिने तदरिष्टं  
 भवेदिति जिज्ञासायामुच्यते । यस्मिन् दिने वेधकारकस्योटेन सह चन्द्रस्य भोगो  
 भवेत्तर्हि शृङ्गुर्षदाः कर्कतुलाराशयोर्मध्ये कस्मिन्पिराशौ स्थितधन्दो वेधकारक-  
 प्रदेण सह वेधं करिष्यति तदा बालस्य मरणं भवेत् । तदुक्तं नरपति समा-  
 रुच्यग्रन्थे ‘यदिने वेधयेत्चन्द्रस्तर्हिने स्यात्पुत्रमाशुभम्’ अत्र त्रिपताकीचक्र-  
 स्थादृष्टिस्थापनमाय दानपदार्थमुच्यते । रजदशं दार्शनं तथा पापाणरार्थं गम्भदु-  
 ग्धपूरितम् । तदशक्तौ प्रबलं विदुर्म वेधकारकप्रहस्य विहितभान्यं तथा  
 दण्डेशस्य धन्यं क्लिन्नशुभाभि च । तथा ग्रन्थान्तरेरिचोः ।

धान्यं मुद्गाश्च माषाश्चित्ताश्चस्वेतसर्षपाः ।

सौहं प्रबालं घटितं घृतं गभ्यंस्वशक्तिः ॥

वेधकप्रहरूपेण धान्यमानं नवाशकैः ।

वर्षाद्वाद्द्वयमानं च स्वर्णमानं स्वशक्तिः ॥

घृतार्धप्रमितं खण्डं तिला लोहाश्चतुर्गुणाः ।

अधान्यो विशेषः कर्मविपाके ॥

विद्याध्ययनसम्पन्नं याचितारमकिशनम् ।

ब्राह्मणं दातुमाहूय दानार्थं न ददाति यः ॥

बालानां हिंसकश्चैव बहुध्वाप्यादिमान् भवेत् ।

शूलादिदुष्टरोगाढयः सदा दुष्खस्य भाजनम् ॥

पापप्रहकृतोवेधस्तं नित्यं पीडयेद्दुष्टशम् ।

अथ तद्दोषापयमाय त्रिशूलदानं वायुपुराणे ॥

‘कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां अष्टम्यां वा सिद्धे तरे ।

कुर्याद्द्वादशनिष्ठेण त्रिशूलं लक्षणांश्चितम् ॥

असौ स्वर्णमानं निष्कचतुष्टयं वा सुवर्णसंशकं वा पट्यशाशद  
धिकशतसौत्यं चेति त्रिषु विकल्पः । तदशक्तौ यथा शक्तिस्तथा  
विधेयम् । तत्र पात्रे त्रिशूलस्थापयित्वा यथाविधि पञ्चोपचारैश्च  
रुद्रप्रकाशकषैदिकमन्त्रेण तथा त्रिशूलाय नमः इति नाममन्त्रेण तत्सम्पूज्य  
ततोऽघोरमन्त्रेण प्रणिपत्य ततो यथा विभवेन द्विजं च पूजयेत् । ततः सङ्कल्पः ।  
ॐ तत्सत् अघोस्तादि अस्य बालस्य त्रिपाताकीचके अमुकप्रहजनितालाङ्गलसन्मु-  
खावेधगतदण्डार्धयामेशपापप्रहसंस्त्रिताशेषरिष्ट क्षटितिप्रशमन पूर्वकदीर्घायुष्यबल  
पुष्टिनैरज्यप्राप्तिकामाय इदं दुग्धपूरितं पाषाणपात्रं तथा अल्पमन्दुप्रशमनाय  
सौषर्णं त्रिशूलं तथा घृतं शर्करां अक्षानि बह्रंसुवर्णतिलाञ्च सौहं प्रबालं ताभ्रं  
ब्राह्मणायाहन्दे । अत्र तत्तद्वस्तुनि स्वस्वदेषतमिति योजनीयम् । तत्र पाषाणस्य

निष्ठो राहुः । तेन एद्येनप्रियामनेन बालस्य रिष्टं जनम् । अत्रेदमवधेयम् ।  
 अर्धयामदण्डेशयोः पापरे गति तथा पापमदृज्जिते वेधे गति बालस्य मरणं  
 ग्रन्थकारेण विहितम् । एवं यामार्गसे तथा दण्डेशे पापे गति तथा यदि  
 वेधामवधेयं बालस्यारिष्टमात्रं म्यादर्षदरिष्टं लब्धा जीवेत् । अत्राचार्येणारिष्ट-  
 परामर्शे तु दण्डेशरयाति मुकपत्नं विहितम् । अत्रदाहाणे तु दण्डेशस्य तथार्ध-  
 यामेशस्य पापत्वं तथा जन्मलानं राहुमहः पश्यस्ति तथा वेधामावः परस्य  
 जन्मलानोपरि शानेः पूर्णदृष्टि म्यातेन जन्मलानाद्भमानेन मददरिष्टस्य भोगं  
 कृत्वा जीवेत् । अत्रैव यदि पापमदृज्जितो वेधधेतदा 'अशुभे दण्डतयोगे  
 सर्वत्र शुभवर्जिते' इत्यादि पपबलादवश्यमेवास्य बालस्य मरणं भवेत् । अथ  
 कदा तदरिष्टं भवेदित्युच्यते । अत्र तु शुभमार्गशी चतुर्थस्थानगौ तथा शुक्रः  
 स्वशीघ्रोष्णगस्तथा गुरुस्तु स्वशीघ्रोष्णगनोनास्ति परस्य स्वराशिगमस्तेन 'वर्गे'त-  
 भेस्वगुल्गे वा वेन्द्रे वा गहमार्गशी' इति विहितपद्यानुसारेण लग्नाङ्केन द्वाविंशति-  
 मितेन दिनमानेनास्य बालस्य रिष्टं बोध्यम् । परमप्रापि बलाबलप्रहस्य दृष्टि-  
 वाद्विहितदिनानामप्यधिकालं चानुक्तमपि निजमत्वा विमानायम् । अथ यत्र  
 मासविषयकं वा वर्षविषयकं चारिष्टमायाति तदा तत्र करिमान्दिने तदरिष्टं  
 भवेदिति जिज्ञासायामुच्यते । यस्मिन् दिने वेधकारकरोटेन सह चन्द्रस्य योगो  
 भवेत्तदिने मृन्दुर्धन्वा कर्कगुलाराशयोर्मध्ये कस्मिनपिराशौ स्थितधन्वो वेधकारक-  
 प्रद्वेण सह वेधं करिष्यति तदा बालस्य मरणं भवेत् । तदुक्तं नरपति समा-  
 ख्यप्रन्थे 'यदिने वेधयेच्चन्द्रस्तदिने स्याच्छुभाशुभम्' अत्र श्रियताकीचकप्र-  
 स्यारिष्टस्यापगमाय दानपदार्थमुच्यते । रक्तवस्त्रं शार्ङ्गं तथा पाषाणपात्रं गव्यदु-  
 ग्धपूरितम् । तदशक्नो प्रवालं विद्रुमं वेधकारकप्रहस्य विहितधान्यं तथा  
 दण्डेशस्य धान्यं तिलनण्डुलानि च । तथा ग्रन्थान्तरेविशेषः ।

धान्यं मुद्गाश्च मायाश्चितिलाश्चस्वेतसर्षपाः ।

लौहं प्रबालं घटितं घृतं गन्धस्वशक्तिः ॥

वेधकप्रदरूपेण धान्यमानं नवांशकैः ।

वर्षाङ्गादसमानं च स्वर्णमानं स्वराफितः ॥

घृतार्धप्रमितं खण्डं तिला लोहान्घृतगुण्डः ।

अथान्यो विशेषः कर्मविपाके ॥

'वेदाध्ययनसम्पन्नं याचितारमकिसनम् ।

ब्राह्मणं दानुमाहूय दानार्थं न ददाति यः ॥

बालानां हिसकश्चैव बहुस्याभ्यादिमान् भवेत् ।

शलादिदुष्टरोगाढयः सदा दुष्खस्य भाजनम् ॥

पापप्रदकृतोवेधस्तं नित्यं पीडयेद्दृशम् ।

अथ तद्दोषापगमाय त्रिशूलदानं धातुपुराणे ॥

'कृष्णपक्षे चतुर्दश्या अष्टम्या वा सिद्धे तरे ।

पुर्याद्ब्रह्मादशनिष्केण त्रिशूलं लक्षणाञ्चितम् ॥

अत्र सर्वर्णमानं निष्कचतुष्टयं वा सुवर्णसंज्ञकं वा घट्पञ्चाशदधिकशतलौह्यं चेति त्रिधा विकल्पः । तद्दशकौ यथा शक्तिस्तथा विधेयम् । तत्र पात्रे त्रिशूलंस्थापयित्वा यथाविधि पञ्चोपचारेण रुद्रप्रकाशकशैदिबमन्त्रेण तथा त्रिशूलाय नमः इति नाममन्त्रेण तत्सम्पूज्य ततोऽघोरमन्त्रेण प्रणिपत्य ततो यथा विभवेन द्विजं च पूजयेत् । ततः सङ्कल्पः । अन्तस्तत् अशेष्यादि अस्य बालस्य त्रिपत्ताकीचके अमुकप्रहजनिताहलसन्मुखवेधगतदण्डार्थशाने शपायग्रहसंसूचिताशेषरिष्ठ शक्तिप्रशमनं पूर्वकदीर्घाद्युप्यबल पुष्टिनैरुज्यप्राप्तिकामाय इदं दग्धपूरितं पापाणपात्रं तथा अल्पमृत्युप्रशमनाय सौवर्णं त्रिशूलं तथा घृतं चार्कुरं अन्नानि यक्षसुवर्णतिलार्कं लौहं प्रबालं तात्रं ब्राह्मणायान्दन्दे । अथ तत्तद्वस्तुनि स्वस्वदेवतमिति योजनीयम् । तत्र पापाणस्य

धर्मराजः । त्रिशूलस्य मृत्युञ्जयः । घृतस्यग्निः । शर्कराया वरुणः । अन्नानां प्रजापतिः । वस्त्रस्य बृहस्पतिः । सुवर्णस्याग्निः । तिलास्यब्रह्मा । लोहस्य शनिः । प्रवालस्य भौमः । ताम्रस्य सूर्यः । इति दैवतं बोध्यम् ।

अथ त्रिपाताकीचक्रप्रकारेण वर्षारिष्टविचारस्तु मनुकजातक्रीडा भिधे ग्रन्थे द्रष्टव्यः । अत्रायं विशेषः । स्वशेषाङ्केन राहुकेतु रहितौविधेयावर्षा दुत्क्रमात्ती लेख्यौ । अत्र तयोर्विपरीतचलनात्तथा विशेषग्रन्थस्वरसाच्चैयं कल्पना समीचीना । तथा मतान्तरे तु गताब्दभानेपङ्क्तिषु शेषाङ्कतुल्यराशौ राहुभौमौ लेख्यौ । अथ मतान्तरे वर्षपताकीचक्रस्यापि केतुपताकीचक्रसंज्ञा कृता । अस्मिन् चक्रे चन्द्रभौमयोर्ध्वा राहुमन्दयोरेकनाड्यामिथो वेधस्तदा तस्मिन् समये महारिष्टं भवति । अत्र यदिराहुजीवयोर्बेधस्तदा कष्टम् । तथा पापवेधेन-हानिर्वाच्या । तथा शुभग्रहवेधेन वृद्धिर्वाच्या । एवं पापशुभग्रहजनिते वेधे मिश्रफलम् । तथा मुक्तावल्यामुक्तम् ।

“स्वर्मानुविद्धे हिमगौच कष्टं तापोर्कविद्धेऽथ स्फार्कविद्धे ।  
महीजविद्धे तु शरीरपीडा शुभेध विद्धे जयसौख्यमुक्तम्” ॥  
शुभाशुभव्योमगवीर्यतोऽथ फलं च वर्षस्य वदेत्सुधीभिः ॥  
तथा स्वरपद्याशिकायां विशेषरूपेण फलमुक्तम्”  
मन्देनपीडा रविणाऽऽह्रभीतिः पीडार्थनाशी रुधिरेण विद्धे ॥  
निमीलनं राहुशिशिव्यधेन स्त्राह्णामसौख्यं शुभपेटवेधे ॥  
उच्चादिपद संयोगात्तारतम्यात्फलं वदेत् ॥  
द्वित्र्यादिखचरैर्कापंदुष्टं पुष्टं शुभे तथा ॥

एवं मासप्रवेशलग्नशासत्या दिनप्रवेशलग्नवशात्सञ्जाते त्रिपाताकीचक्रे चन्द्रस्य पापग्रहेण सह वेधस्तदा नेष्टं फलं स्यात् । तदुक्तम्” वर्षे मासे दिने नाड्यां वेधं ज्ञात्वा फलं वदेत् । अत्रस्मिन् चलवर्षे मासे वा वेधे सति तथाऽण्डेशस्य पापत्वे सति ”चलवर्षे यदा वेधः” इति पूर्वविहितपदानु-रेण मृत्युबोधः ।

धोच्छ्रणदत्तेन दृतातिरम्या टोफा सुगम्या च सुयोधिनी या ।  
तस्यां पताकीजनितं मुच्यते शिशोरसत्सफलदं प्रपूर्णम् ॥ १ ॥

अत्रोदाहरणम्—सम्बत् १९६४ शकः १८२९ आश्विनमासे शुक्लपक्षे तृतीया तिथौ गुरुवासरे घट्यादिकं १७॥ १० तदुपरि चतुर्थ्या तिथौ द्विशमे घट्यादिकं ३६॥ १ प्रीति योगे घट्यादिकं ३६॥१८ गर करणे घ० १७ १० तदुपरि षण्णज करणे एवं पञ्चाङ्ग शुद्धौ तत्र दिनमानं २९॥४ धीमन्मार्तण्ड मण्डलाद्धोदयादिष्टम् २३ ३ कुम्भ लग्नोदये कस्यचिज्जन्म ।

तात्कालिकाः स्पष्टा ग्रहाः ।


सू.	च	मं.	बु.	बृ.	शु.	श.	रा.	के.
५	७.	९	६	३	६	१०	२	८
२३	०	५	१७	१७	०	२७	२८	२८
३	२१	२५	३६	५४	५७	५३	१५	१५
९	४०	२५	२१	२०	२०	१४	३०	३०
५९	८२५	३५	८०	९	७५	३	३	३
३१	१२	२७	१८	२२	१९	४३	११	११

प्रथम अर्घ्याम प्रमाण का आनयन करना चाहिये दिन का इष्ट काल हो तो दिन में आठ से भाग देना चाहिये, यदि रात्रि का इष्ट काल हो तो रात्रि-मान में आठ से भाग देना चाहिये यहाँ दिन का इष्ट काल है अतएव दिन मान २९॥५ में आठ का भाग दिया तो लब्धि ३।३८ प्राप्त हुआ । यही एक-अर्घ्याम का मान हुआ । अतएव इस अर्घ्याम प्रमाण से दिन का इष्ट २३।३ में भाग दिया तो लब्धि ६ मिला यह गत अर्घ्याम संख्या हुए । लब्धि में १ जोड़ दिया अतएव ७ सालवें अर्घ्याम में जन्म हुआ तो "दिवा पट्क क्रमे-णैव" इत्यादि अर्घ्यामेशानयन प्रकार से अर्घ्यामेश ज्ञानि हुआ इसी प्रकार रात्रि के इष्टकाल में रात्रि के अर्घ्याम प्रमाण से भाग देकर "रात्रौ पञ्चक्रमेण च" से अर्घ्यामेशानयन करना चाहिये ।


अथ च दण्डेश के ज्ञान के लिये अर्धयाम प्रमाण ३।३८ में ४ चार से भाग दिया लब्धि ०।५४।३० यह दण्डप्रमाण हुआ । यहां ६ अर्धयाम का प्रमाण २१।४८ गत हो चुका है सातवें अर्धयाम में १ घटी १५ पल बीत चुका है अतएव इस अर्धयाम के द्वितीय दण्ड में जन्म हुआ इस लिये "दिवार्धं प्रक्रमेणैव" इत्यादि दण्डेशानयन विधि से मंगल दण्डेश हुए ।

अथ बालारिष्ट विचार के लिये "प्रह दान विचारे तु अन्त्येमेधं विनिर्दिशेत्" इस सूत्र से त्रिपताकि चक्र लिखकर 'एकोन विंशतिः कर्के सिंहे सप्तदशैव तु' इत्यादि से अङ्कोंका न्यास करके बालारिष्ट का निश्चय किया जाता है ।

### त्रिपताकिचक्रम् ।



जन्माङ्गचक्रम्



यहाँ अर्धयामेश शनि और दण्डेश मंगल दोनों पाप ग्रह हैं । तथा त्रिप-  
 ताकि चक्र में जन्म लग्न पूर्व कथित रीति वृथिक राशिस्थ चन्द्रमा से बाम  
 विद्द है । जन्म लग्नगत शनि है । चन्द्रमा क्षीण होने के कारण पाप ग्रह  
 हुआ तथा "सूर्यमुक्ता उशीदन्ते" इत्यादि से तृतीयस्थ होने से समसंशक हुआ  
 अतः 'सहजा स्युः स्वभावस्था' से पाप ग्रह हो हुआ । नीचस्थ होने से  
 (मध्यवली) अर्धबली हुआ । तथा 'पादोन समवेदमनि' इससे ४५ पादोन  
 बली हुआ । अतएव "सबलेत्र ग्रहे पापे दिनमात्रं विधीयते । मध्ये बले तथा  
 मासो वर्षे चैवाबले तथा" इस प्रमाण से १७ मास पर बालारिष्ट हुआ । अथ  
 च दण्डेश अर्धयामेश दोनों के पाप ग्रह होने से तथा दण्डेश मंगल राहु  
 और सूर्य से विद्द है । अर्धयामेश भी चन्द्रमा से विद्द है अतएव "अशुभे  
 दण्डसंयोगे सर्वत्र शुभवर्जिते" इससे मरण होना चाहिये परन्तु यहाँ जन्मलग्न  
 निज स्वामि से युक्त है तथा बु० वृ० शु० तीनों शुभ ग्रहों से दृष्ट है अतएव  
 यह जातक १७ मास पर महदरिष्ट का भोग कर जीवन है । जो लग्न निज  
 स्वामी को छोड़कर अन्य पाप ग्रहों युत दृष्ट हो उचनें यदि प्रबल शुभग्रहों



की दृष्टि और योग न हो तो दण्डेश अर्धयामेश का पाप ग्रह होने से तथा पापग्रह के विद्व इत्यादि होने से निर्धारित समय पर मृत्यु कहनी चाहिये । अन्यथा शुभ ग्रहों के दृष्टि योग के प्राबल्य से शुभ कहना चाहिये ।

इस प्रकार यदि मास विषयक अथवा वर्ष विषयक अरिष्ट शत हुआ तो जिस दिन अरिष्ट होता है इसके लिये पद्याज्ञ से ( "यद्दिने वेधयेच्चन्द्रस्तद्दिने स्याच्छुभाशुभम्" इस नरपतिजयचर्या नामक ग्रन्थ के प्रमाण से ) जिस दिन चन्द्र वेधकारक ग्रह से वेध करे उस दिन अरिष्ट कहना चाहिये ।

इति श्रीप्रजापति दास विरचिते पञ्चस्वराख्य ग्रन्थे सरला भाषा-

टीकायां त्रिपताकिप्रकरण समाप्तम् ।



अथाग्र वर्षारिष्ट कथने परमोपयोगत्वाद् त्रिपताकि चक्र विचारस्य पूर्वाचार्याश्च पदानि—

रेखात्रयं तिर्यगर्थोर्ध्वसस्थमन्योन्य चिद्धाग्रगमेक कोणात् ।

स्मृतं बुधैस्तत्रिपताकि चक्रं प्राङ्मध्यरेखाग्रं वर्षलग्नात् ॥१॥

न्यसेद्भ्रमकः किल तत्र संकां याताद् संख्यां धिमजेन्नमोर्गैः ।

शेषोन्मिते जन्मगचन्द्रराशे स्तुल्ये च राशौ घिलिषेच्छशाङ्गम् ॥२॥

परे चतुर्मांजित शेष तुल्ये स्थाने स्वराशेः राचरास्तु लेख्याः ।

स्वमांनुविद्धे द्विमगौ त्वरिष्टं पाताकिं विश्व रगिरामं भयन्ति ॥३॥

मर्दाज विदं तु शरार पांदा शुभैश्च विद्व यादु खौल्य लाभः ।

शुभानुभं ध्यामग वार्यतोऽथ फलञ्च वर्षस्य पदेत् सुधीमान् ॥४॥

## अथायुर्दायविचाररहस्यायः ।



### अथायुर्दायविचाराध्यायः ॥ २ ॥

तत्र स्वाभिमतं प्रकटयति—

चतुर्विंशति वर्षोर्ध्वमायुर्दायं विचिन्तयेत् ।

साधारणा न जानन्ति कठिनं विषमं ध्रुवम् ॥ १ ॥

यगहाद्यैश्च तन्वक्ष्यैः कृतो निर्णयः पुरा ।

तदुद्देशेन वक्तव्यं यत्किञ्चिज्ज्ञायते मया ॥ २ ॥

निदानस्य यथा तत्त्वं स्वभावाद्दिष्टं निर्णयः ।

गुरोर्देह्य गम्यश्च बुध्यते ननु चान्यथा ॥ ३ ॥

सं० टी०—गणकथतुर्विंशतिवर्षोर्ध्वं जन्मतत्तुर्विंशतिमितेभ्यो गताभ्येभ्यः परमायुर्दायं वक्ष्यमाणविधिना चलचक्रादिविचारं विचिन्तयेद्विचारयेत् । तदा-युर्दायविचारं साधारणा अल्पज्ञानरा न जानन्ति । कथम्भूतं तद्यतो ध्रुवं निश्चितं विषमं किन्त्वद्यगन्तुमशक्यम् । कृतो यतःकठिनमिति ॥ १ ॥

तत्त्वज्ञैर्मुक्त्यर्थैर्देवराहाद्यैराचार्यैः पुरा पूर्वसमये यो निर्णयः किन्त्वायुर्दायविचारः कृतः । मया प्रजापतिदासेन तदुद्देशेन तत्कथनानुसारेण यत्किञ्चिज्ज्ञायते यथामति स्वल्पमपि यदवगतं तद्वक्तव्यमिति ॥ २ ॥

यथा स्वभावान्निदानस्य तत्त्वं तथादिष्टनिर्णयः कथितारिष्टविचारो गुरोर्देह-शगम्यः किन्तुगुरुपदेशेनावगन्तुं योग्यः । अन्यथा गुरुपदेशं विना न बुध्यते ॥ ३ ॥

भा० टी०—अरिष्टाध्याय में पूर्व कहा जा चुका है कि २४ चौबीस वर्ष के अन्तर अरिष्ट ही का विचार करना चाहिये । आयुर्दाय का नहीं इसी को यहाँ पुष्टिके लिये ग्रन्थकार यहाँ कह रहे हैं कि चौबीस वर्षके अवस्था के बाद आयुर्दाय का विचार करना चाहिये पाद्य उते अस्पृश देवज्ञ नहीं जान सकते

हैं क्योंकि आयुर्दाय विचार कठिन है तथा विषम है अर्थात् टेढ़ा है और निश्चित है ( अर्थात् अन्य फलों के तरह सम्भावित नहीं है किन्तु इस मृत्यु का एक न एक दिन होना निश्चित है तो यह निश्चित ध्रुव कब होगा यह जानना अत्यन्त ही कठिन और टेढ़ा है ) ॥ १ ॥

अतएव श्रीवराह मिहिराचार्यादि तत्त्वज्ञों द्वारा जो पूर्व में निश्चित हो गया है उसी के अनुसार जो कुछ मुझे ज्ञात है वही मुझे कहना है ॥ २ ॥

स्वभावतः हरिश्चादि निर्णय का प्रत्यक्ष जो निदान वा कुछ तत्व है वह गुरु द्वारा ही जाना जा सकता है अन्यथा गुरु के उपदेश बिना जानना कठिन है ( क्योंकि गुरु को अनुभव सिद्ध हो चुका रहता है ) ॥ ३ ॥

अथ वर्षफल कथनार्थं वर्षलग्नमाह—

जन्म लग्न समारभ्य गतवर्षाणि योजयेत् ।

द्वादशस्विह भावेषु ग्रहैर्वाच्यं शुभाशुभम् ॥ ४ ॥

स० टी०—जन्मलग्नं समारभ्य जन्मकालिकं लग्नमेवादेर्गणयित्वा यन्मितं स्यात्तत्र गतवर्षाणियोजयेत् । इह द्वादशसु भावेषु ग्रहैः शुभाशुभं फलं वाच्यं कथनीयम् । अयं भावः । स्वजन्मलग्ने गतवर्षमानं योज्यं तद्यदि द्वादशाधिकं तदा द्वादशभिर्विभज्य शेषमितं वर्षलग्नं कल्पयित्वा ततो भावमहानुसारेण तद्वर्षस्य शुभाशुभं बोध्यम् । अर्थात्कीलकण्ठाचार्योक्तैर्निघण्टुमावमधिष्टस्य सामान्यतया वर्षफलं शेषम् । तत्फलं ग्रन्थान्तरे—

‘ध्वन्यारिस्थौ सौम्यसेट्टे पापैः यायारिणौ शुभम् ।

केन्द्रकोणश्लो राहुः पापाखान्त्ये शुभा मुदे ॥ ४ ॥

भा० टी०—अपने जन्म लग्न में गत वर्ष मान का जोड़कर यदि बारह से अधिक हो तो १२ से भाग देकर शेष तुल्य मेवादि लग्न का वर्ष लग्न मान कर भाव महानुसार शुभाशुभ वर्ष फल कहना चाहिये ॥ ४ ॥

अथ वर्षेश्वर विधिमाह—

वर्षेश्वरं समारभ्य नक्षत्राङ्गविधानतः ।

वत्सरं कल्पनीयञ्च फलं तद्वच्च कल्पयेत् ॥ ५ ॥

सं० टी०—वर्षेश्वरं समारभ्य वक्ष्यमाणविधिना । वर्षेशमवगम्य तमारभ्य नक्षत्राङ्गविधानतः कथितनक्षत्राङ्गमानेन वत्सरं कल्पनीय बोधव्यम् । तद्वत्फलं च कल्पयेत् । अर्थाद्बक्ष्यमाणविधिना वत्सराधोशं बुध्वा तद्वशेन फलं कथयेत् । अनेन वर्षेश्वरविधिः प्रदर्शितः ॥ ५ ॥

भा० टी०—वस्तुतः यहाँ पर प्रथम जन्मकाल से अवस्था ( वर्ष ) का ज्ञान कर के नक्षत्राङ्ग विधि से ( अर्थात् वक्ष्यमाण "रविचन्द्रार" सीम्याथ शनीज्यौ राहु केतव । अन्त्ये शुक्र क्रिराहृत्या कृतिकादि क्रमाद् भवेत् । इससे तथा केतु कुण्डली और गुरु कुण्डली से ) वर्षेश्वर का ज्ञान कर के फलादेश करना चाहिये ॥ ५ ॥

अथ वर्षारम्भ विधिमाय—

कार्तिकान्तनवाहानि जन्म मास दिनावधि ।

दिनानि चैव मासाश्च गतवर्षे नियोजयेत् ॥ ६ ॥

सं० टी०—कार्तिकान्तनवाहानि कार्तिकमासान्तापूर्वं नवदिनान्यारभ्य जन्ममासदिनावधि स्वजन्ममासदिनपर्यन्तं यानि दिनानि ये च मासास्त्यदिगणय्य गतवर्षे नियोजयेत् । अत्रायं भावः । कार्तिकमासस्येकविंशतिदिनात्परं किन्तु कार्तिकशुक्लसप्तमोत्थिं समारभ्य जन्ममासस्य दिनपर्यन्तं दिनवृन्दं गणयित्वा तद्गतमासदिनानि गतवर्षे योजयानि पुनर्द्वितीयवर्षारम्भः कार्तिकशुक्ल सप्तम्याम् अत्र सावनमानेन वर्षारम्भो विधेयः । अनेन वर्षारम्भविधिः प्रदर्शितः ॥ ६ ॥

भा० टी०—यहाँ पर आगे स्वर ज्ञानके लिये आचार्य ने वर्ष को कार्तिक शुक्ल सप्तमी से प्रारम्भ कर "कार्तिकस्य परे भागे नवमः। यथा तथा । मार्ग्ये पौषो तथा देयं माघस्य च दिनत्रयम्" एवं क्रमेण दातव्यो वर्षं पूर्णं यथा भवेत्" ॥ इति वक्ष्यमाणविधिः छे पाँच विभाग किया है । अतएव यहाँ पर

कार्तिक शुक्ल ७ सप्तमी से प्रारम्भ कर जन्ममास के दिन पर्यन्त गतमास तथा गत दिन को गत वर्ष में जोड़ना चाहिये अर्थात् ग्रहण करना चाहिये तथा पुनः द्वितीय वर्ष का प्रारम्भ कार्तिक शुक्लसप्तमी को जानना चाहिये ॥ ६ ॥

\* अथ केतुपताकी चक्रमाह \*

रविचन्द्रार सौम्याश्च शनीज्यौ राहुकेतवः ।

अन्त्ये शुक्रखिरावृत्या कृतिकादिक्रमात् भवेत् ॥ ७ ॥

सं० टी० — रविचन्द्रारसौम्याः । ततः शनीज्यौराहुकेतवः । अन्त्ये शुक्रः । एते कृतिकादिक्रमात्कृतिकानत्रादि जन्मनक्षत्रवशास्त्रिरावृत्या धारत्रयेण वर्षेश्वराः स्युः । अत्रेदमवधेयम् । यस्य प्रथमकृतिकानक्षत्रे जन्म तस्य प्रथमाव्दपी रविः । द्वितीयवर्षेश्वरः । ततस्तृतीयव्दपः बुधः । ततः शनिः । तदग्रे गुरुः । ततो राहुः । ततः केतुः एवं नववर्षेशःशुक्रः । इति प्रथमावृत्तिः द्वितीयावृत्तौ तु दशमवर्षादारभ्य पूर्ववत्कलनया चाष्टदशाव्दपो मृगः । ततस्तृतीयावृत्तावेकोनविंशतिवर्षादारभ्य कथितगणनया सप्तविंशतिवर्षाधिपति शुक्रः । एतेन केतुपताकीचक्रं प्रदर्शितम् । परञ्चेदमेव बहुसम्भनम् । अर्थादस्मादेव केतुपताकीचक्रजनितो वर्षेशो ग्राह्य इति ज्योतिर्विदां सग्रप्रदायः तथाकृते सति तच्चक्रं जातम् ॥ ७ ॥

भा० टी०—कृतिकादि नक्षत्र के क्रम से तीन आवृत्तियों में सूर्य चन्द्रमा मंगल बुध शनि वृहस्पति राहु केतु और शुक क्रम से वर्षेश होते हैं । यदि कृतिका नक्षत्र में यदि जन्म हो तो प्रथम वर्ष के दशा स्वामी या वर्षेश सूर्य हुए एवं द्वितीय वर्षेश चन्द्रमा तृतीय वर्षेश मंगल इसी प्रकार नवम वर्षेश शुक पुनः दशम वर्षेश सूर्य से आरम्भ आठरहवें का शुक एवं उन्नीस १९ वें वर्ष से प्रारम्भ कर २७ वें वर्ष का स्वामी शुक हुआ । एवं द्वितीयावृत्ति में

भी अठारह २८ वें वर्ष से प्रारम्भ कर ५४ तक पूर्वोक्त क्रम से स्यादि स्वामी होंगे । एवं तृतीय चतुर्थ आवृत्ति में भी यही क्रम जानना चाहिये । विशेषता यह है कि यदि कृतिका से अन्य नक्षत्रों जिनका जन्म हुआ है उनके वर्षेश विचार में कृतिकादि क्रम से जन्म नक्षत्र का जो स्वामी होगा वही प्रथम वर्षेश होगा तथा उसी के क्रम से पूर्वोक्त रीति से वर्षाधीश का निर्णय करना चाहिये । जैसे किसी का जन्म नक्षत्र विशाखा है तो कृतिकादि के क्रमसे प्रथम वर्षेश शनि होगा और शनि के क्रम से ही द्वितीयादि वर्ष के स्वामी ६० रा० के० शु० २० च० मं० पु० होंगे ॥ ७ ॥

### यथाचक्रम् ।

र.	चं.	मं.	बु.	श.	वृ.	रा.	के.	शु.
कृ.	रा.	मृ.	आ.	पु.	पु.	अ.	मं.	पु.
उ.	ह.	चि.	स्वा.	वि.	अ.	ज्ये.	मृ.	पु.
उ.	थ.	घ.	श.	पू.	उ.	र.	अ.	मं.
६	१५	८	१७	१०	१९	६	६	२१
२०	५०	२८	५६	३३	६३	२०	२०	७०

### अथ मदीयमूत्रम् ।

शताब्दैर्युता जन्मनक्षत्रसङ्ख्या दृग्गुणा विभक्ता ग्रहे शेषकाश्चै ।

अधीशाः क्रमादर्कचन्द्रारसौम्या शनोज्यौ तम केतुशुक्राः स्युरत्र ॥१॥

सं० टी०—जन्मनक्षत्रसङ्ख्या अश्विन्यादितो निजजन्मनक्षत्रसङ्ख्या ग्नाब्दैः स्वजन्मतो गतवर्षप्रमाणेन युता सहिता कार्या । पुनः सा दृग्गुणा द्वाभ्या हीना कार्या पुनः सा प्रयैर्नवमिर्विभक्तः । शास्त्रेण तस्मादर्कचन्द्रारसौम्याः । तथा शनीज्यौ तमकेतुशुक्रा एते क्रमादत्र केतुपताकीचक्रे चाधीशाः स्युः ॥ १ ॥

अत्रोपपत्तिः । मनुष्ककातकक्रडाभिप्रन्यस्यमुद्गादशानयनस्य वासनावदव धेयेति ॥१॥

सं० टी०—अत्रोदाहरम् । तद्यथा । कृष्णदत्तस्य मयानक्षत्रे जन्म तेनात्र प्रथमवर्षाधिपस्त्रक्षत्रोपरि गनः केतुः ततः पूर्ववद्गणनया ग्रन्थारम्भे चैकचत्वारिंशन्मितस्य वर्तमानवर्षस्य पतिः पुनः कुजग्रह एव स्यात् । अथ मनुष्कसुत्रेण ययानक्षत्रख्या दशमिता ( १० ) सा गतवर्षप्रमाणेनानेन ( ४० ) सद्धिता मार्ग पञ्चाशन्मितं ( ५० ) इदं दृग्गुणित सदष्टचत्वारिंशन्मितं स्यात् ( ४८ ) इदं नवभिस्तष्टं ( ३ ) तेनात्र वर्षाधिपो भीम । एवमन्यत्रापि विभाव्यम् । तथाऽन्यैरुक्तम् ।

“अर्केन्दुभीमज्ञशनीज्यराहुकेत्वास्फुजिच्चाग्निभतः पताक्याम् ।

वारत्रयं भानि विलिख्य केतार्जन्मर्षतो वर्षपतिर्गताब्दैः” ॥

तथान्यदपि भाषा ।

चारिरेस्ता अवधरव्यादिग्रहमण्डल ।

रविचन्द्रमङ्गलवृधशनिगुरु राहुकेतुशुक्र अन्ते ज्ञानि ।

कृत्तिकादि ऋक्षप्रमाण वामावर्त्तएकरभाग इति ॥ ७ ॥

अथ केतुपताकोचक्रजनित वर्षेशानां फलमाह—

रविणा भ्राग्यते देशः सन्तापो व्याधिपीडनम् ।

कान्ता रोगं ज्वरं शोकं करोति च भयातुरम् ॥ ८ ॥

चन्द्रे पुष्टिर्धृतिस्तुष्टिः सुखं सम्पत्तिरेव च ।

आरोग्यं लभत कामो धन पुत्रसमन्वितः ॥ ९ ॥

भीमे सदा मर्म रोगः कार्यं हानि भवेद् ध्रुवम् ।

क्षद्र कर्म रतिश्रित्य मनस्तापो दिने दिने ॥ १० ॥

भा० टी०—पूर्वोक्तं रीति से केतु पताकी जनित जो वर्षश हुए हैं उनका फल कहते हैं यदि सूर्य वर्षश हो तो वह देश भ्रमण सन्ताप रोगजनित पीडा ली को रोग ज्वर शोक और अत्यन्त भयभीत करता है ॥ ८ ॥

चन्द्रा वर्षे होने से पुष्टि, धैर्य, संतोष, सुख सम्पत्ति, आरोग्य लाभ, अर्माष्ट कार्य की सिद्धि, और धन पुत्र से युक्त करता है ॥ ९ ॥

मंगल वर्षेश होने से हमेशा मर्म रोग कार्य हानी छुद्र कार्यों में प्रेम और नित्य मनस्ताप को करता है १० ।

बुधे च राजसन्मान पुत्र लाभस्तथा सुखम् ।  
घतस्याचागमो नित्य तथा ज्ञान दिने दिने ॥ ११ ॥  
शनौ रोग भय शोक बन्धन क्षयमेव च ।  
अर्थहानिमभाग्यञ्च प्राणनाश करोति ॥ १२ ॥  
सचाङ्गाभरण कण्ठे स्वर्णद्वार विभूषणम् ।  
जोवे च राजसन्मान लोके पूजा धनागमः ॥ १३ ॥

भा० टी०— बुध वर्षेश होने से राजा से सन्मान, पुत्र लाभ, सुख, हमेशा धनकी प्राप्ति और नित्य ज्ञानकी वृद्धि करता है ॥ ११ ॥

शनि वर्षेश होने से रोग, भय, शोक बन्धन शरीरादिका क्षय धनकी हर्षण और अभाग्य तथा प्राण का नाश करता है ॥ १२ ॥

बृहस्पति वर्षेश होने से अज्ञों की भूषण से युक्त कण्ठ को साने के द्वार से सुशोभित, राजा से प्रतिष्ठा और लोक ( जन वग ) से पूजा और धनकी प्राप्ति को करता है ॥ १३ ॥

रक्तस्त्रावो भवेद्गुह्य राहो वर्षे जनस्य च ।  
विदशगमन चैव बहि चारि भयन्तथा ॥ १४ ॥  
राज कार्यभयं चौर्यं गृहदाहोत्थ बन्धनम् ।  
अवश्यं च भवेद्वेत्ते केतो सम्भ्रंसरे पुन ॥ १ ॥  
शुक्र पौरुष सत्प्याति. पुष्टि, सर्व सुखानि च ॥  
मुक्ता रत्न प्रचालादि धनलाभे दिने दिने ॥ १६ ॥

भा० टी०— राहु अपने वर्ष में मनुष्य का रक्त दाव विदेश यात्रा तथा अग्नि और जलके भयको करता है ॥ १४ ॥

एव केतु भी अपने वर्ष में राज के कार्य से भय चोरी और गृह दाहसे बन्धन ( या चोर और गृह दाह से कष्ट ) को अवश्य करता है ॥ १५ ॥

शुक्र अपने वर्ष में पराक्रम अच्छी प्रसिद्धि पुष्टि सभी सुखों की प्राप्ति मुक्ता रत्न और मृत्ता आदि का धनों की प्राप्ति नित्य करता है ॥ १६ ॥



अथ पूर्वविहितभाषानुसारेण केतुपताकीचक्रद्वयम् ।

च.	र.	
४	३	शु. ११२०१२
१३	१२	-
२२	२१	-
म. ५१९४१२३	के. १०१९९१९	रा. ९१९८१२७
बु. ६१९५१२४	श. ७१९६१२५	शु. ८१९७१२६

च. ४१९३१२२	र. ३१९२१२१	शु. ११२०१२
म. ५१९४१२३	के. १०१९९१९	रा. ९१९८१२७
बु. ६१९५१२४	श. ७१९७१२५	शु. ८१९७१२६

अत्र रेखाचतुष्टयेन पूर्वापरं रेखाचतुष्टय तथा याम्योत्तररूपं रेखाचतुष्टय-  
मित्यनेनाभिप्रायेण द्वितीयचक्रस्य स्वरूपं जातम् ।

अथ खेटानां दशमानद्योतकं मदीयसूत्रम् ।

रवौ रसा वै तिथयः शशाङ्के कुजे च नागा विधुजेऽद्विचन्द्राः ।  
अभ्रेन्देघः सूर्यसुने सुरेज्ये नन्देन्दोस्त्यर्द्धतनौ रसाश्च ॥ १ ॥

रुपाश्विनः पूर्वसुरेन्द्रपूज्ये योऽया दशाब्दा गणप्रवीणैः ।

स० टी०—अर्धतनौ राहो केनी व पय दशाब्दा । यद्यप्यत्र दशमानस्य प्रयोजन नास्ति । यतोत्रैकैश्वर्यसमो प्रदमोगकाल स्वीकृत । परष तथापि वैकस्मिन् वर्षे रोटाताममे दिनात्मकदशमानसाधनार्थमुपयोग्यास्तौ षट्ठिगा । अत्रांशत । मनुजजलकनीटाभिषमन्वगतताशोसरशतपरमाधुर्द्रौपकल्पनादशाब्द-वधेया ॥ १ ॥

रवौ तया स्यु खशरा शशाङ्के भामेऽप्युग्म विधुजेऽह्वाणा ।

शनौ धिरामाश्च गुरौ त्रिपीष्ट नखादलाङ्के भृगुजे खशिला ॥१७॥७

• अथाधोचरो दशानयने पारादौक पयानि—

सूर्यश्च द कुज सौम्य शनिर्नीबस्तमो भृगु ।

अने दशाधिषा श्रोक्ता कतु हीना नवग्रहा ॥ १ ॥

रक्षा<sup>१</sup> पशुभू<sup>२</sup> नामा ८ शैलचद्राश्च १७ रन्दव १० ॥

गोकजा १९ मूया १२ कुनेश्राण २१ समा प्रथातनादय । २ ॥

इति पारादौक यवनन, अथाधोचर शशाङ्केतेन परम्यदुदशमानेन रक्षाभूदि० स्वस्वमदन दशमान लम्बये कौक वर्षे मितेन किमिति । एत चक्र कये स्वस्वदशानेन

( $\frac{स्वद \times १}{परमाब्द}$ ) वर्षात्मक जातमतो दिनसमक करणाथ स्वसाग्निभिः पत्र वात रन्द

स्व द × ३६० । अथवा अत्रवर्ष—  
परमाब्द

$$\text{सर्दशा मान} = \frac{६ \times ३६०}{१८} = \frac{१ \times ३६०}{१८} = २० \text{ दिवस दिवस द}$$

$$\text{अत्र दशा मान} = \frac{११ \times ३६०}{१०८} = \frac{११ \times ११ \times ३०}{११ \times १} = \frac{११ \times १०}{३} = ४०$$

पथादय दिनानि :

• एतन्वैवा प्रमाणेन इति दशान्दि सुन्द •

सं० टी०—दत्ताङ्गे राहो केनो च विंशतिः । एतानि दशामानानि दिनात्मकानि चैकैकवर्षे विहितखेटानां स्युः । अत्राप्ययदीशितनाम्ना गणकेन तथान्यैरपि तद्दशकाकारैर्विहितदिनानि खेटानामन्तर्दशामानानि कल्पितानि तथा पद्म्यादिसमानि दशामानानि कथितानि । पर्येनानि न समीचीनानि । यत एकैकप्रहस्यैकैकपद्मरूपो दशामांगकालो मूलकारेण स्वीकृतस्तद्धि कथं पद्म्यादिकं दशामानं सङ्गच्छते तथैकवर्षे पूर्वं दशामाननिरूपणमन्तरणे तदन्तर्दशामानकथनाप्रसङ्गः । तथा वासनाबहिर्भूतं तत्स्यात् । अतो यैस्तदुक्तं ते सिद्धान्तविद्याबहिर्भूतास्तद्वासनां मुगमामपि न जानन्तीति प्रत्ययो मम जातः ।

सं० टी०—अश्रोत्रपत्तिः । यद्यष्टोत्तरशतमितेन परमायुद्वादेन पद्म्यादिकं स्वस्वप्रद्वर्जं जन्मकालिकं दशामानं सम्भ्यते तदैकवर्षमितेन कल्पितपरमायुर्वादेन किमिति । फलं चैकवर्षे स्वस्वदशामानं वर्षाभ्यर्कं स्यादिति रूपं  $(\frac{१३६० \times १}{१२})$  अर्धेदं परमा

सरणाग्निभिर्गुणितं सद्भिन्नात्मकं जातमिति ह्यं  $(\frac{१३६० \times ३६०}{१२})$  अथ स्वर-

दशामाने स्वस्वाद्दशामानेनोत्पादने कृते सति "रहो नद्याः" इत्यादयः स्वस्वद्वारा उपपन्ना भवेयुः । अत्रमन्दानां प्रतीत्यर्थं भूमीधर्मजोत्पत्तेः । तद्यथा । रवेर्दशामानं जन्मकालिकं पूर्ववर्षितं पद्म्यादिसमानाभ्यस्य स्थाननवशात्ततः पूर्वदिनाभ्यर्कं

$$\text{दशामानमुत्पन्नं } \left( \frac{१ \times ३६०}{१२} \right) = \left( \frac{१ \times १२ \times ३०}{१२ \times १} \right) = \left( \frac{१ \times ३०}{१} \right) = \left( \frac{१ \times १०}{१} \right)$$

$$\left( \frac{२ \times १०}{१} \right) = (२०) \text{ अथ अन्तरदशामाने वाङ्मताकथ्यात्परदशामानं } \left( \frac{१५ \times ३६०}{१२} \right)$$

$$\left( \frac{१५ \times १२ \times ३०}{१२ \times १} \right) = \left( \frac{१५ \times ३०}{१} \right) = \left( \frac{१५ \times १०}{१} \right) = (५१०) = (५०)$$

एवमन्वयमहात्मनि प्रतीतिरप्याद्या । अथ उरगन्तं सर्वम् ।

तथा मनाश्च सर्वम् ।

अर्धगण २० सतिमात्र ५० अर्धदिनि कुत्र बुधं तावत् ५५ । सति लेखिमा ३३ शुद्धदिनि ६३ तावत्पुष्यदिना ४० । एवतावत्पुष्यदिना ११ ७० ॥

भा० टी०—पूर्व में एक २ वर्षों का वर्षेश कह कर अब एक वर्ष के अन्दर कथित सभी ग्रहों दिनात्मक दशा मान कहते हैं यथा एक वर्ष अन्दर रवि का २० दिन चन्द्रमा का ५० दिन मंगल का २८ दिन बुध का ५६ दिन शनि का २३ दिन गुरु का ६३ दिन राहु का २० दिन और केतु का २० दिन तथा शुक्र का मान ७० दिन होता है । एवं इन दिनों का योग ३९० दिन होता है । यह मान अष्टोत्तरी दशा के मान के अनुपात से लिखा है जिस को मैं टिप्पणी द्वारा स्पष्ट कर देता हूँ ॥ १७ ॥

दशा दशाहता कार्या दशापिण्डविभाजिता ।

लब्धं दिनानि शेषानि शेषं षष्टिहृतं पुनः ॥ १८ ॥

दशापिण्डेन भक्तं यल्लब्धमन्तर्दशाघटी ।

ततः पलात्मकं साध्यं विदशामानमेव हि ॥ १९ ॥

सं० टी०—दशा दशाहता कार्या सा पुनर्दशापिण्डविभाजिता दशायोगमानेन भक्ता लब्धं फलं यत्तानि गणकेन दिनानि शेषानि । पुनः शेषं षष्टिहृतं षष्टिगुणं दशापिण्डेन दशायोगेन भक्तं यल्लब्धं फलं साचान्तर्दशाघटी स्यादर्धा-  
हण्डात्मकं खान्तर्दशामानं स्यात् । ततः पलात्मकं साध्यं विदशामानमेव हि ॥ १८ ॥

अत्रायं फलितार्थः । यस्य दशाधिपस्य महादशायां यदन्तर्दशामानं शानुमभीष्टं तदा तद्दशाधिपस्य महादशामानमभीष्टानां ग्रहाणां स्वस्वदशामानैः पृथक् पृथक् सद्गुण्य सर्वेषां महादशामानयोगेन विभज्य फलं तद्दशाधिपस्य महादशायां स्वस्वान्तर्दशामानं स्यात् । एवमन्तर्दशामानमपि महादशामानं प्रकल्प्य तूर्ववद्विदशामानमपि षोष्यम् । अथवा मनुक्त्वात्कक्रोडाभिघ्नान्य-  
निष्टेन लाघवप्रकारेणान्तर्दशादिकं साध्यम् ॥ १९ ॥

भा० टी०—जिस ग्रह दशा में जिस ग्रह का अन्तर्दशानयन करता हो उसके दशामान से दशाधिपति के दशामान को गुणाकर सब ग्रहोंके दशामान

के योग ( दशापिण्ड ) से भाग दे तो लब्धि अन्तर्दशा दिन प्राप्त होगा पुनः शेष को छाठ से गुणाकर दशापिण्ड से भाग दे लब्धि घटी मान अन्तर्दशा होगी एवं पुनः शेषको ६० से भाग देकर दशापिण्ड से भाग देने से पलात्मक मान अन्तर्दशा होगी । एवं विदशा का आनयन करना चाहिये अर्थात् अन्तर्दशा मानों को दशामान कल्पना कर पूर्वोक्त रीति से विदशा साधन करना चाहिये ॥ १८ ॥ १९ ॥

अत्रोदाहरणम् । तद्यथा रविदशामानमिदं ( २० ) रविदशामानेन गुणितं जातं ( २० × २० ) इदं दशामानयोगेनानेन ( ३६० ) भक्तं जातं  $\left[ \frac{२० \times २०}{३६०} \right] = \left[ \frac{२० \times २}{३६} \right] = \left[ \frac{५ \times २}{९} \right] = \left[ \frac{१०}{९} \right]$  फलं ( १ ) शेषमिदं ( १ ) षष्टिगुणं स्वहरेण भक्तं जातं  $\left[ \frac{६०}{९} \right] = \left[ \frac{२०}{३} \right]$  फलं ( ६ ) पुनः शेषं षष्टिगुणं स्वहरेण भक्तं जातं  $\left[ \frac{२ \times ६०}{३} \right] = \left[ \frac{२ + २०}{१} \right] = ( ४० )$  अतो रविदशामानं स्वान्तर्दशामानं दिनादिकं जातं १ । ६ । ४० एवं रविदशामानं चन्द्रदशामानेन पञ्चाशन्मितेन गुणितं दशायोगेन भक्तं जातं  $\left[ \frac{२० \times ५०}{३६०} \right] = \left[ \frac{२० \times ५}{३६} \right] = \left[ \frac{५ \times ५}{९} \right] = \left[ \frac{२५}{९} \right]$  फलं ( २ ) शेषं ( ७ ) षष्टिगुणं स्वहरेण भक्तं जातं  $\left[ \frac{७ \times ६०}{९} \right] = \left[ \frac{७ \times २०}{३} \right] = \left[ \frac{१४०}{३} \right]$  अत्र फलं ( ४६ ) शेषं षष्टिगुणं स्वहरभक्तं जातं  $\left[ \frac{२ \times ६०}{३} \right] = \left[ \frac{२ + २०}{१} \right] = ( ४० )$  अतो रविदशामानं चन्द्रस्यान्येर्दशामानं दिनादिकं जातं २ । ४६ । ४० । एवं सर्वेषां प्रहाणां महादशामानं स्वस्वान्तर्दशामानानि साध्यानि ।

अन्तर दशानयन का उदाहरण-जैसे रविके दशार्धे रविका अन्तर दशा निकालना है तो दशाधिपति रविके दशाका मान=२० अभीष्ट ग्रहके दशाका मान=२० । दशाओंका योग=२०+५०+२८+५६+३३+६३+२०+२०+७०=३६०=दशापिण्ड । ∴ दशा दशा हटा कर्या दशा पिण्ड विभाजिता= $\frac{२० \times २०}{३६०} = \frac{४००}{३६०}$  =ल-१ दिन, शेष ४० पष्टि हतं दशा पिण्डेन भक्तं  $\frac{४० \times ६०}{३६०} = \frac{२४००}{३६०}$  =लघि ६, घटी शेष=२४० पुनः शेषं पष्टिहतं दशा पिण्डेन भक्तं= $\frac{२४० + ६०}{३६०}$  =लघि ४० पलानि । इस प्रकार रवि में रवि का अन्तरदशा=१ दिन । ६ घटी । ४० पल । इसी प्रकार रविमें चन्द्रमा की अन्तरदशा= $\frac{२० \times ५०}{३६०}$  =२ दिन । ४६ घटी । ४० पल इसी प्रकार सभी अन्तरदशाओं मान निवाल कर रख दिया जाता है ।

यथा सर्वेषां अन्तरदशाचक्रम् ।

रवी	चन्द्रे	भीमे	बुधे
र. १६१४०	चं. ६१५६१४०	म. २१९०१४०	बु. ८१४२१४०
चं. २१४३१४०	मं. ३१५३१२०	बु. ४१२१२०	श. ५१८
मं. ११३३१२०	बु. ७१४६१४०	श. २१३४	घृ. ९१४८
बु. ३१६१४०	श. ४१३५	घृ. ४१५४	रा. ३१६१४०
श. ११५०	घृ. ८१४५	रा. ११३३१२०	के. ३१६१४०
घृ. ३१३०	रा. २१४६१४०	के. ११३३१२०	शु. ११५३१२०
रा. ११६१४०	के. २१४६१४०	शु. ५१२६१४०	र. ३१६१४०
के. ११६१४०	शु. ९१४३१२०	र. ११३३१२०	च. ७१४६१४०
शु. ३१५३१२०	र. २१४६१४०	चं. ३१५३१२०	मं. ४१२११२०
२० दिनानि:	५०	२८	५६

शनी	गुरौ	राहौ	केतौ	शुके
श. ३११३०	गु. ११११३०	रा. ११६१४०	के. ११६१४०	शु. ११२१३६१४०
बृ. ५४९१३०	रा. ३१३०	के. ११६१४०	शु. ३१५३१२०	र. ३१५३१२०
रा. ११५०	के. ३१३०	शु. ३१५३१२०	सू. ११६१४०	चं. ११४३१२०
के. ११५०	शु. ११२११५	सू. ११६१४०	चं. २१४६१४०	मं. ५१२६१४०
शु. ६१२५	सू. ३३०	चं. २१४६१४०	मं. ११३३१२०	बु. १०१५३१२०
सू. ११५०	चं. ८१३५	म. ११६६१२०	बु. ३१६१४०	श. ६१२५
चं. ४१३५	मं. ४१४५	बु. ३१६१४०	श. ११५०	गु. १२१२५
म. २१३४	बु. ११४८	श. ११५०	गु. ३१३०	रा. ३१५३१२०
बु. ५१८	श. ५१४६१३०	गु. ३१३०	रा. ११६१४०	के. ३१५३१२०
३३	६३	२०	२०	७०

अत्रोपपत्तिः । यदि खेटानां दशायामेन परमायुर्दायेन स्वस्वदशामानं विंश-  
तिदिनादिहृषं लभ्यते तदाभीष्टप्रहृदशामानतुल्येन कल्पितपरमायुर्दायेन किमिति।  
फलमिष्टप्रहृदशान्तर्गतस्वस्वान्तर्दशामानं स्यादिति रूपं  $\left(\frac{\text{स्वद} \times \text{हृद}}{\text{दयो}}\right)$  एवमिष्ट-  
प्रहृदशान्तर्गतानां स्वस्वान्तर्दशामानानां सर्वेषां योगमानं दशाषिण्डाख्यम् ।  
तथाऽभीष्टप्रहृदशान्तर्दशामानं परमायुर्दायं चेति प्रकल्प्य पूर्ववदनुपातेन विदशादिकं  
साध्यम् । तेनोपपन्नं सर्वम् ७ १८ ॥ १९ ॥

अथान्तर्दशाफलानि ।

शुभं शुभे बुधपि स्यान्मरणं राहुमन्दयोः ।

शुभं द्वये महत्सौख्यं दुःखं स्याद् भौम सूर्ययोः ॥ २० ॥

रवौ रवौ चेन्मरणं रवौ चन्द्रे तथैव च ।

रवौ भौमे मन्दता च पापो रयिबुधे तथा ॥ २१ ॥

सन्तापोऽर्के शनौ चेत्स्याद्रघौ गुराधुपद्रवाः ।

रव्यगौ चोपद्रघता मन्दता च रयौ भृगौ ॥ २२ ॥

भा० टी०—बुध यदि शुभ ग्रह हो तो बुधका अन्तर्दशादि शुभ होता है राहु और शनि में मरण तथा गुरु शुक्र में अत्यन्त सुख और सूर्य मंगल में दुःख होता है ॥ २० ॥

इस प्रकार प्रथम श्लोक से सामान्य फल कह कर अब विशेष फल को कहते हैं कि सूर्य के दशा में सूर्य का अन्तर दशा हो तो मरण एवं सूर्य के दशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा में भी मरण तथा सूर्य दशा में मंगल के अन्तर में मन्दता ( आलस्य ) पाप बुध की अन्तर्दशा में भी ( आलस्य ) शनि के अन्तर्दशा में सन्ताप, गुरु के अन्तर्दशा में उपद्रव राहु की अन्तर्दशा में उपद्रव और शुक्र के अन्तर्दशा आलस्य होता है ॥ २१ ॥ २२ ॥

चन्द्रे चन्द्रे राज तुल्य लक्ष्मी स्याच्चन्द्रभौमयो ।

चन्द्रे बुधे च नाशः स्यात्स्त्रो पीडा चन्द्रसौरयोः ॥ २३ ॥

चन्द्र गुरौ प्रवासश्च लाभः स्याच्छशिदैत्ययोः ।

सर्वनाशश्चन्द्र शुके स्त्रोनाशश्चन्द्रसूर्ययोः ॥ २४ ॥

कुजे भीमे प्राणनाशो योपिद्भोतिः कुजे बुधे ।

भोमे शनौ च शोकः स्याच्छुभः स्याच्च कुजे गुरौ ॥ २५ ॥

कुजे राहौ चाग्नि भीतिः पीडा स्याच्च कुजे भृगौ ।

भौमे सूर्ये च चातुर्ये कुजे चन्द्रे धनागमः ॥ २६ ॥

भा० टी०—चन्द्रमा की दशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा में राजा के सदृश गुरा मंगल के अन्तर्दशा में लक्ष्मी प्राप्ति बुध के अन्तर्दशा में नाश शनि के अन्तर्दशा में भी पीडा होती है ॥ २३ ॥



भा० टी०—चन्द्रमा दशामें गुरुके अन्तर्दशामें परदेशमें बास राहुकी अन्तर्दशामें लाभ,शुक्रके अन्तर्दशामें सर्वनाश और सूर्यके दशामें स्त्री नाश होता है ॥२४॥

मंगल के दशामें मंगलकी अन्तर्दशा हो तो प्राण नाश बुधके अन्तर्दशामें स्त्री भय, शनिके अन्तर्दशा में शोक गुरु के अन्तर्दशा में शुभ होना है ॥२५॥

एवं मंगल के दशा में राहु के अन्तर्दशा में अग्नि भय शुक्र के अन्तर्दशा में षोडा सूर्य के अन्तर्दशा में चतुरता तथा चन्द्रमा के अन्तर्दशा में धन लाभ होता है ॥ २६ ॥

बुधे बुध सुखं चैव सुखं स्याच्च बुधे शनौ ।

बुधे गुरौ सुखञ्चैव बुधे राहौ च सिद्धय ॥ २७ ॥

षड्भयं बुधे केतौ बुधे शुक्रे च सिद्धयः ।

बुधे सूर्ये कीर्तिलाभो बुधे चन्द्रे च रोगिता ॥ २८ ॥

मन्दता च बुधे भौमे शनौ मन्दे च दुःपिता ।

किञ्चित्सुखं शनौ जीवे शनौ राहौ च दुःपिता ॥ २९ ॥

शनौ भृगौ सुखं च स्यादरिष्टं हि शनौ रवौ ।

शनौ चन्द्रेऽपमृत्युं स्याद्देशं त्यागं शनौ कुजे ॥ ३० ॥

भा० टी०—बुध के दशा में बुध की अन्तर्दशा में सुख बुध म शनि के अन्तर्दशा में भी सुख, बृहस्पति के अन्तर्दशा में सुख राहु के अन्तर्दशा में कर्षों की सिद्धि बुध में केतु के अन्तर्दशा में अग्निभय शुक्र के अन्तर्दशा सिद्धि सूर्य के अन्तर्दशा में यश लाभ चन्द्रमा के अन्तर्दशा में रोग होता है ॥ २७ ॥ २८ ॥

मंगल के अन्तर्दशा में आरुप्य होता है । अथ शनि के दशा में शनि के अन्तर्दशा में दुःख बृहस्पति के अन्तर्दशा स्वल्प सुख राहुके अन्तर्दशा में दुःख शुक्र में सुख, रवि के अन्तर्दशा अरिष्ट च द्रमा के अन्तर्दशा में अरिष्ट मंगल के अन्तर्दशा में देश त्याग और बुध के अन्तर्दशा में सुख होता है । आगे चल कर शु के दशा में बुध के अन्तर्दशा का पल विघ्न बहुरे बह पाप बुध

का है अतएव यहाँ वृ. के दशा में बुध के अन्तर्दशा में सुख रूप फल को कहे हैं ॥ २९ ॥ ३० ॥

शनौ बुधे सुखञ्चैव सौम्ये जीवे च तत्फलम् ।

जीवे भृगो सुखञ्चैव गुरुराहौ च दुःखिता ॥ ३१ ॥

गुरौ शुके च लाभ स्याद्गुरौ सूर्ये सुखं तथा ।

गुरौ चन्द्र वियोगः स्याद्गुरौ भोमे च सूरता ॥ ३२ ॥

विघ्नञ्चैव गुरौ सौम्ये सुखं किञ्चिद्गुरौ शनौ ।

राहौ राहौ च पीडा स्याद्राहौ केतुगते कलिः ॥ ३३ ॥

अगौ भृगो च कलहः कल्प्यते गणकोत्तमैः ।

राहौ सूर्ये चाग्निभयं राहौ चन्द्रे च दुःखिता ॥ ३४ ॥

राहौ भौमे च सन्तापो दुःख स्याद्ग्राहसौम्ययो ।

राहौ शनौ दुःखिता च रोगो मृत्युरगौ गुरौ ॥ ३५ ॥

बृहस्पति के दशम बृहस्पति के अन्तर्दशा में सुख, राहु के अन्तर्दशा में दुःख, शुक्र के अन्तर्दशा में लाभ, सूर्य के अन्तर्दशा में सुख, चन्द्रमा के अन्तर्दशा में वियोग, मंगल के अन्तर्दशा में वीरता, बुध के अन्तर्दशा में विघ्न और शनि के अन्तर्दशा स्वल्प सुख की प्राप्ति होती है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

भा० टी०—राहु के दशा में राहु के अन्तर्दशा में पीडा केतु के अन्तर में कलह और शुक्र के अन्तर में कलह है प्राचीनाचार्यों से कल्पित है । राहु के दशा में सूर्य के अन्तरदशा में अग्निभय, चन्द्रमा के अन्तर दशा में दुःख मंगल के अन्तर में सन्ताप और बुध के अन्तरदशा में दुःख शनि में दुःख तथा रोग और बृहस्पति के अन्तर्दशा में मृत्यु होती है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

शुके भृगो धनं चैव शुके सूर्ये च रोगिता ।


शुके चन्द्रे च नाशः स्याद्धननाशो भृगो कुजे ॥ ३६ ॥

शुके बुधे सुखं चैव धनं चैव भृगौ शनौ ।

शुके गुरौ स्त्रियानाशो भृगोराहौ च वन्धनम् ॥ ३७ ॥

भा० टी०—शुक्र के दशा में शुक्र की अन्तर्दशा में धन प्राप्ति, सूर्य के अन्तर्दशा में रोग चन्द्रमा के अन्तर्दशा में नारा मंगल में धन नारा, बुध के अन्तर्दशा में सुख शनि में धन प्राप्ति गुरु के अन्तर्दशा में स्त्री नाश और राहु केतु के अन्तर्दशा में बन्धन प्राप्ति होती है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

अथ दिगम्बरमतेन केतुपताकीचक्रमुच्यते । तथाया पूर्वादिदिक्षु रघ्यादि-  
शुभान्ताः सेटाः स्याप्याः । तथा तत्र कृत्तिकादिकमेण पापग्रहेषु त्रीणत्रोपि तथा  
शुभग्रहेषु चत्वारि चत्वारि नक्षत्राणि देयानि । अस्मिन्चक्रे यत्र जन्मर्भ तदा-  
रभ्य वर्षपतयः स्युः । तथापि पापरूप एवग्रहो वर्षत्रयस्याधिपस्तथैक शुभसेटो  
वर्षवत्तुष्टस्याधिदः । तथा कृते जातं तद्वचनसुरूपम् ॥



अत्रापि दशादिमानानि पूर्ववदवधेयानि ॥ १ ॥

अत्रोदाहरणम् । तद्यथा । मघानक्षत्रदण्डोपरियतः कुजो मघानक्षत्रजन्म-  
वत्- प्रथमद्वितीयतृतीयवर्षाधिपः । ततो वर्षचतुष्टयस्याधिपः शशिजः । एवम-  
त्रेपि बोध्यम् ।

अत्रापि पापदशया यदा पापन्तर्दशा तदारिष्टम् ।

सुयोधिनी या विहिताऽत्र टीका श्रीकृष्णदत्तेन धरामरेण ।

तस्यां पताकोंजनितं च केतोः सङ्घर्षं पूर्णमगात्पूर्वम् ॥

अथ केतुकुण्डलिकामाह ।

अर्काबुधः कुजो जीवश्चन्द्रः शुक्रस्तथैव च ।

राहुः शनैश्चरश्चैवशास्तया केतुकुण्डली ॥ ३८ ॥

ग्रहयोरुभयोर्मध्ये केतुस्थानचतुष्टये ।

अद्विर्बुध्न्यादि ऋक्षाणि त्रीणि त्रीणि ग्रहेषु च ॥ ३९ ॥

केतोरेकैकमृक्षं स्याद्यत्र वै जन्मभं भवेत् ।

तत्कमाद्गणयेद्वर्षं यथा सङ्ख्यं क्रमात्सुघोः ॥ ४० ॥

सं० टी०—आदावर्कः । ततो बुध । ततः कुजः । ततो जीवः । तत-  
श्चन्द्रः । तथैव शुक्रः । ततो राहुः । ततः शनैश्चरः । एवं ये खेटास्तद्दशाद्बुधेन  
केतुकुण्डली शातश्या श्रेया ॥ ३८ ॥

अथ विहितप्रहाणां स्थापनकर्म दर्शयति । उभयोर्महयोर्मध्ये किन्तु  
कथितग्रहद्वयमध्ये केतुस्थानचतुष्टये केतुग्रहस्य स्थापनस्थानचतुष्टये तथा  
ग्रहेषु चाद्विर्बुध्न्यादि ऋक्षाणि उत्तरभाद्रपदादिनक्षत्राणि त्रीणित्रीणि स्थाप्यानि ।  
तत्र केतोः केतुग्रहस्यापस्त्वैकैकमृक्षं स्यादेकैकनक्षत्रं स्थापनीयम् । एवं रीत्या  
जाते चके यत्र जन्मभं भवेत्तत्कमात्तदधिकृत्य ऋमगणनया यथा सङ्ख्यं वर्षं  
वर्तमानवर्षपर्यन्तं सुधोर्गणयेत् । अर्थात्तद्देशोनात्रवर्षपतिर्बोध्य इति ॥ ३९ ॥ ४० ॥

अत्रायं फलितार्थः । उत्तरभाद्रपदनक्षत्रे यस्य कस्यचिच्चेज्जन्म तदा तस्य जन्मतो वर्षत्रय यावदब्देशो रविः । ततश्चतुर्थवर्षेशः केतुः । तदपे वर्षद्वयस्य कालराहू शून्योपलक्षितौ लेख्यौ । ततो वर्षत्रयस्याधिपो बुधः । ततो वर्षत्रयाधीशो भीमः । पुनस्तत एकवर्षस्याधिपः केतुः । ततो वर्षद्वयाधीशो पुनः कालराहू । ततो वर्षत्रयाधीशो गुरुः । ततो वर्षत्रयाधीशश्चन्द्रः पुनस्तत एकवर्षेशः केतुः । वर्षद्वयस्याधीशौ कालराहू । ततो वर्षत्रयाधीशः शुक्रः । ततो वर्षत्रयाधीशो राहुः । तत एकवर्षाधीशः पुनः केतुः । ततो वर्षद्वयाधीशौ पुनः कालराहू ततो वर्षत्रयस्यार्थाश्रयक्षिशद्वर्षादूर्ध्वं पटत्रिंशद्वर्षं यावदधीशः शनिः स्यादयं प्रथमपर्ययः । एवं द्वयोर्द्वयोर्ग्रहयोर्मध्ये चत्वारि केतोः स्थानानि भवे-  
युस्तेन स्थानचतुष्टये चत्वारः केतवो जायन्ते । एवमन्यपर्ययेषु वर्षेषावगमो बोध्यः । तथाऽन्यैरपि ।

“सूर्यशोभौमसुतेज्वयोश्च ग्लौःशुक्रयोराक्षसमन्दयोश्च ।

मध्ये शिखी चैकमयुक् तथान्ये उपान्त्यभास्त्रिनिमिता भवक्रे ॥ १ ॥

एवं यस्य रेवायां जन्म तस्यादौ वर्षद्वयस्याधिपतिः सूर्यः । ततः पूर्ववत्स्थापनवशात्पटत्रिंशद्वर्षाधीशः पुनः सप्त एव । एवं यस्याश्विन्मां जन्म तस्य प्रथमवर्षाधीशो रविः । ततो एकवर्षस्याधिपतिः केतुः । एवं पूर्ववत्पुनः पञ्चत्रिंशद्वर्षस्य तथा पटत्रिंशद्वर्षस्य चाधीशः सूर्य एव । एवं मघानक्षत्रजन्मतो मघा नक्षत्रोपरिगतो गुरुर्जन्मतो वर्षत्रयाधीशः । ततः पूर्ववदन्त्ये कालराहूः ।

भा० टी०—अथ रवि बुध मंगल बृहस्पति चन्द्रमा शुक्र राहु शनिधर इन ग्रहों के क्रम से जो चक्र होता है उसे केतु कुण्डली जानना चाहिये । परन्तु इन ग्रहों के स्थापन में विशेषता यह है कि कथित ग्रहों में दो २ ग्रह के मध्ये ४ चार स्थान में केतु का स्थापन करे यथा “रवि केतु बुध”, तथा मंगल केतु बृहस्पति, एवं चं० के० शु० तथा राहु केतु शनि इस प्रकार चार ४ स्थान में केतु स्थापन करे । एवं ग्रह स्थापन करके नक्षत्र स्थापन लिखते हैं उत्तरा भाद्रपद से प्रारम्भ कर तीन २ नक्षत्र ग्रहों के स्थान में और एक २ नक्षत्र केतु ग्रह के स्थान में लिखे यहाँ अभिजित लिखित नक्षत्र की गिनती

किया है क्योंकि सभी २८ नक्षत्र होते हैं जो निम्नलिखित वेतु कुण्डली चक्र से स्पष्ट है। एव जो चक्र होगा उसमें जहाँ जन्मनक्षत्र हो उसके क्रमसे बद्धिमान् वर्षों की गणना करे। जैसे उत्तरा भाद्रपद में जिस का जन्म हुआ तो उसके प्रथम तीन वर्षों के स्वामी सूर्य हुए चतुर्थ वर्ष के केतु तथा प्रत्येक स्थान में केतु के बाद २ वर्षों का स्वामी कालराहु पुनः उसके बाद सप्तम अष्टम नवम वर्ष का स्वामी बुध उसके बाद ३ वर्ष का स्वामी मंगल उसके बाद १ वर्ष का स्वामी केतु तत्पश्चात् वर्ष द्वय का स्वामी कालराहु एवं क्रम से चौतीस पैंतीस छत्तीसवें वर्ष का स्वामी शनिधर हुआ। इस प्रकार प्रथम आश्रुति हुई एवं तीन आश्रुति में १०८ वर्ष होते हैं ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥\*

### केतु कुण्डली चक्रम् ।

र.	के.	बु.	म.	के.	शु.	चं.	के.	शु.	रा.	के.	श.
उ.	म.	कृ.	भा.	भा.	म.	ह.	वि.	भ.	पू.	ध.	ध
रे.	०	रो.	पु.	०	पू.	वि.	०	उये	उ.	०	श.
भ.	०	मृ.	पु.	०	उ.	स्वा.	०	मू.	भ.	०	पू.

\* विशेष स्पष्ट अन्य उदाहरण लिजिये जैसे किसी का जन्म विशारदा नक्षत्र में हुआ तो केतु कुण्डली चक्र से केतु प्रथम वर्ष का स्वामी द्वितीय तृतीय का काल राहु, चतुर्थ पंचम षष्ठ का शुभ, ७, ८, ९ वें का राहु १० वें का केतु ११, १२ वें का काल राहु, १३, १४, १५ वें का शनि, १६, १७, १८ वें का रवि, १९ वें का केतु २०, २१ वें का काल राहु २२, २३, २४ वें का बुध, २५, २६, २७ वें का मंगल, २८ वें का केतु २९, ३० का काल राहु, ३१, ३२, ३३ वें का बृहस्पति,

एवं यस्मिन्नक्षत्रे जन्म तन्नक्षत्राधीशमधिकृत्य पूर्वप्रथमादृत्तौ षट्त्रिंशद्-  
र्षाणामधिषाः स्थाप्याः पुनरन्यपर्यायेषु तथैव बोध्याः ।

### अर्थैषां दशाफलानि ।

रविवर्षे भवेच्छून्यं शिरः शूलश्च दुर्बलम् ॥

स्वगोहे मनुष्यमरणं कलहानि बहून्यपि ॥ ४१ ॥

रविवर्षे शून्यं शिरः शूलस्तथा गृहे मनुष्मरणं स्वपुत्रादिप्राणवियोगः ।  
तथा कलहानि बहूनि । इति सर्वं भवेत् ॥ ४१ ॥

भा० टी०—रवि के वर्ष में पुत्र्य शून्य ( अर्थात् रिक्त रहता है ) शिर  
दर्द से पीड़ित दुर्बल स्वगृह परिवार के मरण से दुःखी और अनेक प्रकार  
सगर्हों से युक्त होता है ॥ ४१ ॥

केतोर्वर्षे चौरभयं बन्धनाद्योन्यनेकघा ।

देशभ्रमणं युधस्याब्दे रोगो मृत्युभयं तथा ॥ ४२ ॥

स्त्रीपुत्रादौ भवेत्पोडा शोको वित्तस्य नाशनम् ।

भौमवर्षे भवेत्कलेशो याम्यैश्चौरादिभिर्भयम् ॥ ४३ ॥

३४, ३५, ३६, का चन्द्रमा यह प्रथम आवृत्ति हुई । द्वितीय ३७-७२ तक, तृतीय  
७३-१०८ वर्ष तक होगी अन्योदाहरण—जैसे किसी का जन्म रेवती में हुआ तो उसके  
प्रथम २ वर्ष के स्वामी रवि होंगे तथा ३ रे का केतु, ४, ५ का काल राहु, ६, ७, ८  
वें बुध ९, १०, ११ वें मंगल, १२ वें का केतु १३, १४ वें का काल राहु, १५, १  
१६, १७ वें शू० १८, १९, २० का चं०, २१ वें का केतु २२, २३ का काल  
राहु, २४, २५, २६ वें का शुक्र, २७, २८, २९ वें का राहु, ३० वें का केतु,  
३१, ३२ का काल राहु, ३३, ३४, ३५ वें का शनि, और पुनः ३६ वर्ष का रवि  
हुआ । एवं और भी उदाहरण में जानना चाहिये ।

कैतोर्वर्षे चारभयं तथाऽनेकधा बहुप्रकारेण बन्धनादीनि कारागृहादिकानि राजदण्डानि भवन्ति । अथ बुधवर्षे देशभ्रमणं रोगश्च तथा मृत्युभयम् । एवं स्त्रीपुत्रादौ पीडा स्त्रीपुत्रादि जनितं दुःखं तथा शोकश्च वित्तस्य धनस्य नाशनमित्यग्निमश्लोकेनान्वयः ॥ ४२ ॥

स० टी०—भौमवर्षे ष्लेशस्तथा याम्येयमदूतैश्चौरादिभिश्चौरैस्तथादिशब्दादग्निना भयं भवेत् ॥ ४३ ॥ पूर्ववत्केतोः ।

भा० टी०—केतु के वर्ष में पुष्ट को चोरों से भय तथा अनेक प्रकार ईश्ट बन्धनादि ( कारागृह तथा राज दण्डादि ) का भय होता है ।

बुध के वर्ष में देशभ्रमण रोगभय मृत्युभय तथा स्त्री पुत्रादि को पीडा और शोक व धननाश होता है ।

मंगल के वर्ष में क्लेश तथा यमदूतों से भय ( मृत्यु से भय ) और चोर अग्नि आदि का भय होता है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

वि०—मंगल के बाद केतु के वर्ष का फल पूर्ववत् कहना चाहिये तथा सर्वत्र ( चारों स्थान में ) केतु का फल पूर्ववत् ही कहना चाहिये ।

### गुरुचन्द्रयोर्फलम् ।

गुरुवर्षे भवेत्प्राप्तिश्चन्द्रे च सर्वसिद्धयः ।

स्वर्णरौप्यादिलाभश्च राजवाजिधनागमः ॥ ४४ ॥

स० टी०—गुरुवर्षे प्राप्तिः किन्तु धनसुखादीनां लाभः । चन्द्रवर्षे सर्वसिद्धिस्तथा कृषिसुवर्गरौप्यादि लाभसुखानि ॥ ४४ ॥ केतुफलं पूर्वोक्तम् ।

भा० टी०—बृहस्पति के वर्ष में धन सुखादि को प्राप्ति होती है । चन्द्रमा के वर्ष में सभी प्रकार की सिद्धि स्वर्ण रूपादि का लाभ और हाथी घोड़े आदि धन का लाभ होता है ॥ ४४ ॥

### शुक्रराहोर्फलम् ।

शुक्रवर्षे सन्ति गायो वाहनानि धनानि च ।

राहुवर्षे जलभयं पादघ्नणव्यथा भवेत् ॥ ४५ ॥



सं० टी०—शुक्रवर्षे गावो गवादिपशवस्तथा बाह्वानि गजवुरज्जमादिनाभः ।  
धनानि सर्वधनानि चकारान्तसर्वसुरानि । राहुवर्षे जलभयं जले निमज्जनादि-  
भयम् । तथा पादप्रणम्यया चरणे विस्फोटकादिकं तथा पादप्रणम्यया चरणे  
विस्फोटकादिकं । तथा तदन्यप्रकारेण म्यया चेति भवेत् ॥ ४५ ॥ शेतोः फलं  
पूर्ववदवधेयम् ।

भा० टी०—शुक्र के वर्ष में गाव भेस आदि पशु का लभ घेदे हाथी  
आदि बाहनों का सुरा सभी प्रकार के धन का काम और सभी प्रकार के  
सुरों की प्राप्ति होती है ।

राहु के वर्ष में जल से मय और पर में मय तथा पीटा होती है ॥ ४५ ॥

### शनिफलम् ।

शनिवर्षे भवेत्पीटा रोगशोकमयानि च ।

एतद्दशाफलं शेषमित्युक्तमपूर्वमृत्तिभिः ॥ ४६ ॥

सं० टी०—शनिवर्षे पीटा रोगशोकमयानि भवन्ति एतद्दशाफलम् ।  
इति पूर्वमृत्तिभिः प्राचीनपण्डितैः कथितम् ॥ ४६ ॥

शनि के वर्ष में पीटा और रोग शोक भयदि रोग है । ये फल  
पूर्वकालों में कहे गये हैं ॥ ४६ ॥



## अथोक्तदशाफलबोधकानि खनावाक्यानि ।



रविवत्सरशून्यफल शिरः शूल गायदुर्बल ।

घरफोडे मानुषमरे अनेक विघ्नरधिकरे ॥ १ ॥

स० टी०—रविवर्षे शून्यफल शिरः शूल “गायदुर्बल” गायदुर्बल तथा “घरफोडे” गृहविवाद ‘मानुषमरे’ मनुष्यनिघनम् । अनेकविघ्न बहुधा चौपद्रवम् ॥ १ ॥

रवि—रवि वत्सर शून्य फल शिरः शूल गाय दुर्बल घर फोडे मानुष मरे अनेक विघ्न रवि करे ॥ १ ॥

भा० टी०—सूर्य अपने वर्ष शून्यफल ( निष्फल ) शिरः दुर्बल शरीर करता है और घर में बलह तथा स्त्री गुनादि का मरण एक अन्नको विघ्न करता है ॥ १ ॥

कहे केतु वत्सर जारहय चोरे बाधना ।

बांधे तारे आगुन चौरेर्भयघरेघरे ॥ २ ॥

स० टी०—केतुवत्सर ज रहय केतोर्वत्सर मस्य भवेत् तारे तं चोरे चौरा बाधनी बांधे रज्जादिभिर्वध्नति । आगुनचौरेर्भयघरेघरे अग्निचौरादिभ्यो घरे परे प्रतिगृहे भयम् । कहे वदति खनन्ति शेष ॥ २ ॥

केतु—कहे केतु वत्सर जारहय चौर बाधनी बांधे तारे आगुन चौरेर्भय घरे घरे ॥ २ ॥

भा० टी०—एव जिसका केतु का वत्सर ( वर्ष ) रहता है तारे (उधको) चोर रस्सी से बांधते हैं ( अर्थात् चोर रस्सी से बांध कर उसके धनादि को लूटा ले जाते हैं ) तथा उस समय घर घर अग्नि और चौरों का भय रहता है ॥ २ ॥

बोलता है ) अर्थात् यम दूत घर आते हैं पानि मृत्यु को करते हैं, जब यम दूत बोलते हैं तभी वह बोलता है अर्थात् मृतक व्यक्ति यमदूत से ही बात चीत करता है ॥ ४ ॥

देवगुरु तुमी वृहस्पति तुमारवत्सर ।

पीतलोहितकृष्ण घरे घाती देशेरमध्ये ।

करे ख्यातीकृषि निधि सर्व सिद्धिकराहय ।

विधुसोनापाहाथ काने वसि आवे ॥ ५ ॥

वृहस्पति हे वृहस्पते तुमी त्वं देवगुरु देवपूज्योऽसि । तुमार तव वत्सर वर्ष घरे वृहे पीतलोहितकृष्ण पीतलोहितकृष्णानि द्रव्याणि घाती स्थापयति । तथा विधुसोना रौप्यसुवर्णरचितान्याभरणानि पा चरणे हाम हस्ते काने कर्णे वसिभावे निवासयति ॥ ५ ॥

गुरुर्चेन्द्रयोर्फलम्—देव गुरु तुमी वृहस्पति तुमार वत्सर पीत लोहित कृष्ण घरे घाती देशेरमध्ये करे ख्याती कृषि निधि सर्वसिद्धि कराहय । विधु सोनापा हाथ काने वसि आवे ॥ ५ ॥

भा० टी०—हे वृहस्पति तुमी देव गुरु ( हे वृहस्पति आप देवों के गुरु हैं ) तुमार वत्सर ( आप का वर्ष ) घरे पीत लोहित कृष्णघाती ( घर में पीत लाल कृष्ण आदि द्रव्यों को स्थापन करता है ) । देशेर मध्ये ख्याती करे ( देश में प्रसिद्धि को करता है ) कृषि निधि सर्व सिद्धि कराहय ( और रोती इत्यादि निधि की प्राप्ति तथा सभी सिद्धि को करता है ) । तथा विधु (चन्द्रमा के वर्ष में ) सोना पा हाथ काने वसि आवे ( सुवर्णादि के भूषण हाथ पैर और कानों में निवास करता है ) ॥ ५ ॥

भृगुसुत तुमी दैत्यगुरु तुमार वत्सर आनेकगौरु ।

अश्वघाहन गजस्कन्दतुमारवत्सरैरमहिमा ॥ ६ ॥

भृगुसुत हे शुक्र तुमी त्वं दैत्यपूज्योऽसि । तुमार वत्सर तव वर्ष आनेक गौरु बहुधा पशून् तथा अश्वघाहनगजस्कन्द हयवाहन इलिसमूहं च करोति । इति तुमार तव वत्सरैर वर्षस्य महिमा मावात्म्यं स्यात् ॥ ६ ॥

शुक्र फलम्—मृगु सुत तुमी दैत्य गुरु तुमार वत्सर आनेक गोरु । अथ वाहन गजस्कन्द तुमार वत्सरेर महिमा ॥ ६ ॥

भा० टी०—मृगु सुत तुमी दैत्य गुरु ( हे शुक्र तुम दैत्यों के गुरु हो ) तथापि तुमार वत्सर आनेक गोरु अथ वाहन गजस्कन्द करोति । ( ती भी तुम्हारे वर्ष में पुष्ट अनेक प्रकार के पशुओं की प्राप्ति तथा हाथी घोड़े आदि वाहनों की प्राप्ति होती है ) इति तुमार वत्सरेर महिमा ( यह तुम्हारे वर्ष की महिमा है ॥ ६ ॥

पापखाइवेन आयराहु वत्सर अवश्य राय हाथे ।

पाये नाही गोटा स्थानरहित नाही पुष्टहय ॥ ७ ॥

प्राप्त राहु वत्सरे नरो पापखाइवेन पापभक्षितः । तथा अवश्यमेव हस्ते पादे स्थायभयः । नाहीगाटा नहि सम्पूर्णाङ्ग स्थानरहित स्थानच्युतिः । नाही पुष्टहय नहिपुष्टशरीर ॥ ७ ॥

राहु फलम्—पाप खाइवेन आय राहु वत्सर अवश्य राय हाथे पाये नाही गोटा स्थान रहित नाही पुष्ट हय ॥ ७ ॥

भा० टी०—आय राहु वत्सर ( राहु के वर्ष प्राप्त होने पर ) नरो पाप खाइवेन ( पुरुष पाप से भक्षण होता है अर्थात् पाप करता है ) हाथे पाये अवश्य राय ( हाथ पैर का अवश्य क्षय होता है ) नाही गोटा ( सम्पूर्णाङ्ग नहीं रहते हैं अर्थात् किसी न किसी अङ्ग का अवश्य भंग होता है ) स्थान रहित ( स्थान च्युति होती है ) नाही पुष्ट हय ( और शरीर पुष्ट नहीं रहता है ) ॥ ७ ॥

कालोगाय तुमी शनैश्चर मानुषगोरु मारो पडे घर ।

कीलचापउ पडे पोडे वायूर चाडो गाय उठे ॥ ८ ॥

स० टी०—त्वं शनैश्चर कालोगाय नीलगान्त्रोसि । मानुषगोरु मारो मनुष्यादीनां पश्यादीनां च नाशकारकोसि । तथापर गृहं पडे पतति कीलकम्प-कादिभ्यो भेदनं भवेत् । वायूरवाडी स्वयुहस्थानां चापठ पडे गाय शरीरे पीडे उठे पीडोत्पत्तिः ॥ ८ ॥

शनि फलम्—कालो गाय तुमी शनैधर मानुष गोह मारो पडे घर कील चापड पडे पीडे बाबूर बाडी गाय उठे ॥ ८ ॥

मा० टी०—हे शनैधर तुमी कालो गाय ( हे शनिधर तुम नील गात्र हो ) मानुष गोह मारो ( मनुष्य आदि तथा पशुकादि का नाश करते हो ) तथा घर कील पडे ( अर्थात् तुम्हारे वर्ष में घर इत्यादि गिर जाता है अतएव कष्टादि से भेदन होता है ) ॥ ८ ॥

इति द्वितीय वर्षेशस्य फलानि ।



अत्र द्वितीयवर्षेशावगमाय मदीयः प्रकारः ।

व्यल्पा यदा स्याज्जनिमस्य सङ्ख्या

दृग्भ्यान्तदाऽऽख्या त्रिसमाऽधिका या ।

चेत्सा समुद्रैः सचराधिकाऽऽख्या ।

रसैश्च भूपादधिका मक्ष यदाऽऽख्या ॥ १ ॥

नागैश्च दिग्भिस्त्रिकराधिकाऽऽख्या तथाकृते योग इहेतवर्षे ।

युक्ताऽग्निभक्तः किल शेषसत्त्वे सरूपलब्धाद्य शून्यशेषे ॥ २ ॥

फलाद्यथोक्ताः सचरा समेशाः केत्वद्भूषे चेद्वशेषमानम् ।

रूपाधिकं तर्हि समेश्वरो धै कालाख्यराहुर्भयतीह नूनम् ॥ ३ ॥

अत्राश्विन्यादितः सामिजिज्जनिमस्य सङ्ख्या जन्मनक्षत्रसङ्ख्या यदि चेत्यस्याश्विन्यो न्यूना तर्हि सा सङ्ख्या दृग्भ्यां सहिता द्वियुता । यदि चेदन्यथा अधिका तत्समा च तदा सा जन्मर्शसङ्ख्या समुद्रैर्युक्ता चतुर्युता विधेया । चेद्यदि सा जन्मर्शसङ्ख्या सचराधिका नवाधिका तदा रसाग्ना पठ्युता । चेद्यदि सा जन्मर्शसङ्ख्या षोडशाधिकां तदा नागैरग्निशब्दात्सहिता । एव त्रिकराधिकाप्रयोविंशत्यधिका तदा दिग्भिराग्ना दशसहिता । इह तथा योगे

कृते सति यो योगः स चेतवर्षैर्गतवर्षैर्युक्तः सहितः । तथाग्निभक्तलिप्तकैः ।  
अत्र शेषसत्त्वे शेषस्थितौ सरूपलब्धादेकयुतफलप्रमाणात् । अथ शून्यशेषे शेषा-  
भावे फलात्केवलात्फलात् । यथोक्ताः खेचरा "अर्कः केतुध" इति पठिता  
प्रहाः समेशा अन्वयाः स्युः । अत्राब्दपे वर्षे शो केतौ सति यदि शेषमानं  
रूपाधिकं द्वित्रिप्रमितं तदेह केतुकुण्डल्या कालाह्वयराहुः संज्ञया कालराहुः समे-  
श्वरो वर्षपो भवति ॥ ३ ॥

अत्रायं भावः । यद्यश्विन्यादितो भरणीयावज्जन्मनक्षत्रं तदा तन्मितिद्वि-  
युता । एवं यदि कृत्तिकानक्षत्रादश्लेषानक्षत्रं यावज्जन्मनक्षत्रं तदा दाह्यात्तन्मि-  
तिथयुतयुता । अथ यदि मघानक्षत्राद्विशाखानक्षत्रं यावज्जन्मनक्षत्रं तदाऽश्विन्या-  
दितस्तन्मितिपटसहिता । अध्यानुशधानक्षत्राच्छ्रवणक्षं यावज्जन्मभन्तदाऽश्विन्या-  
दितः सामिजित्मितिरेष्टसहिता । एवं धनिष्ठानक्षत्राद्देवत्यन्तं यावज्जन्मनक्षत्रं  
तदाऽश्विन्यादितस्तन्मितिर्द्विक्सहिता विधेया । एवं निष्पशो योगो गतवर्षस-  
हितो यः स च त्रिभक्तः सनत्र यद्यवशेषमानं स्यात्तदा सैकफलप्रमात् । अत्र  
यदि शेषाभावस्तदा यथागतफलादेव रविशिखिगुप्तुजशिखिगुरुचन्द्रशिखिमृगुरा-  
हुकेतुशनेश्वरा एते वर्षाधिपाः स्युः । एवं केतौ वर्षपे जाते सति यदि तत्र शेष-  
मानं द्वित्रिप्रमितं तदा कालराहुवर्षपः स्यात्तदन्यथा वर्षेशः केतुः स्यादिति सुषी  
भिर्बिभाष्यम् । अत्र मन्दानां प्रतीत्यर्थमुदाहरणम् । तद्यथा । मघानक्षत्रजन्म-  
वतस्त्वश्विनीनक्षत्रात्तज्जन्मक्षसहृथा नन्दनाभिका सेन तत्सहृथा दशमिता प-  
ञ्चुता षोडशमिता जाता ( १६ ) अत्रेयं जन्मसमये शून्यगताब्दैर्युता सति यथा-  
स्थितैव ( १६ ) अतोऽयं ( १६ ) योगत्रिभक्तस्तदा फलं शरत्स्य ( ५ ) शेष १९-  
मितं ( १ ) स्यात् । अतः सैकफलं रसमितं ज्ञातम् ( ६ ) सेनोक्तमहगणनया गुरुः  
प्रथमाब्दपो जातः । तथा मघानक्षत्रोपरि गतो गुरुः पूर्वाचार्याभिमतः प्रथमव  
वर्षतो जातः । एवं द्वितीयवर्षे रूपमितेतवर्षेण युतो निष्पन्नयोगोऽयं ( १६ )  
सप्तदशसमो जातः ( १७ ) अयं त्रिभक्त फलं ( ५ ) सैकं ( ६ ) सेनात्रापि  
द्वितीयाब्दपो जीव । एवं निष्पन्नयोगोऽयं ( १६ ) द्विमितेन गतवर्षेण युत-  
स्तदाऽष्टादशसमो जातः ( १८ ) अयं त्रिभक्तः फलं रसमितं ( ६ ) तयाव-  
शेषं शून्यं स्यात् । अत्र एकात्र खेवलात्फलादेव तृतीयवर्षस्याधिपो जीव एव ।

एवं पूर्वाक्षयोगाऽय ( १६ ) रसमितेन गतवर्षेण युतस्तदा द्वाविंशतिसमा जात ( २२ ) अय त्रिभक्त फल ( ७ ) तथावशेषं ( १ ) तेन सैकफलात्सामवर्षा धिप वेत्तु स्यात् । एवं निष्यन्नयोगोऽय ( १६ ) नगामतेन गतवर्षेण युत-स्तदा त्रयोविंशतिमितो जात ( २३ ) अय त्रिभक्त फल [ ७ ] तथा शेष-मान द्विमितं स्यात् । तेनात्र सैकफलाज्जाते वर्षाधिपे जात । एव नवमवर्षा धिपथ स एव । एव यत्र सरूपफलं वा केवलफल द्वादशाधिक स्यात्तदाऽर्क-तष्टात्तस्मादम्दाधिपो बोध्य । एवमन्यनक्षत्रजन्मवतामपि स्वमत्योदाहरण श्रेयमिति ।

अत्रोपपत्ति । तत्रोत्तरभाद्रपदादिनक्षत्रप्रयवशात्सूर्यादय कथितलेटा अन्दा धिपा परमत्राश्विनोक्षत्राज्जन्मर्शसङ्ख्या या गृहीता सा यदि द्वियुता तदोत्तर भाद्रपदनक्षत्राज्जन्मर्शावधिका सा सङ्ख्या स्यात् । परमेवं भरणीपर्यन्तमर्यात्स्य र्वा जन्मरक्षसङ्ख्या यावत् । अथ यदि तदमत सर्पनक्षत्र यावज्जन्मनक्षत्रं स्यादर्थाद्द्विकाधिका नवमावधिका जन्मर्शमिति स्यात्तदा भरणीनक्षत्रादथ स्थानद्वये कालराहुर्विहित । परस्य तत्र नक्षत्रपठिताभाव स्यात् । अतस्तस्या नद्वयबोधार्थं जन्मर्शसङ्ख्या द्वियुता तयोत्तरभाद्रपदशोद्गणनार्थं पूर्वरीत्या द्वियुता विधेया तेनात्र जन्मर्शसङ्ख्या चतुर्युक्ता जाता । अथ यदि नवाधिका षोडशाव धिका जन्मर्शसङ्ख्या यावत्तावत्तर्हि पुन सर्पनक्षत्राथ कालराहुजनितस्य स्थान द्वयस्यावगमाय सा सङ्ख्या द्वियुता कर्त्तव्या तथा पूर्वरीत्या चतुर्युता प्राप्तेवात् सा षड्युता जाता । एवं षोडशाधिका त्रयोविंशत्यवधिका जन्मर्शसङ्ख्या तदा पुनविंशाखानक्षत्राथः कालराहुस्थानद्वयावगमार्थं सा द्वियुता तथा पूर्वं षड्युता सिद्धेवात् नाग्युता जाता । एव त्रयोविंशत्यधिका जन्मर्शसङ्ख्या तदाश्रवणर्शाथ कालराहो स्थानद्वयावगमाय सा द्वियुता कर्त्तव्या तथा पूर्वं नाग्युक्ता प्राप्तेवातो दिग्भि सा युता जाता ।

अथोत्तरभाद्रपदादिनक्षत्रजन्मवता प्रयाणां प्रयाणां नक्षत्राणामेकेकेरेट प तिर्विहितस्तथा यद्यपि केतुरेकनक्षत्राधीश परस्य तदथ कालराहू द्वौ पठितो तेनात्रापि कालराहुभ्या सहित केतुर्ग्रहप्रयसमा जात । एवं जन्मसमयेय

खेटो वर्षाधीशस्तदारभ्यैकैकवृद्धया चैकद्विकादिक्रगतवर्षे सति वर्षाधीशः स्यात् । अतः पूर्वोक्तयोगो गतवर्षैर्युक्तस्तदोत्तरभाद्रपदनक्षत्रादिष्टवर्षाधि विहितखेटानां वृन्दं स्यात् । ततोऽनुपातः । यदि त्रिमितेन वृन्देनोक्तप्रहो रूपमितो लभ्यते तदेष्टवृन्देन क इति । फलं गतवर्षाधीशः स्मादतो वर्तमानावगमाय फलं सैकं कृतम् । परञ्चैवं शेषसत्वे शेषत्यागात् । यदा शेषाभावस्तदा तु फलमेव वर्तमानवर्षाधीशः स्यात् । परञ्चैवं वर्षाधिपे केतौ जाते सति तत्रस्यशेषे रूपमिते केतुरेव वर्षेश्वैकवर्षस्य तदर्धाशविहितत्वात् । तथा तदप्रे वर्षद्वयस्य कालराहु-रधिपो विहितः परञ्च विहितखेटानां मध्ये तत्सङ्ख्या न पठिता तेन यदा द्वित्रिमितं शेषं तदा लब्धानुसारात्प्राप्तमपि वर्षाधिपं केतप्रहमपहाय कालाख्यराहुरब्दाधिपो बोध्यः । अत उपपन्नं सर्वम् ।

इतीह केतुकुण्डली शुभाशुभप्रयोधिनी ।

तदीयवोघदायिनी प्रपूर्णतां सुबोधिनी ॥ १ ॥

अथ तृतीयाब्देशावगमाय गुहकुण्डलीमाह ।

आदौ रविस्ततो भौमस्तदग्रं केतुरिष्यते ।

ततश्चन्द्रो बुधश्चैव ततो गुरुरिहेष्यते ॥ ४७ ॥

सप्तमे भार्गवस्तद्ददष्टमे शनिरिष्यते ।

ततः परं सैहिकेय इत्येवा गुहकुण्डलो ॥ ४८ ॥

आदौ प्रथमं रविः । ततो भौमः । तदप्रे भौमात्परं केतुरिष्यते कथ्यते ।

ततः केतोरप्रे चन्द्रः । ततो बुधः । ततो बुधादप्रे गुरुरिष्यते ॥ ४७ ॥

सप्तमे सप्तमस्थाने भार्गवः शुक्रः तद्ददष्टमे तथाऽष्टमस्थाने शनिरिष्यते ।

ततः परं शनेरप्रे सैहिकेयः सिहिकासुतः किन्तु राहुः । इत्येवमेवा गुहकुण्डलो स्यादर्षादेवं रीत्या गुहकुण्डलिकायां नव खेटाः स्याप्याः ॥ ४८ ॥

भा० टी०—गुह कुण्डली में प्रथम रवि तत्पश्चात् सप्तमः मंगल, केतु, चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु की स्थापन करना चाहिये । इस रीति से गुह कुण्डली चक्र होता है ॥ ४७-४८ ॥



पुत्र्यादिकं क्रमेणैव ऋक्षं देयं पुनः पुनः ।

यत्रस्थं जन्मनक्षत्रं तत्क्रमाद्गणयेद्बुधः ॥ ४९ ॥

पुष्यादिकमृक्षं नक्षत्रं पुनः पुनर्वारं चारं क्रमेणैकोक्तप्रहक्रमाद्देयं लेखनीयं गणयेनेति शेषः । एवं सिद्धे चक्ष्रे जन्मनक्षत्रं यत्रस्थं यत्कोष्ठगतं तत्क्रमाज्जन्मक्षोपरि गतं रोदमधिशुत्य बुधो वर्तमानवर्षेणं यावद्गणयेत् ॥ ४९ ॥

अत्रायं भावः । कथितानामर्कादिप्रहाणामघः स्थानि पुष्यादिनवर्षाणि त्रिराष्ट्या स्थाप्यानि । तद्यथा सूर्यादघः पुष्यर्षम् । बुधे इत्येवा । केतौ मघा । चन्द्रे पूर्वाफाल्गुनी । बुधेकोत्तरा फाल्गुनी । ततो गुरौ इस्वर्षम् । ततः शुके चित्रा । ततः शनौ स्वाती । ततो राहौ विशाखा । इति पथमाष्टौनवर्षाणि लेख्यानि । द्वितीयाष्टौ नु विहिनमार्गोर्णार्कादिप्रहाणामघ स्थानि चानुराधादिकानि नवर्षाणि पुनर्लेख्यानि । ततस्तृतीयाष्टौ तेन प्रकारेणोत्तरभाद्रपदादिकानि नवर्षाणि लेख्यानि । तदुक्तमप्यन्येः ।

सूर्यरवेत्विन्दुबुधेज्यशुक्राकिराहुभानीज्यमतः क्रमेण ।

जन्मर्षे सद्द्वया पतितोऽत्र यत्र तत्कोष्ठेरोदो गुरुकुण्डलीजः ॥ १ ॥

एवं कृते जातं गुरुकुण्डलीचक्रम् ।

भा० टी०— अथ कथित रवि मंगल केतु आदि ग्रहों के क्रम से पुष्य आदि नक्षत्र को चार २ तिरो । एवं इस प्रकार से उक्त चक्र में जहाँ जन्मनक्षत्र हो उस कोष्ठ के उपरि गत्र ग्रह से प्रारम्भ कर वर्तमान वर्ष पर्यन्त वर्षेण की गणना करे । अर्थात् जन्म समय जन्मनक्षत्रोपरि गत ग्रह प्रथम वर्षेण होता है उसके बाद उक्त क्रमसे प्रत्येक ग्रह एक २ वर्षके स्वामी होते हैं ॥४९॥

अथ गुरु कुण्डली चक्रम् ।

ग्रहाः	र.	म.	के.	चं.	बु.	शु.	शु.	शु.	शु.
नक्षत्राणि	पुष्य	श्ले.	म.	पू.	उ.	ह.	चि.	स्वा	वि.
न	ध.	ज्ये.	मू.	पू.	उ.	ध.	घ.	श.	पू. मा.
न	उ.	रे.	ध.	भ.	ह.	रो.	गु.	आ.	पुनर्वसु

उदाहरण—जेसे किसी का जन्म नक्षत्र विशाखा है तो उस के षोष्ठ के  
 उपर राहु है अतएव राहु प्रथम वर्षेश हुआ द्वितीय वर्षेश रवि, तृ० वर्षेश  
 मंगल, चतुर्थ वर्षेश वेतु पंचम वर्षेश चन्द्रमा, षष्ठम वर्षेश बुध, सप्तम वर्षेश  
 बृहस्पति, अष्टम वर्षेश शुक्र नवम वर्षेश शनि दशम वर्षेश पुनः राहु एव  
 एकादशादि वर्षों के सूर्यादि ग्रह बारम्बार वर्षेश होंगे ।

अथ प्रकारान्तरेण गुरु कुण्डलीमाह ।

रेखापञ्चकमालिख्य रेखैकं प्रस्तरे तथा ।

आदौ रविस्ततो भौमः केतुश्चैव तृतीयके ॥ ५० ॥

ततश्चन्द्रो बुधश्चैव षष्ठे शून्यं तथैव च ।

शून्यं तु सप्तमे चैव गुरुश्चैव तथाष्टमे ॥ ५१ ॥

शून्यं तु नवमे चैव तथैव दशमे मतम् ।

एकादशे तु शुक्रः स्याच्छून्यं द्वादशके भवेत् ॥ ५२ ॥

शनिस्त्रयोदशेपि स्याद्द्राहुश्चैव चतुर्दशे ।

शून्यं पञ्चदशेपि स्याज्जातव्या गुरुकुण्डली ॥ ५३ ॥

श्रीणि श्रीणि च ऋक्षाणि पुष्यदोनि नियोजयेत् ।

जन्मर्क्षादिक्रमाद्द्वपमेकैकक्रमशो भवेत् ॥ ५४ ॥

रेखापञ्चकमर्थादूर्ध्वापररूपाः पञ्चमितारेखा तथा प्रस्तरे तिर्यग्भूपविपये  
 रेखैकं रूपमिता रेखा चेति रेखापञ्चकमालिख्य लिखित्वा ततश्चादौ किन्तुचोत्त-  
 राधितदण्डाग्रे रविलेख्यः । ततस्तिर्यग्दण्डाग्रे भौमः । तृतीयके किन्तु विहित-  
 दण्डमूले केतुः । ततो द्वितीयदण्डाग्रे चन्द्र । ततस्तन्मध्येऽर्धात्तदण्डतिर्यग्रेखा-  
 सम्पाते बुधः । तथैव षष्ठे षष्ठस्थानेऽर्धाद्द्वितीयदण्डमूले शून्यं ग्रहाभावः । ततः  
 सप्तमेतृतीयदण्डाग्रे शून्यम् । तथाष्टमे तदण्डतिर्यग्रेखासंयोगे गुरुः । पुनर्नवमे  
 तदण्डमूले शून्यम् । तथैव दशमे चतुर्थदण्डाग्रे मतं शून्यं स्वीकृतम् । तथैका-

दशे तद्दण्डतिर्यग्मेखासम्पाते शुक्र । द्वादशके तद्दण्डमूले शून्यम् । त्रयोदशे पञ्चमदण्डाग्रे शनि । ततश्चतुर्दशे तद्दण्डतिर्यग्मेखासयोगे राहु । पञ्चदशे तद्दण्डमूले शून्यम् । एवं रीत्या गुरुकुडली ज्ञातव्या गणकेनेति शेष ॥५०॥५३॥

तत्रैकैकप्रहादध पुष्यादीनि पुष्यनक्षत्राणानि त्रीणि त्रीणि ऋक्षाणि नक्षत्राणि नियोजयेत्स्थापयेद्गणक इति शेष । एवं विधे गुरुकुडलीचके जन्मक्षारिकमादेकैकं वर्षं क्रमशो भवेत् । अर्थाज्जन्मनक्षत्रोपरिगतं खेट प्रथमवर्षं शरपमारभ्य ततश्चैकैकगतवर्षवशादेकैकवृद्धया वर्षं श स्यात् । तथा कृते जातं तच्च नम् ।

अत्र कैश्चिदकृत्तिकादिनक्षत्रेषु रविचन्द्रकुजबुधशुक्रशुक्रशनिराहुकेतुखेटानां वशाद्गुरुकुडली विहिता परञ्चेद मत सर्वममर्त न स्यादिति तद्गौडम् ॥५४॥

भा० टी०—अथ अन्य चक्र के अनुसार गुरु कुडली को लिखते हैं पांच उर्ध्वाधर रेखा लिखकर उन के उपर एक तिर्यक् रेखा लिखे । ( एव प्रत्येक उर्ध्वाधर में तीन ३ स्थान हुए और पांचो रेखाओं मिलकर १५ स्थान हुए जिन के क्रम से ग्रन्थकार ग्रह स्थापन लिखते हैं जैसे प्रत्येक रेखा का रेखाग्र (१) तिर्यक् रेखा संपात स्थान (२) एव मूल तोलरा एव सब १५ स्थान हुआ । जो कि निम्न लिखित चक्र से स्पष्ट ज्ञात हो जायगा । अथ ग्रह स्थापन क्रम लिखते हैं उर्ध्वाधर के प्रथम के रेखा के अग्र भाग में रवि, प्रथम रेखा व तिर्यक् रेखा संपात रूप द्वितीय स्थान में मंगल तृतीय स्थान में अर्थात् प्रथम उर्ध्वाधर के मूल में केतु चतुर्थ स्थान ( द्वितीय रेखा के अग्रभाग ) में चन्द्रमा पञ्चम स्थान अर्थात् द्वितीय रेखा और तिर्यक् रेखा का संपात रूप में । में बुध षष्ठ में ( द्वितीय रेखा के मूल में ) शून्य एव ७ सप्तम स्थान में शून्य अष्टम में गुरु, नवम में शून्य दशम में भी शून्य एकादशवें स्थान में शुक्र, बारहवें शून्य, तेरहवें स्थान में शनि, चौदहवें स्थान राहु पन्द्रहवें स्थान में शून्य स्थापना करना चाहिये । यह भी गुरु कुडली है । एव चक्र लिखकर प्रत्येक ग्रह के नीचे पुष्यादि नक्षत्र तीन तीन लिखे शून्य के नीचे नक्षत्र स्थापित नहीं करे । तो ऐसी गुरु कुडली चक्र में जन्म नक्षत्र के उपर के ग्रह को प्रथम वर्षं मान कर एक २ वर्ष के क्रम से वर्तमान वर्ष के स्वामी का ज्ञान करना चाहिये ॥ ५०-५१-५२-५३-५४ ॥

उदाहरण—जैसे किसी का जन्म चक्षत्र विशाखा है तो उस के षोष्ठ के उपर राहु है अतएव राहु प्रथम वर्षेश हुआ द्वितीय वर्षेश रवि. तृ० वर्षेश मंगल, चतुर्थ वर्षेश केतु पञ्चम वर्षेश चन्द्रमा, षष्ठम वर्षेश बुध, सप्तम वर्षेश बृहस्पति, अष्टम वर्षेश शुक्र नवम वर्षेश शनि दशम वर्षेश पुनः राहु एवं एकादशादि वर्षों के सूर्यादि ग्रह वारम्बार वर्षेश होंगे ।

अथ प्रकारान्तरेण गुरु कुण्डलीमाह ।

रेखापञ्चकमालिख्य रेखैकं प्रस्तरे तथा ।

आदौ रविस्ततो भौमः केतुश्चैव तृतीयके ॥ ५० ॥

ततश्चन्द्रो बुधश्चैव षष्ठे शून्यं तथैव च ।

शून्यं तु सप्तमे चैव गुरुश्चैव तथाष्टमे ॥ ५१ ॥

शून्यं तु नवमे चैव तथैव दशमे मतम् ।

एकादशे तु शुक्रः स्याच्छून्यं द्वादशके भवेत् ॥ ५२ ॥

शनिश्चयोदशेपि स्याद्राहुश्चैव चतुर्दशे ।

शून्यं पञ्चदशेपि स्याज्ज्ञातव्या गुरुकुण्डली ॥ ५३ ॥

घोणि घोणि च ऋक्षाणि पुण्यदीनि नियोजयेत् ।

जन्मर्क्षादिक्माद्वर्षमेकैकक्रमशो भवेत् ॥ ५४ ॥

रेखापञ्चकमर्यादूर्ध्वाधररूपाः पञ्चमितारेखा तथा प्रस्तरे तिर्यग्प्रविषये रेखैकं रूपमिता रेखा चेति रेखापञ्चकमालिख्य लिखित्वा ततश्चादौ किन्तुचोत्तराश्रितदण्डाग्रे रविल्लेख्यः । ततस्तिर्यग्दण्डाग्रे भौमः । तृतीयके किन्तु विहितदण्डमूले केतुः । ततो द्वितीयदण्डाग्रे चन्द्र । ततस्तन्मध्येऽर्षात्तदण्डतिर्यग्प्रेमासम्पाते बुधः । तथैव षष्ठे षष्ठस्थानेऽर्षाद्द्वितीयदण्डमूले शून्यं ग्रहभावः । ततः सप्तमेतृतीयदण्डाग्रे शून्यम् । तथाष्टमे तदण्डतिर्यग्प्रेक्षासंयोगे गुरुः । पुनर्नवमे तदण्डमूले शून्यम् । तथैव दशमे चतुर्थदण्डाग्रे मतं शून्यं स्वोच्यते । तथैका-

दशे तद्दण्डतिर्यग्रेखासम्पाते शुक्रः । द्वादशके तद्दण्डमूले शून्यम् । त्रयोदशे पञ्चमदण्डाग्रे शनिः । ततश्चतुर्दशे तद्दण्डतिर्यग्पेर्यासयोगे राहुः । पञ्चदशे तद्दण्डमूले शून्यम् । एवं रीत्या गुरुकुंडली ज्ञातव्या गणकेनेति शेषः ॥५०॥५३॥

तत्रैकप्रहादधः पुष्यादीनि पुष्यनक्षत्राद्यानि त्रीणि त्रीणि ऋक्षाणि नक्षत्राणि नियोजयेत्स्थापयेद्गणक इति शेषः । एवं विधे गुरुकुंडलीचके जन्मक्षोदिक्रमादेकैकं वर्षं क्रमशो भवेत् । अर्थाज्जन्मनक्षत्रोपरिगतं रोठं प्रथमवर्षेशरूपमारभ्य ततश्चैकगतवर्षवशादेकैकपृष्ठपाषपंशः स्यात् । तथा कृते जातं तद्यत्नम् ।

अत्र वैश्विकृत्तिकादिनक्षत्रेषु रविचन्द्रकुजगुरुशुक्रशनिराहुकेतुरोठानां वशाद्गुरुकुंडली विहिता परन्वेदं मतं सर्वसम्मतं न स्यादिति तद्गौडम् ॥५१॥

भा० टी०—अथ अन्य चके अनुसार गुरु कुंडली को लिखते हैं पांच उर्ध्वाधर रेखा लिखकर उन के ऊपर एक तिर्यक् रेखा लिये । ( एवं प्रत्येक उर्ध्वाधर में तीन ३ स्थान हुए और पांचो रेखाओं मिलकर १५ स्थान हुए जिन के क्रम से ग्रन्थकार प्रह स्थापन लिखते हैं जैसे प्रत्येक रेखा का रेखाग्र (१) तिर्यक् रेखा संपात स्थान (२) एवं मूल तीसरा एव सब १५ स्थान हुआ । जो कि निम्न लिखित चक्र से स्पष्ट ज्ञात हो जायगा । अथ प्रह स्थापन क्रम लिखते हैं उर्ध्वाधर के प्रथम के रेखा के अग्र भाग में रवि, प्रथम रेखा व तिर्यक् रेखा संपात रूप द्वितीय स्थान में मंगल तृतीय स्थान में अर्थात् प्रथम उर्ध्वाधर के मूल में केतु चतुर्थ स्थान ( द्वितीय रेखा के अग्रभाग ) में चन्द्रमा पञ्चम स्थान अर्थात् द्वितीय रेखा और तिर्यक् रेखा का संपात छपमें । में शुभ षष्ठ में ( द्वितीय रेखा के मूल में ) शून्य एवं ७ षष्ठम स्थान में शून्य अष्टम में गुरु, नवम में शून्य, दशम में भी शून्य एकादशमें स्थान में शुक्र, बारहवें शून्य, तेरहवें स्थान में शनि, चौदहें स्थान राहु पन्द्रहवें स्थान में शून्य स्थापना करना चाहिये । यह भी गुरु कुण्डली है । एवं चक्र लिखकर प्रत्येक प्रह के नीचे पुष्यादि नक्षत्र तीन तीन लिये शून्य के नीचे नक्षत्र स्थापित नहीं करे । तो ऐसी गुरु कुण्डली चक्र में जन्म नक्षत्र के ऊपर के प्रह को प्रथम वर्षेश मान कर एक २ वर्ष के क्रम से वर्तमान वर्ष के स्वामी का ज्ञान करना चाहिये ॥ ५०-५१-५२-५३-५४ ॥

उदाहरण—जैसे किसी का जन्म नक्षत्र विशाखा है तो उस के कोष्ठ के उपर राहु है अतएव राहु प्रथम वर्षेश हुआ द्वितीय वर्षेश रवि. १० वर्षेश मंगल, चतुर्थ वर्षेश केतु पञ्चम वर्षेश चन्द्रमा, षष्ठम वर्षेश बुध, सप्तम वर्षेश बृहस्पति. अष्टम वर्षेश शुक्र नवम वर्षेश शनि दशम वर्षेश पुन. राहु एवं एकादशादि वर्षों के सूर्यादि ग्रह वारम्बार वर्षेश होंगे ।

अथ प्रकारान्तरेण गुरु कुण्डलीमाह ।

रेखापञ्चकमालिख्य रेखैकं प्रस्तरे तथा ।

आदौ रविस्ततो भौमः केतुश्चैव तृतीयके ॥ ५० ॥

ततश्चन्द्रो बुधश्चैव षष्ठे शून्यं तथैव च ।

शून्यं तु सप्तमे चैव गुरुश्चैव तथाष्टमे ॥ ५१ ॥

शून्यं तु नवमे चैव तथैव दशमे मतम् ।

एकादशे तु शुक्रः स्याच्छून्यं द्वादशके भवेत् ॥ ५२ ॥

शनिस्त्रयोदशेपि स्याद्राहुश्चैव चतुर्दशे ।

शून्यं पञ्चदशेपि स्याज्जातध्या गुरुकुण्डली ॥ ५३ ॥

श्रीणि श्रीणि च ऋक्षाणि पुष्यदोनि नियोजयेत् ।

जन्मक्षार्दिकमाद्वर्षमेकैकक्रमशो भवेत् ॥ ५४ ॥

रेखापञ्चकमर्थादूर्ध्वाघररूपाः पञ्चमित्तारेखा तथा प्रस्तरे तिर्यग्प्रविषये रेखैकं रूपमिता रेखा चेति रेखापञ्चकमालिख्य लिखित्वा ततश्चादौ किन्तुचोत्तराश्रितदण्डाग्रे रविलेख्यः । ततस्तिर्यग्दण्डाग्रे भौमः । तृतीयके किन्तु विहितदण्डमूले केतुः । ततो द्वितीयदण्डाग्रे चन्द्र । ततस्तन्मध्येर्ध्यात्तदण्डातिर्यग्रेखा सप्तमे बुधः । तथैव षष्ठे षष्ठ्यानेर्ध्याद्द्वितीयदण्डमूले शून्यं महाभावः । ततः सप्तमे तृतीयदण्डाग्रे शून्यम् । तथाष्टमे तदण्डातिर्यग्रेखासंयोगे गुरुः । पुनर्नवमे तदण्डमूले शून्यम् । तथैव दशमे चतुर्थदण्डाग्रे मतं शून्यं स्वीकृतम् । तथैका-

दशे तद्दण्डतिर्यग्मेखासम्पाते शुक्र । द्वादशके तद्दण्डमूले शून्यम् । त्रयोदशे पञ्चमदण्डाग्रे शनि । ततश्चतुर्दशे तद्दण्डतिर्यग्मेखासयोगे राहुः । पञ्चदशे तद्दण्डमूले शून्यम् । एवं रीत्या गुरुकुडली शतव्या गणकेनेति शेष ॥५०॥५३॥

तत्रैकैकप्रहादध पुष्यादीनि पुष्यनक्षत्राद्यानि त्रीणि ग्रीणि ऋक्षाणि नक्षत्राणि नियोजयेत्स्थापयेद्गणक इति शेष । एवं विधे गुरुकुडलीचके जन्मक्षार्दिकमादेकैकं वर्षं क्रमशो भवेत् । अर्थाज्जन्मनक्षत्रोपरिगतं खेट प्रथमवर्षेऽह पमारभ्य ततश्चैकैकगतवर्षवशादेकैकशृद्धयावर्षं स्यात् । तथा कृते जात तन्वन्म् ।

अत्र कैश्चित्कृतिकादिनक्षत्रेषु रविचन्द्रकुजबुधगुरुशुक्रशनिराहुकेतुखेटानां वशाद्गुरुकुडली विहिता परञ्चेद मत सर्वसम्मतं न स्यादिति तद्गौडम् ॥५०॥

भा० टी०—अथ अन्य २५ के अनुसार गुरु कुडली को लिखते हैं पांच उर्ध्वाधर रेखा लिखकर उन के उपर एक तिर्यक् रेखा लिखे । ( एवं प्रत्येक उर्ध्वाधर में तीन ३ स्थान हुए और पांचो रेखाओं मिलकर १५ स्थान हुए जिन के क्रम से ग्रन्थकार ग्रह स्थापन लिखते हैं जैसे प्रत्येक रेखा का रेखाग्र (१) तिर्यक् रेखा संपात स्थान (२) एव मूल तीसरा एव सब १५ स्थान हुआ । जो कि निम्न लिखित चक्र से स्पष्ट ज्ञात हो जायगा । अथ ग्रह स्थापन क्रम लिखते हैं उर्ध्वाधर के प्रथम के रेखा के अग्र भाग में रवि, प्रथम रेखा व तिर्यक् रेखा संपात रूप द्वितीय स्थान में मंगल तृतीय स्थान में अर्थात् प्रथम उर्ध्वाधर के मूल में केतु चतुर्थ स्थान ( द्वितीय रेखा के अग्रभाग ) में चन्द्रमा पञ्चम स्थान अर्थात् द्वितीय रेखा और तिर्यक् रेखा का संपात रूप में । मैं बुध षष्ठ में ( द्वितीय रेखा के मूल में ) शून्य एव ७ सप्तम स्थान में शून्य अष्टम में गुरु, नवम में शून्य दशम में भी शून्य एकादशवें स्थान में शुक्र, बारहवें शून्य, तेरहवें स्थान में शनि, चौदहें स्थान राहु पन्द्रहवें स्थान में शून्य स्थापना करना चाहिये । यह भी गुरु कुण्डली है । एव चक्र लिखकर प्रत्येक ग्रह के नीचे पुष्यादि नक्षत्र तीन तीन लिखे शून्य के नीचे नक्षत्र स्थापित नहीं करे । तो ऐसी गुरु कुण्डली चक्र में जन्म नक्षत्र के उपर के ग्रह को प्रथम वर्षेऽह मान कर एक २ वर्ष के क्रम से वर्तमान वर्ष के स्वामी का ज्ञान करना चाहिये ॥ ५०-५१-५२-५३-५४ ॥

प्रथम स्थान चतुर्थ स्थान सप्तम स्थान दशम स्थान त्रयोदश स्थान ।

राशि	चं०	०	०	शं०
८ पु०	११			१५
१७ बुले	२०			२४
२६ मं	२			६
द्वितीय स्थान मंगल	पञ्चम स्थान बुध	षष्ठम स्थान गुरुस्पति	एकादश स्थान शुक्र	चतुर्दश स्थान राहु
९ श्ले	१२	१३	१४	१६
१८	२१	२२	२३	२५
२७	३	४	५	७
तृतीय स्थान केतु	पट्ठ स्थान	नवम स्थान	द्वादश स्थान	त्रयोदश स्थान
१०				
१९				
११				

उदाहरण—जैसे कि जन्म नक्षत्र मान लिया पुण्य है तो प्रथम वर्ष का सूर्य, द्वि० व० का मंगल, तृतीय का केतु चतुर्थ का चन्द्रमा पंचम का बुध षष्ठम का गुरुस्पति सप्तम का शुक्र षष्ठम का शनि नवम राहु पुनः दशमे कादि वर्षों के स्वामी, ख्यादि उक्त ग्रह नाम से होंगे। यहाँ शून्य स्थानों से कोई प्रयोजन नहीं है एक काचार्य का यों ही रूपना मात्र है।



अत्र मदीयं सूत्रम् ।

जन्मर्क्षसङ्ख्या सहिता गताद्यै-

नगोनिता नन्दहृतावशेषात् ।

आमं शि च योगुगुसौतपाका

जीवस्य वै कुण्डलिकाप्रजाताः ॥ १ ॥

जन्मर्क्षसङ्ख्या दसभास्वजन्मनक्षत्रावधि या सङ्ख्या सा गतान्देर्गतवर्षः सहिता युक्ता तथा नगोनिता सप्तसहिता विधेया । एवं या सङ्ख्या सा नन्दहृता नवभिर्भक्ता तदा यदवशेषमानं तस्मादवशेषमानात् आमं शि च योगु शु सौ त पाकाः किन्तु आ आदित्यः सूर्यं म मङ्गलः । शि शिखी केतुः । च चन्द्रमा यो बोधनो बुधः । गुगुरुः । शु शुक्रः । सौ सौरः शनिः । त तमो राहुः । एतेषां पाका दशाः स्युः । कथम्भूता जीवस्य बृहस्पतेः कुण्डलीकाप्रजाताः कुण्डल्युत्पन्नाः ॥ १ ॥

अत्रोदाहरणं मन्दार्थमुच्यते । मघानक्षत्रजन्मवतः स्वजन्मर्क्षसङ्ख्यादशान्म- ता जाता(१०)इयं नगो निता तदा त्रिभिता जाता(३)अत्रेयं शून्यमितेनेतवर्षेण युता यथास्थितैव (३) अत इयं नवभक्ता शेषं(३)त्रिभितां स्यात्तेनोक्तप्रहकना प्रथमवर्षेशः धेतुः स्यात् । एवमन्यदपि बोध्यम् ।

अत्रोपपत्तिः । पुष्यादिनक्षत्रवशादुक्तखेटा अन्देशा विहितास्तेनादिवनीभा- जन्मर्क्षसङ्ख्या या सा यदि नगोना तदा पुष्यनक्षत्रजन्मभं यावत्सङ्ख्या स्यात् परन्वानया सङ्ख्या समो विहितखेटानां मध्ये यो ग्रहः स एव प्रथमवर्षेशो जातः । तत एकैकमतान्दोषचयाजन्मकालिकात्प्रादेशात्प्रत्येकग्रहो वर्षेशो भवेत् । अतः पूर्वाङ्गीता सङ्ख्या यदि गतान्देः सहिता तदाऽर्क्षादिष्टवर्षेशं याव- खेटसङ्ख्याः स्युः परस्य नवाधिकानां खेटानां प्रयोजनाभावात्ता यदि नवभक्ता- स्तदा फलं नवानामेकद्वयादिपरिवर्तः स्यात् । ततोऽवशेषसमोविहितखेटानां मध्ये निजेष्टवर्षेशो जातः । तेनोपवर्षं सर्वम् ॥ १ ॥

## अथैषां दशाफलानि-

रविवर्षे भवेद्दुःखं कुजवर्षे तथैव च ।  
 केतोर्दशायां कृशता सुखं चन्द्रे बुधे तथा ॥ ५५ ॥  
 गुरुमार्गवयोराज्यं महाफ्लेशः शनैश्चरे ।  
 राहौ तथैव विज्ञेयं गदितं मिहिरादिभिः ॥ ५६ ॥

सुगमम् ॥ ५५।५६ ॥

भा० टी०—सूर्य के वर्ष में दुःख एवं मंगल के वर्ष में भी दुःख केटु के दशा में दुर्बलता चन्द्रमा और बुध के वर्ष में सुख, गुरु और शुक के वर्ष में राज्य एवं शनि और राहु के वर्ष में अत्यन्त क्लेश होता है ऐसा बराह-मिहिरादि प्राचीनाचार्यों से कहा गया है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

इति गुरु कुंडली प्रकरणम् ।

अथ वर्षेशानां फलपाक ऋगमाह—

वर्षप्रवेशोदपताक्यधीशास्तेषां तु मध्ये यलवान् भवेद्यः ।  
 एकोपि वा द्विप्रगतो यदि स्यात्तस्यैव वर्षे प्रविभाषनीयम् ॥५७॥

वर्षप्रवेशोदपताक्यधीशा ये सन्ति तेषां मध्ये यः खेटः स्वदुःखादिस्थानव-  
 शाद्वलवान् । अपिबैकः किन्तु कथितानां मध्ये चैक खेटो द्विप्रगतो यदि स्याद-  
 र्थाद्द्विनिस्थानाधीश समागतस्तदा स च यद्यबलीय तदा तस्यैव प्रदस्य वर्षे  
 स्वेष्टवर्षेप्रविभाषनीयमर्थादाद्या दशा कल्पनीया । अत्रायं भावः । निजेष्टवर्षे यः  
 पूर्वप्रदक्षित इन्निघट्टेशो वर्षप्रवेशोवाह्यः । तथा केटुपताक्यधीशः । केटुपुण्डली  
 जोवर्षः । तथा शुक्रपुण्डलीजो वर्षेशः । एतेषां वर्षेशानां मध्ये यो यली त-  
 स्यादी “रवौ भराः” इत्यादि रूपा दशा लेख्याः । तत्रापि निजेष्टवर्षे कथित-  
 पताक्यधीशानां ज्ञानं कृत्वा तेषां प्रयाणां वर्षेशानां मध्ये स्वर्गादिस्थानरीत्या

यो बलवान् स एवात्र प्रथमचतुर्मासेषु स्वफलद । ततस्तन्मूलबलो प्रहो चतुर्मासादनन्तरं मासचतुष्कं यावत्स्वफलद । ततो मध्यफलदातुरपेक्षयायो निर्बलस चाष्टममासादनन्तरं मासचतुष्कं यावन्नजफलद स्यात् । यद्वा चात्रैकोपि प्रहोयदि प्रकारद्वयेन वा प्रकारत्रयेण वर्षेण समागतस्तदाऽऽदौ तस्य निर्बलत्वेपि स्वफलं कथनोपम् ॥ ५७ ॥

भा० टी०—प्रत्येकार ने चार प्रकार से ( प्रथम जन्मलग्न समारम्भ इत्यादि से द्वितीय केतु पताकी चक्र से तृतीय केतु कुण्डली चक्र से एव चतुर्थ गुरु कुण्डली से ) वर्षेशों से ध्यानयन किया है । इस प्रकार से प्राप्त प्रहों में से अधिक बलवान् प्रह की पहले दशा ' रबी नखा स्यु राशरा शशाङ्गे ' के क्रम से लिखना चाहिये । उस में भी केतु पताकी केतु कुण्डली, गुरु कुण्डली से प्राप्त वर्षेशो में से अधिक बलवान् प्रह वर्ष के प्रथम चार महीनों में स्वकीय फल देगा । एव मध्य बलवान् प्रह द्वितीय चार महीनों में स्वकीय फल तथा उनमें अल्प बली प्रह वर्षके अन्तके चार महीनों में स्वकीय फल देगा । अथवा इन तीनों प्रकार से एक ही प्रह यदि वर्षेश होगा तो वह सम्पूर्ण वर्ष अपना विशय फल देगा अथवा दो प्रकार से एक तथा अन्य प्रकार से अन्य प्रह वर्षेश होगा तो प्रकार दो से आया हुआ प्रह वर्षके प्रथम आठ महीनों स्वकीय फल देगा । तथा द्वितीय प्रह वर्ष के अन्त के चार महीनों में स्वकीय फल देगा विशेषता यह है कि प्रकार त्रय से अथवा दो से आगत प्रह चाहे सबल हो या दुर्बल हो वही प्रथम स्वकीय शुभाशुभ फल देना वाला होगा ॥ ५७ ॥

अथ प्रकारत्रये वर्षेशे पापरूपे विशेषमाह—

पातकी कुण्डली केतो कुण्डली च बृहस्पते ।

सर्वत्र पापसयोगे सशयो जायते महान् ॥ ५८ ॥

स० टी०—केतो पताकी तथा तस्य कुण्डली । तथा च बृहस्पते कुण्डली चेति त्रय यदस्ति सर्वत्र चक्रत्रयेपि पापसयोगे पापप्रहो वर्षाधीशे सति महान् सशयो महदरिष्ट जायते प्राप्नोति । अत्रैदवषधेयम् । तत्र प्रथम केतुपताकी

## अथ पञ्चस्वराभिधमाह ।

उदितं भ्रमितं भ्रान्तं सन्ध्याऽस्तं तदनन्तरम् ।

जन्म कर्म तथाऽऽधानं पिण्डं छिद्रं ततः परम् ॥ ५९ ॥

पञ्च बालादिकाद्यस्या नामाद्यक्षरतस्तथा ॥

आद्यो बालः कुमारश्च युवा वृद्धो मृतोपि वा ॥ ६० ॥\*

अथ पूर्वरोत्या प्रातस्य संशयस्य निर्णयाय पञ्चस्वरप्रकारः कथ्यन्ते तत्रादौ वर्णस्वरवगमाय स्वरचक्रमुच्यते । परस्य प्रत्यकारेण तत्प्रकारस्तु नोक्तः । अतो नरपतिजयचर्यासमाख्यप्रन्यानुसारेण तदुच्यते । तद्यथा । तत्र अ इ उ ए ओ एते पञ्चस्वराः सन्ति । अत्र षोडशस्वरमध्ये पञ्चस्वरा एव मुख्यास्तथा दीर्घस्वरस्य यत्फलं तदेव ह्रस्वस्वरस्य फलं यथा आ अ । इत्यादिकमस्य कारणं मनुकजातकक्रोडाभिधे मध्ये द्रष्टव्यम् । पूर्वापररूपाः षड्रेखास्तथा याम्योतररूपाः षोडशरेखा विधेयाः । एवं कृते पञ्चसप्ततिमिताः कोष्ठका भवेयुः । तेषां मध्ये चोर्ध्वगतेषु पञ्चकोष्ठेषु तिर्यक्पञ्च क्रमेण अ इ उ ए ओ एते पञ्चस्वराः स्थाप्याः । तेषामध्यस्तत्कामादेव त्रिंशत्कोष्ठकेषु कादिहान्तान् ष य षोडशितान् वर्णान् लिखेत् । तदुक्तं नरपतिजयचर्यायाम् ।

\* अथ षोडश स्वर मध्ये पञ्चस्वरा एव मुख्यतमा मनुक नरपतिजयचर्यां समाल्य मन्थे—

मानिक्ययां पुरा प्रोक्ताः स्वराः षोडश संख्यया ।

तेषां द्वावन्तिमौ त्वाज्यौ चत्वारश्च नर्पुंसकाः ॥ १ ॥

शेषा दश स्वरास्तेषु त्यादेकैको द्विके द्विके ॥

शेषा अतः स्वराणास्ते स्वराः पञ्च स्वरोदये ॥ २ ॥

अर्थात् पुरा सृष्ट्यादी ऋषेण अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ए ऐ ओ औ अं अः एतेषां षोडश संख्या मध्ये अं अः इति त्वाज्यौ षु चत्वारो नर्पुंसकाः ऋ ॠ ऌ ॡ इति शेषा दश स्वराः त्रिंशदाः ते च अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ एते ये शेष दश स्वरास्तेषु द्वि द्विकेषु एकैकमेव गृह्णीयात् ते च अ इ उ ए ओ एते पञ्चस्वराः सन्तिः ।

“सर्वद्वारं बली वर्णः सर्वव्यापी न संशयः ।  
 तस्मात्सर्वप्रयत्नेन वर्णं वीक्ष्य बलाबलम् ॥ १ ॥  
 कादिद्वान्तान् लिखेद्वर्णान् स्वराधो ङ न गोञ्जितान् ।  
 तिर्यक् पठन्निम्नेणैव पठन्निशत्प्रकोष्ठके ॥ २ ॥  
 न श्रोत्रा ङ न णा वर्णा नामादी सन्ति ते नहि ।  
 चेद्भवन्ति तदा श्रेया राजडास्ते यथा क्रमम् ॥ ३ ॥  
 यदि नाग्नि भवेद्वर्णः संयोगाक्षरलक्षणः ।  
 ग्राह्यस्तत्रादिमो वर्ण इत्युक्तं ब्रह्मयामले ॥ ४ ॥  
 प्रसुप्तो भाषतो येन येनागच्छति शब्दितः ।  
 तत्र नामाद्यवर्णे या मात्रा मात्रास्वरः स हि ॥ ५ ॥  
 नरनामादिमो वर्णो यस्मात्स्वरादध स्थितः ।  
 स स्वरस्तस्य वर्णस्य वर्णस्वर इहोच्यते ॥ ६ ॥

अथ प्रस्तुतमुच्यते । अत्र यस्य यज्जन्मर्शं तद्गशाच्छतपदचक्रानुसारेण  
 या नामादिमवर्णस्तस्योपरि विहितचक्रे य स्वरः समागतः स एवात्र तस्य वर्ण-  
 स्वरः स्यादयमेव ज्योतिर्विंशं सम्प्रादयो निर्भरः । अत्राप्ययदीक्षितेनेदं गौडमत्तं  
 कैधिरस्वीकृतमिति । तन्नसमीचीनं यतः सर्वेषामिदमेव मतमिति मुख्यं मतं  
 ममापि सम्मतम् । यस्य पुरुषस्य यो वर्णस्वरस्तस्य स्वरस्योदितसंज्ञा । तस्माद्-  
 द्वितीयस्य स्वरस्य भ्रमितं तृतीयस्य भ्रान्तं चतुर्थस्य सन्ध्या पञ्चमस्यास्तमिति  
 संज्ञा । पुनरेतेषां संज्ञान्तरमाह । उदितस्वरस्य जन्म । भ्रमितस्वरस्य कर्म तथा  
 भ्रान्तस्वरस्याधानम् । सन्ध्यास्वरस्य पिण्डः । अस्तस्वरस्य छिन्नमितिसंज्ञा ।  
 पुनः संज्ञान्तरमाह । नामाद्यक्षरतः पञ्च बालादिकावस्थाः स्युः । तत्राद्य स्वरो  
 घातः । ततो द्वितीयः पुमारः । त्रितीयो युवा । चतुर्थो वृद्धः । पञ्चमो मृत  
 इति ॥ ५९ ॥ ६० ॥

भा० टी०—आचार्य ने वर्ण स्वर के क्रम से उदित भ्रमित तथा भ्रान्त  
 स्वरादिसंज्ञा भी कल्पना की है । परञ्च कीन सा पञ्चस्वर है तथा नामादि अक्षर  
 से किस प्रकार ये संज्ञाये कल्पना की जायेंगी इसको नहीं कहा है अतएव

इसके ज्ञानके लिये इस श्लोक के संस्कृत टीका में लिखित वर्णस्वर ज्ञानको देखिये । एवं वर्णस्वर चक्रमें जन्म नक्षत्र के \* वस जो नामादि वर्ण हो उसका जो ( अ ई उ ए ओ ) इन पाँचों स्वरमें से जो स्वर हो वह उसका उदित स्वर हुआ । उदित स्वर से दूसरे की भ्रमित संज्ञा तीसरे की भ्रान्त, चौथे की सन्ध्या पंचम की अस्त संज्ञा होती है । एवं उदितादि पाँचों स्वर की क्रमसे जन्म, फर्म, आधान, पिड तथा छिद्र संज्ञा होती है । एवं जन्मर्श वश नामाक्षर के वश वर्णस्वर में बलादि अवस्था होती है । यथा प्रथम बलावस्था द्वितीय कुमारावस्था, तृतीय युवावस्था, चतुर्थ वृद्धावस्था पंचम मृतावस्था होती है ॥ ६० ॥

• इस ग्रन्थ में मुख्य आनुदाय का विचार करना है अतएव यहाँ जन्म नक्षत्र के अनुसार स्वरों का विचार किया जाता है । अन्यथा यात्रा शुद्ध विवाहादि तथा दान देवाचन विवाहादि शुभाशुभ कार्यों के विचार में व्यवहार नाम से ही स्वरों का विचार करना चाहिये । क्योंकि नरपतिनवचर्यादि ग्रन्थों में व्यवहार नाम से ही स्वरों का विचार किया गया है यथा नरपति जयचर्यायाम्—

प्रसुप्ते भापते येन येनागच्छति शब्दितः ॥

तत्र नामाद्य वर्णे या यात्रा मात्रास्वरः स हि ॥ १ ॥

तथा जिसके व्यवहार नाम बनेक हों उनके लिये किम नाम से विचार होगा । इसका निर्णय निम्न लिखित श्लोक से स्पष्ट है ।

ग्रन्थान्तरे—

बहूनि यदस्य नामानि नरस्य स्युः कथंचन ॥

ततः पश्चाद्भव नाम प्रादां त्वपविशारदः ॥ १ ॥

इससे भी स्पष्ट सिद्ध है कि केवल आनुदाय को छोड़ कर अन्य सभी व्यवहारों के लिये व्यवहार नाम ही ग्रहण करना चाहिये ॥

संज्ञान्तर सहित वर्णस्वर चक्रम् ।

अ	इ	उ	ए	ओ	पञ्चस्वराः
क	ख	ग	घ	च	वर्णाः
छ	ज	झ	ट	ठ	„
ड	ढ	त	थ	द	„
ध	न	प	फ		„
म	म	य	र	ल	„
ष	श	ष	स	ह	„
उदितं	भ्रमितं	भ्रान्त	सन्ध्या	अस्तं	संज्ञा
जन्म	कर्म	आधान	पिण्डम्	छिद्रम्	संज्ञान्तरम्
याल	कुमार	युवा	वृद्ध	मृत	संज्ञान्तरं च

अथ कथितस्वराणां फलमाह—

उदिते विजयो नित्यं भ्रमिते लाभ एव च ।

भ्रान्ते च सिद्धिमाप्नोति सन्ध्यास्ते मरणं ध्रुवम् ॥ ६१ ॥

सं०टी०—अथ कथितस्वराणां साधारणरूपेण फलं प्रदर्शितम् । तत्रोदिते स्वरे सर्वकार्येषु नित्यं विजयः । तथा भ्रमिते भ्रमिताभिधे स्वरे लाभः । भ्रान्ते सर्वं सिद्धिं प्राप्नोति । सन्ध्यास्ते सन्ध्यासंज्ञके तथास्वाभिधे च ध्रुवं निश्चितं मरणमिति । अथ प्रयान्तरे विशेषफलमुक्तम् ।

“वर्षं मासो दिन चैव तिथिनक्षत्रवातराः ।

सन्ध्यास्ते च यदा वर्षं तदा स्यादशुभं महत् ॥ १ ॥

हानिर्दुःखं महाकलेशो धननाशश्च जायते ।

मरणं घातपातादि तद्दिने जायते ध्रुवम् ॥ २ ॥

तस्मिन् दिने च या रोगो जायते पुद्गलस्य दि ।

अथाध्यः स भवेद्रोगो मृत्योरादिदायकः ॥ ३ ॥

भा० टी०—उदित स्वर में कार्य करने से विजय, भ्रमिन् स्वर में लान, भ्रान्त स्वर में शिद्धि और सन्ध्या तथा अस्त स्वर में निश्चित मरण होता है ॥ ६१ ॥

अथ दशास्वरमाह—

यत्र नामाक्षरं प्रातं तत्र चोदितः स्वरः ।  
तस्माद्धर्षं विजानीयाद्द्वर्षान्मासो भवेत्पुनः ॥ ६२ ॥  
मासद्वयं विघातव्यं दिनं च द्वादशोत्तरम् ।  
एव क्रमेण चोद्यन्ते वर्षभागस्तु पञ्चधा ॥ ६३ ॥  
कार्तिकस्य परे भागे नव प्राद्या यथा तथा ।  
मार्गशैषो तथा देव्यं माघस्य च दिनत्रयम् ॥ ६४ ॥

स० टी०—यत्र नामाक्षरं प्रातं भवेत्तत्रैवोदितः स्वरः स्यात् । तस्मादुदितस्वराद्धर्षं वर्षाद्यम् विजानीयात् । पुनस्तस्माद्धर्षान्मासो भवेत् । अनेन वर्षादिकागमः सूचितः ॥ ६२ ॥

अथ फलं मासो भवेत्तदेव दर्शयति । द्वादशोत्तरं दिनं द्वादशदिनाधिकं मासद्वयं चोदितस्वरे विघातव्यं ज्ञातव्यम् । एवं क्रमेण भ्रमितादिस्वरेषु पञ्चधा वर्षभागो चोद्यन्तेः किन्तु पञ्चमासात्मकं वर्षं भवतीति विभाव्यम् ॥ ६३ ॥

स० टी०—तदेव स्पष्टयति । कार्तिकस्य परे भागे चान्तिमासे नव वासरा प्राद्याः तथा मार्गशैषौ सम्पूर्णां प्रणी । ततो माघस्य दिनत्रयं माघमासाद्यभागस्य त्रीणि दिवानीति क्रमेण यथा वर्षं पूर्णं भवेत्तथा पञ्चस्वरेषु देव्यं स्थाप्यम् । अत्रेदमवधेयम् । कार्तिकशुक्लपञ्चमस्यान्तिमनवदिनानि तथा मार्गस्यत्रिंशद्दिनानि

• अथाचार्योक्त कार्तिकादिमास कल्पना कार्तिक शुक्ल जन्मवतः समीचीनात्प्रायः । अन्येषां जन्मदिनादेव वर्षं प्रयोगो फलार्थे गणिते प्रकल्प्यः ।



पौषस्य च त्रिंशद्दिनानि । तथा माघस्य त्रीणि दिनानि चैतेषां दिनानां योगमितानि द्विसप्ततिदिनानि अकारस्वराद्ये स्थाप्यानि । एव माघस्य सप्तविंशतिदिनानि फाल्गुनस्य त्रिंशद्दिनानि चैत्रस्य पञ्चदशदिनानि चैतेषां योगमितानि द्विसप्ततिदिनानीकाराद्ये स्थानि । एव चैत्रस्यावशिष्टानि पञ्चदशदिनानि वैशाखस्य त्रिंशद्दिनानि तथा ज्येष्ठस्य सप्तविंशतिदिनानि चैतेषां योगसमन्वयकारस्य स्वरस्याद्ये स्थानि । एव ज्येष्ठस्य त्रीणि दिनानि तथाऽऽषाढस्य त्रिंशद्दिनानि श्रावणस्य च त्रिंशद्दिनानि भाद्रपदस्य नवदिनानि चैषां योगमितानि द्विसप्ततिदिनानि चैकारस्वराद्ये स्थानि । एव भाद्रपदैवत्रिंशत्तिदिनानि तथाऽऽश्विनस्य त्रिंशद्दिनानि कार्तिकस्यैकविंशत्तिदिनानि शोकारस्वराद्ये स्थानि स्थाप्यानि । एव क्रमेण पञ्चमासात्मकं वर्षं बोधयम् । अत्राकारादिस्वराणामुपलक्षणम् । किञ्च यस्य यो वर्षस्वर उदितादिकत्तदारभ्य वर्षविभागो विभाव्य । तथा कार्तिकादीत्युपलक्षणम् । तेन स्वस्वजन्मदिनादेव वर्षविभागो बोध्यः ॥ ६४ ॥

भा० टी० - वर्षे हर में जिस स्वर के नीचे नाम का अक्षर प्राप्त हो वही उदित स्वर होता है । उसी उदित स्वर से वर्षारम्भ होता है एवं वहीं से वर्ष का पांच भाग कर पांच मास को अर्थात् उदित अमित भ्रान्त सन्ध्या अस्त सशुक्र पञ्च मास की कल्पना आचार्य ने की है ॥ ६२ ॥

एव एक भाग द्वादशोत्तर दिन मास द्वय अर्थात् बहस्तर २ दिन के क्रम से वर्ष का पाँच भाग कर के उदितादि पाँचो स्वर होते हैं एवं पाँच कल्पित मास होने हैं ॥ ६३ ॥

ग्रन्थकार पूर्व में "कार्तिकान्त नवद्वानि" इत्यादि से वर्षारम्भ निर्धारित किये हैं अतएव यहाँ भी "वर्षभागस्तु पञ्चधा" कहकर उसी आधार पर इस को स्पष्ट करते हैं यथा कार्तिक के शुक्ल पक्ष के अन्तिम या नव दिन और मार्गशीर्ष पौष सम्पूर्ण तथा माघ के तीन दिन को अर्थात् इन ७२ दिन को अ स्वर के नीचे स्थापित करे, तथा माघ के शेष २७ दिन फाल्गुण के ३० दिन चैत्र के १५ दिन एव इन ७२ दिनों को इ स्वर के नीचे, चैत्र के शेष

१५ दिन वैशाख के ३० दिन ज्येष्ठ के २७ दिन (सर्वयोग ७२ दिन) को ष स्वर के नीचे, ज्येष्ठ के शेष ३ दिन आषाढ के ३० दिन श्रावण के ३० दिन और भाद्रपद के नव दिन (सर्वयोग ७२ दिन) को ए स्वर के नीचे तथा मादो के २१ दिन कार के ३० दिन और कार्तिक २१ दिन को (सर्वयोग ७२ दिन) को ओ स्वर के नीचे स्थापित करे। इसी प्रकार से पाँच मास हुए। यहाँ पर अकारादिस्वर उपलक्षणमात्र हैं वस्तुतः वर्ष स्वर से जितना जो उदित स्वर हो उसी से वर्षभाग की कल्पना करनी चाहिये ॥ ६४ ॥

### मासात्मक दशास्वरचक्रम् ।

अ	इ	उ	ए	ओ	पञ्चस्वराः
का. १	मा. २७	ज्ये. १५	ज्ये. ३	भा. २७	मासदिन सहस्रया
मा.शी. ३०	का. ३०	ज्ये. ३०	आ. ३०	आशि. ३०	"
पौ. ३०	ज्ये. १५	ज्ये. २७	श्रा ३०	का. २१	"
मा. ३	०	०	भा. १	०	"
७२ दि.	७२	७२	७२	७२	सम्पूर्ण दिनसहस्रया

एवं स्वस्व जन्म दिवस से ७२ बहतर बहतर दिन का एक २ मास कल्पना करके पाच मास २ एक वर्ष में होते हैं तथा ये ही मास क्रम से उदितस्वरादि स्वरों के दशमान होते हैं ।

### मदीयसूत्रम् ।

वर्षप्रमाणं च शरैर्विभक्तं लब्धैर्दिनैर्जन्मदिनात्प्रकल्प्यः ।

वर्षप्रमाणोऽत्र जनेःस्वराहैः क्रमादथ स्थो गणकैः फलार्थम् ॥ ६५ ॥

सं० टी०—वर्षप्रमाणं खरसाग्निमितं शरैः पद्यभिर्भक्त लब्धेदिनेद्विसप्तति-  
मितैर्जन्मदिनादारभ्य जनेः स्वरात्क्रमज्जन्मरूपादर्यादुदितादिस्वरक्रमादघः  
स्थोवर्षप्रभागो गणकैः फलार्थं प्रकल्प्य ।

अत्रोपपत्तिः । अत्र “त्रिंशद्दिनः सावनमास एव” इत्यागमप्रमाणान्मास-  
विभागकल्पनावशात्स्वजन्मदिनमारभ्य त्रिंशद्दिनात्मक एकैको मासो वर्षमध्ये  
भवेत् । अत एव द्वादशमासानां योगसमं दिनात्मकं वर्षमानं खरसाग्निमितं  
जातम् ( ३६० ) परघात फलार्थमेकस्मिन् वर्षे यथा पद्यस्वराणां स्वस्वोदिता-  
भिधानां तुल्यमेव भोगमानं भवेत्तथा वर्षविभागः कल्पनीयः । ततोऽनुपातः ।  
यदि पद्यप्रमितैः स्वरैः स्वस्वभोगजयोगमानं खरसाग्निमितं लभ्यते तदैकेन  
स्वरेण किमिति । फलं स्वस्वस्वरभोगमानमिति जातं  $(\frac{३६० \times १}{५}) = (७२)$  ।

अथ जन्मदिनमारभ्य पूर्वोक्तमासलक्षणेन कार्तिकादिको मासो बोधव्यः ।  
अथ प्राचीनोक्तकार्तिकादिमासकल्पना कार्तिकशुक्लसप्तमीजन्मवतः समीचीना  
स्यात् । तदन्यथा तु महुकमेव विभाव्यम् । अत उपन्नं सर्वम् ।

अथ तिथ्यादि स्थापनमाह—

एवं क्रमेण दातव्यो घर्षं पूर्णं यथा भवेत् ।

तिथिः प्रतिपदादिश्च कुजादिघोरनिर्णयः ॥ ६५ ॥ १

नन्दा भद्रा जयारिक्ता पूर्णाश्चापि यथा क्रमम् ।

क्रमेणाहुः प्रदातव्या प्राह्मश्चाहुसमुच्चयः ॥ ६६ ॥

चन्द्राष्टौ\*(८१) प्रथमे देया नग नागा (८७) द्वितीयके ।

\* यथा शुक्ल पक्ष में प्रतिपद की संख्या १ वृष्टि की ६ और एकादशी की ११  
एवं कृष्ण पक्ष में प्रतिपद की संख्या ११ वृष्टि की २१ एकादशी २६ अतः समी का  
योग=१ + ६ + ११ + १६ + २१ + २६=८१ अ स्वर के नीचे । एवं अष्टौ

तृतीये चाग्निनवकं (९३) चतुर्थे च नवग्रहाः (९९) ॥६७॥

पञ्चोत्तरशतं (१०५) देयं पञ्चमे पञ्चसुकमात् ।

अकारादि स्वरेष्वेवं तिथ्यङ्काञ्च प्रदापयेत् ॥ ६८ ॥

सं० टी०—एवं क्रमेणाकारादिस्वरवशाद्यथा वर्णपूर्णं वर्णसमाप्तं भवेत्तथा प्रतिपदादिः शुक्लप्रतिपदादिस्तिथिस्तथा कुजादिर्वारनिर्णयश्च दातव्यः । अनेन तिथिस्थापनं प्रदर्शितं ॥ ६५ ॥

नदाभद्राजयारिकपूर्णा इति तिथ्योपि यथाक्रमं देयाः । तथा क्रमेणाङ्का प्रदातव्याः पश्चात्तद्द्वयमुच्चयो ग्राह्यः । अनेन गणितोपगुणास्तिथ्यङ्का प्रदर्शिताः ॥ ६६ ॥

तदेव स्पष्टयति प्रथमे अकारस्वरे चन्द्राष्टौ रूपाधिधाशोतिमिताः । तथा द्वितीयके इकास्वरे नगनागाः सप्ताशोतिमिताः । तृतीये उकारस्वरेचाग्निनवकं त्रिनवतिमिताः । चतुर्थे चैकास्वरे नव ग्रहा एकोनशतमिताः ॥ ६७ ॥

संशक तिथियो का योग २ + ७ + १२ + १७ + २२ + २७ = ८७ = ६ स्वरके नीचे । एवं जदा सं० ति० यो० = ३ + ८ + १२ + १८ + २३ + २८ = ९३ उ स्वर के नीचे । रिक्त तिथियों का योग = ४ + ९ + १४ + १९ + २४ + २९ ए स्वर के नीचे । पूर्ण तिथियों का योग ५ + १० + १५ + २० + २५ + ३० = १०५ को स्वर के नीचे । इसी प्रकार कुजादि वार का निर्णयः—अ स्वर के नीचे भौमवार तथा बुधवार २४ घटी । इ स्वर के नीचे बुध की शेष ३६ घ० तथा शुक्रवार की ४८ घटी । उ स्वर के नीचे शुकवार को १२ शुक्रवार की ६० शनिवार की १२ घ० । ए स्वर के नीचे शनिवार की ४८ रविवार ३६ घटी । ओ स्वर के नीचे रविवार की शेष २४ घटी और चन्द्रवार की ६० घटी एवं एक एक स्वर के नीचे ८४ घटी विभाग है । अर्थात् सातवार की घटी ६० × ७ = ४२० इस लिये पांच से भाग दे दिया =  $\frac{४२०}{५} = ८४$  एक स्वर का मान हुआ ।

स० टी०—पद्यमे ओकारस्वरे पद्योत्तरशत शरखेन्दुमिता .। इति  
क्रमेण देयं स्याप्यम् । एवमकारादिस्वरेषु पद्यसु तिध्यङ्गान् प्रदापयेद्दद्याद्गणक  
इति शेष ॥ ६८ ॥

अग्नेदमवधेयम् । अकारस्वरे तदध स्थकोष्ठे नन्दातिथिस्तथा शुक्रकृष्णप  
क्षयोर्बशात्सङ्घाद्य देया । तद्यथा शुक्लपक्षे प्रतिपद एकसङ्घा । पट्टीतिथे  
षट्सङ्घा । एकादशीतिथेरेकादश । एष कृष्णपक्षे प्रतिपत्तिथे षोडशमिताङ्घ ।  
तथा पट्टीतिथेरेकविंशतिमिताङ्घ । तथैकादशीतिथे षड्विंशतिमिताङ्घ । एतेषा-  
मंकानां १।६।११।१६।२१।२६। योगेनेन्दुनागमितेन समोऽङ्घसमुच्चय ( ८१ )  
अकारस्वराधस्थ । एव पक्षद्वयस्य भद्रातिथिप्रज्ञानामङ्गानामेषां २।७।१२।  
१७।२२ २७। योगेन नगनागमितेन समोऽङ्घसमुच्चय ( ८७ ) इकारधस्थ ।  
एव पक्षद्वयस्य जया तिथिप्रभवानामङ्गानां ३।८।१३।१८।२३।२८। योगोऽय  
( ९३ ) उकारस्वराधस्थथाकसमुच्चयो जात । एष पक्षद्वयस्य रिक्तातिथि  
जानामङ्गानां ४।९।१४।१९।२४।२९ योगोऽय ( ९९ ) एकाराधस्थोऽङ्घसमुच्चयो  
जात । एवं पक्षद्वयस्य पूर्णातिथिप्रज्ञानामङ्गानामेषां ५।१०।१५।२०।२५।३०  
योगोऽय ( १०५ ) ओकाराधस्थोऽङ्घसमुच्चयो जात । अथाकारादिस्वरश्चमा  
रकुजादयो वारा स्याप्या । अग्नेय व्यवस्था सम्प्रदायजाता । अस्वरे भोमवारो  
शुभस्य चतुर्विंशतिमिताघटिका । एवमिकारस्वरे शुभस्य षट्त्रिंशदघटिकास्तथा  
गुरोरष्टचत्वारिंशन्मिता घटिका । एवमुच्चारस्वरे गुरोर्द्वादशमिता घटिकास्तथा  
शुक्रस्य षष्टिघटिका शनेश्च द्वादशघटिका । एवमेकारस्वरे शनेरष्टचत्वारिंश  
न्मिता घटिकास्तथाईस्य षट्त्रिंशन्मिता घटिका । एवमोकारस्वरे रवेचतुर्विंश  
तिमिताघटिकास्तथा चन्द्रस्य षष्टि घटिका । एवमैङ्गस्वरे वेदाष्टमिता घटिका  
सु ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ९७ । ६८ ॥

मा० टी०—एवं पूर्वोक्त क्रम से अकारादि स्वरों के नीचे प्रतिपदादि तिथियों को तथा भौमादि धारको देना चाहिये जिस प्रकार वर्ष पूर्ण हो जाय ॥ ६५ ॥

पुनःतिथि दानको निश्चित करते हैं यथा क्रमसे अ स्वर के नीचे नन्दा, इ स्वर के नीचे भद्रा, उ स्वर के नीचे जया, ए स्वर के रिक्ता, ओ स्वर के नीचे पूर्णा तिथि देकर क्रमसे तिथि के अङ्को का योग करना चाहिये ॥६६॥

अथ योग करके अङ्को को पठित कर देते हैं कि अ स्वरके ८१ इ स्वरके नीचे ८७ उ स्वर के नीचे ९३ ए स्वर के नीचे ९९ ओ स्वर के नीचे १०५ ये तिथ्यङ्क दिये गये हैं इन अङ्कों को तथा कुजादिवार निर्णय को टिप्पणी में स्पष्ट कर दिया है ॥ ६८ ॥

### तिथ्यादि स्वर चक्रम् ।

अ	इ	उ	ए	ओ	पञ्चस्व.
१।६।११	२।७।१२	३।८।१३	४।९।१४	५।१०।१५	शु.ति.
१६।२१।२६	१७।२२।२७	१८।२३।२८	१९।२४।२९	२०।२५।३०	कृ.ति. नन्दा.
	भद्रा	जया	रिक्ता	पूर्णा	
८१	८७	९३	९९	१०५	ति.यो.
मं. ६०	शु. ३६	घृ. १२	वा. ४८	र. २४	कुजादि
शु. २४	घृ. ४८	शु. ६०	र. ३६	घं. ६०	धारनि
८४ घ.	८४ घ.	श. १२ ८४घ	८४घ.	८४ घ.	र्णयः

अथ पूर्व कल्पित द्वि सप्तति दिनात्मके मासेऽन्तरभोगमाह—

यथा वर्षान्मासभाग. कृतश्च स्वर पञ्चके ।

तथा मासाहिनभागस्त्वस्वरात्स्वरपञ्चके ॥ ६९ ॥

चतुर्विंशतिदण्डाश्च चतुर्दशदिनानिच ।

उद्दितादि विभागर्त्त फलं धार्यं यथा तथा ॥ ७० ॥

यथा येन विधिना पूर्वमकारादिस्वरपद्यके वर्षात्स्वरसाग्निप्रमाणान्मासभागो-  
द्विसप्ततिदिनात्मकः कृतः स्थापितः । तथा तेन प्रकारेण मासाद्विद्वसप्ततिदिनमा-  
नाद्दिनभाग विन्वकारादिस्वराणां स्वस्वभोगमानेष्वप्यस्वरात्स्वरपद्यके अकार-  
स्वरमारभ्य पद्यसु स्वरेषु दिनादिकभोगकालो विधेयः ॥ ६९ ॥ .

\* तदेव स्पष्टयति । उदितादिविभागेन विहितोदितादिस्वरक्रमेण चतुर्विंशति  
दण्डास्तथा चतुर्दशदिनानि कल्पयति । ततो यथा तथा फलं वाच्यम् । अत्रेदम-  
वधेयम् । पूर्वमुदितस्वरस्य द्विसप्ततिभोगकालमानं यदस्ति तन्मध्ये तत्पद्यमांश-  
सममुदितस्वरस्य भोगमानम् । ततो भ्रमितस्वरस्य तत्समम् । ततो भ्रान्तस्वरस्य  
तरसमम् । ततो सन्ध्यास्वरस्य तत्समम् । ततोस्तस्वरस्य तत्समम् । ततो द्विती-  
यस्वरेभ्रमिताख्ये प्रथमं भ्रमितस्य ततो भ्रान्तस्य ततः सन्ध्यास्वरस्य ततोऽस्त-  
स्वरस्य । एवमन्यस्वरेषु दिनविभागादिकमन्तर्दशमानं कल्पनीयम् ॥ ७० ॥

अत्रोपपत्तिः । पूर्वमुदितस्वराणां यद्भोगमानं द्विसप्ततिदिनात्मकं साधनरूपं  
विहितम् । तत्र यदि फलकयनार्थमेकैकस्वरभोगे पद्यस्वराणां भोगमानं कर्त्तुमिष्टं  
तदर्थमनुपातः । यदि पद्यस्वरे स्वस्वभोगमानानामन्तर्दशरूपाणां योगसमं द्विस-  
प्ततिमितं वर्षमानं लभ्यते तदैवेन स्वरेण किमिति । फलं तस्य भोगमानं समानं  
यत्तदेवान्तर्दशमानं स्यादिति रूपं  $\frac{७२}{५} = १४।२४।$  अत उपनक्ष सर्वम् ।

भा० टी०—पूर्व में जैसे वर्ष से ७२ दिन के क्रम से पांच मासों की  
कल्पना की है अब उन्हीं अ स्वरदि मासों में दिनात्मक भाग की कल्पना  
करते हैं । जो कि एक भाग १४ दिन २४ घटी का होता है यह अनुपात द्वारा  
के आये हैं जैसे ५ स्वर का भोग काल यदि ७२ दिन है तो एक स्वर का

क्या =  $\frac{७२}{५}$  १४ दि० २४ घ० एक का भोगकाल हुआ ।

यह अन्तर्दशा की तरह स्व स्व स्वर से प्रारम्भ होता है जैसे उदित स्वर  
में पहले उदित का तब क्रम से भ्रमित, भ्रान्त, सन्ध्या और अस्त का भोग  
काल जीतता है । एवं भ्रमित में प्रथम भ्रमित का तदनन्तर भ्रान्त, सन्ध्या  
अस्त और उदित का भोग काल होता है । एवं भ्रान्त सन्ध्या और अस्त स्वर  
में भी शत क्रम आवश्यक है ॥ ६९ ॥ ७० ॥

द्विसप्तति दिनात्मके मासेऽन्तरभोग चक्रम् ।

अ	ई	उ	ए	ओ	पञ्चस्वरा
१४	१४	१४	१४	१४	दिनामि
२४	२४	२४	२४	२४	घटी

अथान्तर्दशा फलानि ।

उदितादित्रिकं चेतस्यादन्योन्यं भाग सस्थितम् ।

तदा शुभ विजानोयान् मध्य सन्ध्यादि सस्थितम् ॥ ७१ ॥

अन्योन्यभागसस्थं चेत्सन्ध्यास्तेऽरिभय भवेत् ।

तदा फलेश विजानीयादुदितादित्रिके समम् ॥ ७२ ॥

उदितादित्रिकमर्थादुदितस्वरस्तथा भ्रमितस्वरस्तथा भ्रान्तस्वर इतिस्वरत्रिकं चेत्यदन्योन्यं परस्परं भागसस्थिमर्थादुदितस्वरे कथितत्रिकम् । अथवा भ्रमितस्वरे कथितत्रिकम् । अथवा भ्रान्तस्वरे कथितत्रिकस्यात्तदा शुभं राज्यादिकं विजानीयात् । चेत्युक्तं त्रिकं सन्ध्यादि सस्थितं सन्ध्यास्ते स्वरद्वये स्यात्तदा मध्यं स्यात् ॥ ७२ ॥

सन्ध्यास्ते स्वरद्वये चेत्यदन्योन्यभागसस्थिमर्थासन्ध्यास्वरे सन्ध्यास्तस्वरयोर्मौगकालः । अथपाऽस्तेस्तस्वरे सन्ध्यास्तस्वरयोर्मौगसस्थं तदाऽरिभयं तथा फलेशं महत्कष्टं विजानीयात् । उदितत्रिके चेत्यदि सन्ध्यास्तभोगसस्थं तदासमं मध्यं फलं स्यात् ॥ ७२ ॥

भा० टी०—उदितादि तीनों स्वरों को परस्पर अन्तर दशाओं शुभ फल कारक होती हैं । ( अर्थात् उदित स्वर में उदित भ्रमित और भ्रान्त स्वर को अन्तर दशा तथा भ्रमित स्वर में भ्रमित भ्रान्त तथा उदित स्वर को अन्तर दशा एवं भ्रान्त स्वर में उदित भ्रमित भ्रान्त को अन्तरदशा शुभ फल कारक होती है ) तथा सन्ध्या और अस्त स्वरमें उदितादि तीनों स्वरों को अन्तर्दशाओं मध्यम फल देने वाली होती हैं ॥ ७१ ॥



एव सन्ध्या और अस्त्र स्वरकी परस्पर अन्तर्दशा शत्रुके भय और क्लेश को देती है । तथा उदितादि तीनों स्वर में संध्या और अस्त्र स्वर की अन्तर दशा फल सम होता है ॥ ७२ ॥

अथ नक्षत्रस्वरमाह—

अकारे सप्त ऋक्षाणि रेवत्यादि क्रमेण च ।

'पञ्च पञ्च इकारादावेयमृक्षस्वरोदयः ॥ ७३ ॥

रेवत्यादिक्रमेण रेवतीनक्षत्रमारभ्य सप्त ऋक्षाणि अकारे अकारस्वराधः स्थानि देयानि । ततः पद्य पद्य नक्षत्राणीकारादीं स्थाप्यानि एवमृक्षस्वरोदयो भवेत् ॥ ७३ ॥

भा० टी०—अ स्वर के अध. स्थान में रेवती अ० भ० कृ० रो० मृ० आदीं सात नक्षत्रों को इ स्वर के नीचे पुन० पु० आ० म० पू० फा०, उ स्वर के अध स्थान में उ० फा० इस्त चि० स्वा० वि०, ए स्वर के अधः स्थान में अनु० ज्ये० मू० पू० पा० उ० पा० और ओ स्वर के अध स्थान में श्र० ध० श० पू० भा० उ० भा० इन नक्षत्रों को स्थापित करें ॥ ७३ ॥

### नक्षत्रस्वर चक्रम् ।

अ.	इ.	उ.	ए.	ओ.	पद्यरत्ना
रे.	पुन.	उ.फा.	अनु.	श्र.	नक्षत्राणि
अ	पु.	इ.	ज्ये.	ध.	" "
भ.	भाश्ले.	चि.	मू.	पा	" "
कृ. रो.	म.	स्वा.	पू.पा.	पू.भा	" "
मृ.आ.	पू फा.	वि.	उ. पा.	उ.भा.	" "

अथ राशिस्वरमाह—

अकारे मेघ सिंहालि इक्षीमिथुनकर्कटाः ।

उस्वरे चापमोनौ च एकारेण तुला वृषो ॥ ७४ ॥

ओस्वरे मृग कुम्भौ च राशोशाद्वार निश्चयः ।

स्वराधः स्थापयेत् खेटान् राशे यौयस्य नायकः ॥ ७५ ॥

अकारे मेघसिंहालिः । इकारे तीमिथुनकर्कटा । उस्वरे चापमोनौ । एकारे तुलावृषो ॥ ७४ ॥

ओकारे मृगकुम्भौ । अथ राशोशाद्वारनिर्णयः कार्यः । तदेव स्पष्टवति यस्य राशेर्यो ग्रहः कथितविधिना नायकः स्वामी स्यात् । एवंतान् खेटान् स्वराधः स्थापयेत् ॥ ७५ ॥

मेघ सिंहा वृथिक अ स्वर, कन्या मिथुन कर्क राशि इ स्वर, धन मीन उ स्वर, तुला वृष ए स्वर एवं मकर कुम्भराशि ओ स्वर है । राशीश से बार का नदचय करना चाहिये अर्थात् जिस राशि का जो स्वामी हो उस ग्रह को उस राशि के अधः स्थान में लिखे ( यथा अ स्वर के अधः स्थान में सूर्यवार मंगलवार, इ स्वर स्थान में चन्द्रवार, वृषवार, उ स्वर, में शुक्रवार, ए स्वर में शुभवार और ओ स्वर में शनिवार को स्थापन करे ॥ ७४ ॥ ७५ ॥

राशिस्वर ग्रहस्वर ।

अ	इ	उ	ए	ओ	पञ्चस्वराः
मे.	कन्या	ध.	तु.	मं.	राशिः
सिं.	मिथुन	मी.	वृ.	कु.	..
वृ.	कर्क	०	०	०	..
मं.र.	चं.वृ.	वृ.	शु.	श.	ग्रहाः वारद्वय

अथ सप्तस्वरमाह—

प्रभवाच्चन्द्रमैकैक मुद्दयत्यस्वरादिकः ।

सन्ध्यास्त यत्स्वरं चैतस्यात्पापस्यापि चवत्सरम ॥ ७६ ॥

प्रभवादिकमैकैकमर्द्धं चास्वरादिक उदयतिअर्थादकारस्वरे प्रभवादिकं द्वादशवत्सरम् । तथैवमिकारे प्रमथ्यादिकं द्वादशवत्सरम् । एवमुकारे खरादिकं द्वादशवत्सरम् । एवमेकारेशोभनादिकं द्वादशवत्सरम् । एवमोकारस्वरेराक्षसादिकं द्वादशवत्सरम् । अत्र चेद्यदि सन्ध्यास्तसंवत्सरं स्वात्तथापताश्यादौ पापग्रहस्य वत्सरं स्यात्तदातस्मिन् वर्षेऽग्निर्हानिरसन्तोष स्यात् ॥ ७६ ॥

भा० टी०— प्रभवादि ६० सम्वासरों में क्रम से एक एक सम्बत्सर अकारादि स्वरादि होते हैं । एवं एक एक स्वर में बारह २ संवासर हुए । सन्ध्या और अस्त स्वर वाले सम्बत्सर यदि केतु पताकि आदि चक्रों से जिस वर्ष में पाप ग्रह के वत्सर हो जाय तो उस वर्ष में मृत्यु हानि आदि होता है ॥७६॥

संवत्सर चक्रम् ।

अ.	इ.	उ.	ए	आ	पञ्चस्वराः
१ प्रभव	२ विभव	३ शुक्र	४ प्रमोद	५ प्रजापति	सम्बत्सरनाम
६ अगिरा	७ धीमुख	८ भाव	९ युवा	१० घाता	"
११ ईश्वर	१२ बहुधान्य	१३ प्रमाथी	१४ विक्रम	१५ वृष	"
१६ चित्रभात	१७ शुभानु	१८ तारण	१९ पाथिव	२० व्यय	"
२१ सर्वजित	२२ सर्वधारी	२३ विरोधी	२४ विकृति	२५ स्वर	"
२६ नन्दन	२७ विजय	२८ जय	२९ मन्मथ	३० दुर्मुख	"
३१ हेलम्बी	३२ विलम्बी	३३ विकारी	३४ शावंरी	३५ प्लव	"
३६ शुभकृत्	३७ शोभन	३८ लोधी	३९ विश्वाव.	४० परामव	"
४१ प्लवङ्ग	४२ क्रीलक	४३ सौम्य	४४ साधार.	४५ विरोध.	"
४६ परिधावी	४७ प्रमादी	४८ आनन्द	४९ राक्षस	५० अनल	"
५१ पिङ्गल	५२ कालयुक्त	५३ सिद्धा.	५४ रौद्र	५५ दुर्माति	"
५६ दुन्दुभि	५७ हृषीरोद्रा	५८ रक्षाक्षी	५९ क्रोधन	६० क्षय	"
प्रभवादि १२	प्रमथ्यादि १२	खरादि १२	शोभना. १२	राक्षसादि	द्वादशाब्दाः
संवत्सर	परिवत्सरः	इदं वत्सरः	अनवत्सरः	दुषत्सरः	संशान्तरम

## अथ फलानि ।

किञ्चिद्भ्रातृकरो बालः कुमारस्त्वर्धलाभदः ।  
 सर्वसिद्धिं युवाघत्ते घृद्धे हानिर्मृतेक्षयः ॥ ७७ ॥  
 यात्रा युद्धे विवादे च नष्टं दृष्टे रजान्विते ।  
 बालस्वरो भवेद्विष्टो विवाहादि शुभाशुभः ॥ ७८ ॥  
 सर्वेषु शुभ कार्येषु यात्रव्यां तु विशेषतः ।  
 कुमारः कुरते सिद्धिं सङ्ग्रामे विजयं तथा ॥ ७९ ॥  
 शुभाशुभेषु कार्येषु मन्त्र यन्त्रादि साधने ।  
 सर्वसिद्धिं युवाघत्ते यात्रा युद्धे विशेषतः ॥ ८० ॥  
 घाने देवार्चने दीक्षा गूढ मन्त्रप्रकाशने ।  
 घृद्धस्वरो भवेद् भङ्गो रणे भङ्गो भपङ्गमे ॥ ८१ ॥  
 विवाहादि शुभं सर्वं सङ्ग्रामाद्यशुभं तथा ।  
 न कर्त्तव्यं नृभिः किञ्चिज्जाते मृत्यु स्वरोदये ॥ ८२ ॥  
 तिथि वारञ्जनक्षत्र यहिने च भवेन्मृतम् ।  
 तद्दिने वर्जयेत्सर्वं हानि मृत्युकरो यतः ॥ ८३ ॥

सुगमानि । ७७।७८।७९।८०।८१।८२।८३।

भा० टी०—अथ बालादि स्वरों का साधारण फल इस श्लोक से कह कर भूमिभ्रम श्लोकों से विशेष फल को कहेंगे, यथा बाल स्वर में किसी कार्य को करने से स्वल्प लाभ, कुमार स्वरमें अर्द्ध लाभ तथा युवा स्वरमें सम्पूर्ण विधि और घृद्ध स्वरमें हानि तथा मृत्यु स्वर में सम्पूर्ण नाशको प्राप्त होता है । ७७॥

यात्रा युद्ध विवाद ( कलह ) किसी वस्तु को नष्ट आदि होने में सर्वादिके काटने में रोगादि अवस्था में बाल स्वर शुभ होता है ( अर्थात् बाल स्वर

मे भूला हुआ वस्तु मिल जाता है सर्पादि के काटने पर शीघ्र आराम हो जाता है तथा बाल स्वर मे रोगी शीघ्र निरोग हो जाता है ) तथा विवाहादि शुभ कार्य अशुभ होते हैं ॥ ७८ ॥

सभी शुभ कार्यों मे तथा यात्रा मे विशेष कर कुमार स्वर शुभ होता है एव युद्ध में विजय कारक होता है ॥ ७९ ॥

सभी शुभाशुभ कार्यों मे और मन्त्र यन्त्रादिकों के सिद्ध करने मे युवा स्वर सम्पूर्ण सिद्धि को करता है तथा यात्रा युद्ध मे विशेष शुभ होता है ॥ ८० ॥

दान तथा देवार्चन मे दीक्षा ग्रहण मे गोप्य मन्त्रों के प्रकाशन मे ( गुप्तमन्त्र, सलाह आदि को किसी कहने मे ) वृद्ध स्वर शुभ होता है किन्तु युद्ध मे नाश तथा यात्रा मे भय को करता है ॥ ८१ ॥

मृत्यु स्वर के प्राप्त होने पर विवाहादियावत् शुभ कार्य और सप्रामादि अशुभ कार्य ( अर्थात् किसी प्रकार के भी शुभाशुभ कार्य ) किसी को भी नहीं करना चाहिये ॥ ८२ ॥

जिस दिन तिथि दिन आर नक्षत्र ये सभी मृत्यु स्वर को प्राप्त हों उस दिन किसी भी शुभाशुभ कार्य को नहीं करना चाहिये । क्यों की मृत्युस्वर में किसी कार्य को करने से हानि तथा मृत्यु होती है ॥ ८३ ॥



## सर्वस्वरैक्यचक्रम् ।

अ	इ	उ	ए	ओ	स्वराः
क	ख	ग	घ	च	
छ	ज	झ	ट	ठ	वर्णाः
ड	ढ	त	थ	द	
ध	न	प	फ	ब	
भ	म	य	र	ल	
व	श	ष	स	ह	
प्रमवादि १२	प्रमध्यादि १२	खरादि १२	शोभनादि २२	राक्षसादि १२	द्वादशान्दः
प्र अ इ वि स नं हे शु प प पि दु	वि धी व सु स वि वि शो की प्र का रु	शु प्र भा ता वि ज वि क सौ आ सिर	प्र यु वि पा वि म शा वि सा रा रौ क्री	प्र धा वृ ष्टा ख दु लु प वि अ. दु. क्ष.	सवत्सरद.
सवत्सरः	परिवत्सरः	इदावत्सरः	अनवत्सरः	दुवत्सरः	
का ९ मा ३० पौ ० मा ३०	मा २७ का ३० चै १ मा ७२	चै १ प वै ३० ज्ये २७ ७ ७२	ज्ये ३ आ ३० श्रा ३० भा १ ७२	मा २१ आ ३० का २१ ७ २	मासाः
१।६।११ १६२१२६ नन्दा ८१	२।७।१२ १७।२२।२७ भद्रा ८७	३।८।१३ १८२३२८ जया ९३	४।१।१४ १९।२४।२९ रिका ९९	५।१०।१५ १०।२५।३० पूर्णा १०५	तिथ्यः नन्दायाः योगः
सू मं ।	सु च	वृ	शु	श	ग्रहाः
१।५।८	३।४।६	९।१२	२।७	१०।१९	राशयः
रे अ म कृ री मृ आ । ७	पु पुष्प अ म पू ५	उफा । ह वि स्वा वि ५	अ ज्ये सू पू उ या ५	थ ध श पू उ भा ५	नक्षत्राणि
दि १४ द २४	दि १४ द २४	दि १४ द २४	दि १४ द २४	दि १४ द २४	दिनाति । दण्डाः
म ६० दु २४।८४	सु ३६ वृ ४८।८४	वृ १२ सु ६० श १२।८४	र ३६ श ४८ न ४	र २४ च ६०।८४	समुदायता वारभागाः
उदित जन्म बालः	भ्रमितः कर्म कुमारः	घान्तः आधानं युवा	मुन्ध्या पिण्डः वृद्धः	अर्तं छिद्रं मृतिः	सज्ञा समान्तरं संज्ञात्तरं च

अथ वर्षगणितप्रकारमाह ।

वयोराशिस्वराङ्काश्च एकोरुत्य त्रिधान्यसेत् ।

द्विचतुस्त्रिहृतं कार्यं सप्ताष्टरसभाजितम् ॥ ८४ ॥

वयोराशिस्वराङ्का ये सन्ति तानेकीकृत्य तद्योगं कृत्वा त्रिधा प्रकारत्रयेण न्यसेत्स्थापयेत् । तद्विचतुस्त्रिहृतं तथाकृमात्सप्ताष्टरसभाजितं कार्यं तदा जन्मकोशो भवति । अत्रेदमवधेयम् । यस्यरिष्टनिर्णयः कर्त्तव्योस्ति, तस्य जन्मतो वर्त्तमान-वर्षपर्यन्तं याः सङ्ख्यास्त एव वयसङ्ख्याः । एवं तस्य जन्मराशिर्योस्ति तज्जन्म-राशिपर्यन्तं वृषादिगणनाया याः सङ्ख्यास्त एवात्र राश्यङ्काः । यथा वृषराशिज-न्मवत एकस्या मेपराशिजन्मवतो द्वादश एवं जन्मनक्षत्रजनितो नामादिमवर्षो योस्ति तस्य यो वर्षस्वरचक्रे स्वरस्वास्वरनिष्ठा ये तिथ्यङ्काः “चन्द्राष्टौ प्रथमे” इत्यादयस्त एवात्र स्वराङ्काः । तदुक्तमन्यैः “मेपाद्भादन्यतः स्वर्षं तिथ्ययोगः” अनेन वृषाद्राशिगणना तथा स्वराङ्केतिथ्यङ्का एवेति लाभोजातः । तेषां वयोराशि स्वराङ्कानां योगः कार्यस्तदङ्कवृन्दं त्रिपुस्थानेषु स्थापयेत् । तत्र प्रथमस्थाने तदङ्कवृन्दं द्वान्यां गुणितं सप्तभिर्भक्तं यदवशेषमानं तज्जन्मकोष्ठे चोर्ध्वस्थाने स्थापयेत् । एवं द्वितीयस्थाने स्थितं तदङ्कवृन्दं चतुर्भिर्गुणितं तथाष्टाभिर्भक्तं यच्छे-पमानं तज्जन्मकोष्ठे तदधो मध्यस्थाने स्थापयेत् । एवं तृतीयस्थाने स्थितं तदङ्क वृन्दं त्रिगुणितं रसभक्तं यदवशेषमानं तज्जन्मकोष्ठे सर्वाधः स्थापयेत् । एव जन्मकोष्ठस्य सम्पादनं जातम् ॥ ८४ ॥

श्री ७ टी०—जिस के अरिष्ट निर्णय करना हो उसके वर्त्तमान अवस्था की संख्या ( जन्म से वर्त्तमान वर्ष पर्यन्त की संख्या ) तथा जन्म राशि पर्यन्त वृषादि गणनाः से जो संख्या हो वह और जन्म नक्षत्र जनित नामादि

• मेपाद्भाग्यतः स्वर्षे तिथ्यङ्क योगः इस वाक्य के आधार पर वृषादि से तिथ्यङ्कयोग करते हैं, तथा वृषराशि के जन्मकाल की १ संख्या मिथुन राशि काले की २ एवं क्रमसे मेप राशिके जन्म काले की संख्या १२ गणना किया जाता है । तथा यही क्रम परंपर सप्तशत से भी सिद्ध है ।

जो वर्ण हो उसका जो वर्ण स्वर में स्वर हो उस स्वर का तिथ्यङ्क ( चन्द्राष्टौ प्रथमे देया नग नागा द्वितीय के इत्यादि के क्रम से जो तिथ्यङ्क ) हो एवं इन तीनों ( वय, राशि, स्वरांक ) को जोड़ कर तीन स्थान में स्थापित कर क्रम से दो २ चार ४ और तीन ३ से गुणा कर क्रम से सात ७ आठ ८ और ६ छव से भाग देकर शेषकों को जन्म कोष्ठ में अष्टोऽधः क्रम से तीन स्थान में स्थापन करे अर्थात् प्रथम शेष को उपर द्वितीय शेष को मध्य में तथा तृतीय शेष को नीचे के स्थान में स्थापित करे ऐसा करने से जन्म कोष्ठ का सम्पादन होता है ॥ ८४ ॥

अथ कर्मादिकोष्ठसाधनमाह ।

आधाने नव देयानि स्वरे कर्मणि पञ्च च ।

सर्वाङ्क्यापिता पिण्डे छिद्रे धेणो व्यचस्थिता ॥ ८५ ॥

आधाने स्वरे आधानस्वरकोष्ठसाधने नव देयानि किन्तु पूर्वानीताङ्कवृन्दे नव मनानि योजयानि । एव कर्मणि कर्म कोष्ठानयने पूर्वोक्ताङ्क वृन्दे पञ्चमानानि क्षेप्याणि एवं पिण्डे पिण्डाख्यकोष्ठसाधने पूर्वाङ्काङ्क्यापीतावायाऽर्थात् सर्वाङ्कानां जन्मकर्माधानानां ध्रुवाका शून्यपदानवसमा योज्या । एवं छिद्रे छिद्रकोष्ठानयने निहिताङ्कवृन्दसङ्घा श्रेणीव्यवस्थिता पङ्क्तिभिः सामन्विताऽर्थाज्जन्मकर्माधानपिण्डानां पङ्क्तिगतीध्रुवकैः शून्यपञ्च नव चतुर्दशरूपे सहिता विधेया । तदैव समादाधानदिकोष्ठकानां स्वस्वाङ्कवृन्दं स्यात् । तत्र पूर्ववास्वस्वगुणद्वेन स्वस्वाङ्कवृन्दं सङ्घस्य स्वस्व हरेण विभज्य तत्तदयशेषमानं स्वस्वैकाष्टस्योर्ध्वमप्याध क्रमेण स्थापयेत् । अत्रायं भावः । कर्मकोष्ठसाधनेपूर्वोक्ताङ्कवृन्दे पञ्च मेलयित्वा तस्मिन् स्थानेषु स्थापयेत् । तत्र प्रथमस्थानगतं तदङ्कयोगमानं त्रिगुणितं सप्तमजितं यदवशेषमानं तत्कर्मकोष्ठे चार्धस्थाने स्थापयेत् । एवं द्वितीयस्थानस्य तदङ्कयोगमानं चतुर्गुणितं तथाष्टमकं यदवशेषमानं तत्कर्मकोष्ठे मध्यस्थाने स्थापयेत् । एवं तृतीयस्थानगतं तदङ्कयोगमानं त्रिगुणितं षट्मकं यच्छेषमानं तत्कर्मकोष्ठे चार्धस्थाने स्थापयेत् । तदैव कर्मकोष्ठसाधनं जातम् । अत्रापान कोष्ठसाधनमुच्यते । जन्मकोष्ठानयनार्थं यदङ्कवृन्दं प्रथमाख्यं तत्र नव



दत्त्वा तदा तत्तृतीयाङ्कवृन्दं स्यात् । तत्तृतीयाङ्क्यमङ्कवृन्दं पूर्ववत्त्रिधा स्थापयित्वा  
 तथा पूर्ववत्स्वस्वगुणकेन सङ्गुप्य स्वस्वहारेण विभज्य यदवशेषत्रयं तदाधानको-  
 ष्ठे पूर्ववत्त्रिधा स्थापयेत् । एवमाधानकोष्ठसाधनं जातम् । अत्र पिण्डकोष्ठसा-  
 धनमुच्यते । तत्र प्रथमाङ्कवृन्दे चतुर्दशहर्ष क्षेपकं दत्त्वा तदा तच्चतुर्थाङ्क-  
 वृन्दं स्यात् । ततः पूर्ववत्तच्चतुर्थाङ्कवृन्दं त्रिधा सस्थाप्य स्वस्वगुणगुकेन  
 सङ्गुप्य स्वस्वहारेण च विभज्य यदवशेषत्रयं तत् क्रमात्त्रिधा स्थापयेत् । तदैवं  
 विष्वाङ्ग्यकोष्ठसाधनं जातम् । अत्र छिद्रकोष्ठसाधनमुच्यते । तत्राद्याख्याङ्क-  
 वृन्देस्वक्षेपमष्टविरातिसमं दत्त्वा तदा पञ्चमाङ्कवृन्दं स्यात् । तदिदं पूर्ववत्त्रि-  
 धा विन्यस्य स्वस्वगुणकेन सङ्गुप्य स्वस्वहारेण विभज्य यदवशेषत्रयं तत्पूर्वव-  
 त्त्रिधा स्थापयेत् । तदैवं छिद्राङ्ग्यकोष्ठसाधनं जातम् । परञ्चैवं जातानां पञ्च  
 कोष्ठानां नैसर्गिकचक्रसंज्ञा कृतेति ।

तथाचाह विश्वेश्वरः—

“तिथिराशिवयोद्बोध प्रथमे जन्मकोष्ठके ।

द्विचतुष्टिगुणितं सप्ताष्टरसमाजितम् ॥ १ ॥

कर्माकोष्ठेषु दत्त्वा आधाने नवके तथा ।

पूर्ववद्गुणनंकार्यै भजनशक्तिं पूर्ववत् ॥ २ ॥

पिण्डे चतुर्दश दत्त्वा छिद्रेऽष्टाविंशति सुधी ।

द्विचतुष्टिभिर्गुणितं सप्ताष्टरसमाजितम् ॥ ३ ॥

अत्रयद्यपि ग्रन्थकारेण चलचक्रस्य तपायोगचक्रस्य च प्रक्रिया न दर्शिता ।  
 तपाप्यत्र तच्चक्रद्वयस्य साधनं ज्योतिर्विदां सम्प्रदायसिद्धत्वात्तथा विश्वेश्वराद्युक्त-  
 प्रमाणस्वरसाध्यमयोच्यतेतद्यथा । वर्षस्वरचक्रे यो वर्षस्वरः स च जन्मादिकानां  
 पञ्चस्वराणां मध्ये यस्मिन्कोष्ठे भवेत्स च कोष्ठको नैसर्गिकचक्रे यो भवेत्तमेवात्र  
 जन्मकोष्ठकं ततो द्वितीयकोष्ठकं कर्मकोष्ठकं ततस्तृतीयादिकोष्ठकप्रयत्नाधानादिको-  
 ष्ठप्रयमिति प्रकल्प्यैव चलचक्रं साधयेत् । अथास्मिन् चलचक्रे तथा नैसर्गिकचक्रे  
 जन्मादिकोष्ठकानां मध्ये ह्योर्द्वयोः कोष्ठकयोः स्वयोः स्वयोरर्थात्साजात्ययोर्योग-  
 तुस्थमङ्कवृन्दं प्रकल्प्य ततः स्वस्वगुणकान् दत्त्वा पूर्ववत्स्वस्वगुणकेन सङ्गुप्य  
 स्वस्वहारेण विभज्य यदवशेषत्रयं तत् त्रिधा स्थापयेत् ।

एवं स्वस्वकोष्ठकेऽस्य स्थापनाद्योगचक्रं भवेत् ।

यथा नैसर्गिकचक्रजन्मकोष्ठकस्य तथाचलचक्रजन्मकोष्ठस्य चर्चाकयोगसमे  
शून्यध्रुवकं दत्त्वा यथास्थितं तंयोगं त्रिधा सस्याप्योक्तविधिना द्विचतुस्त्रिगुणितं  
सप्ताष्टरसभाजितं सत्त्रिधा शेषमानंयोगचक्रे जन्मकोष्ठके स्थापयेत् । एवमन्य-  
कोष्ठकेपि यथाह विश्वेश्वरः ।

एवं नैसर्गिकं श्रेयंचलचक्रस्वरान् लिखेत् ।

यत्र कोष्ठो स्ववर्णो वै तमेव जन्मसंज्ञकम् ॥ १ ॥

कर्माधानादिकान्सर्वान् विदित्वा विलिखेत्कृत्वा ।

नैसर्गिकंचलचक्रं च लिखित्वा सन्नियोजयेत् ॥ २ ॥

जन्मना जन्म संयोज्य कर्मणा कर्मसंज्ञकम् ।

आधानादित्रिकेष्वेवं योज्याऽत्र ध्रुवकान्क्षिपेत् ॥ ३ ॥

तैरेव गुणकैर्गुण्यं भजनं च तथाविधम् ।

अत्रादाहरणम् । शकः १७८३ भाषशुक्रपद्यदशोदण्डादि ४० ॥११॥ अश्ले  
पानक्षत्रं २१।३१ तदुपरि मघानक्षत्रे द्वितीय दिने मघानक्षत्रं २१।४९ शोभनयोगे  
दण्डानिः ३३।३८। कुम्भार्कगतांशाः ४।९।३०। सूर्योदयादिष्टं ३२।९ एवं विधे  
पद्याङ्गे शुक्रवासरे मम जन्म आसीत् । भयार्त १०।३८ भमोग ६०।१८  
अत्र मघानक्षत्रस्यादक्षरणे जन्म तेननामादि भवर्णो मकारः। अस्योपरिगत इक्षर-  
स्वरो वर्णस्वरचक्रे जातः । अस्य स्वरस्याघः स्थास्तिध्यङ्कानगनागमिताः (८७)  
अथ जन्मतो वर्तमानवर्षे यावद्वयोऽट्काधन्द्राश्विमिताः ( ४१ ) । तथा वृष-  
राशेः स्वजन्मराशिं सिंहाख्यं यावद्राश्यङ्का वेदमिता ( ४ ) । एतेषां योगमानं  
प्रथमाङ्कवृन्दं ( १३२ ) त्रिषु स्थानेषु विन्यस्य १३२।१३२।१३२ तत्रा-  
द्यस्थाने तद्वृन्दं द्विगुणितं जातं वेदाङ्गाश्विमितं ( २६४ ) इदं सप्ततष्टं जातं  
( ५ ) इदं जन्माख्यकोष्ठस्याघः स्थापयेत् । एवं द्वितीयस्थाने तद्वृन्दं चतुर्गुणितं  
जातं १३२ x ८ = ( ५२८ ) पुनरिदमष्टमर्कं शेषाद्ब्रह्मानं शून्य ( ० ) जन्मा-  
ख्यकोष्ठे मध्य स्थाने स्थापयेत् । एवंतृतीयस्थानस्थितं तद्वृन्दं त्रिगुणितं जातं ३  
x १३२ = ३९६ ) इदं अष्टमर्कं शेषाद्ब्रह्मानं शून्यं ( ० ) जन्माख्यकोष्ठे

उन्त्येऽर्थात्सर्वाधः स्थापयेत् । एवं जन्माख्यकोष्ठसम्पादनं जातम् ।

अथ कर्माख्यकोष्ठसाधनमुच्यते । तत्र "आधानेनव देयानि स्वरे कर्मणि पञ्च च" इति पूर्वविहितप्रथमाङ्कवृन्दे पञ्च दत्त्वा तद्वितीयाङ्कवृन्दं स्यादितितन्मानं  $(१३२+५)=(१३७)$  इदं पूर्ववत्त्रिधा विन्यस्य स्वस्वगुणकेन सङ्गुण्य जातं तत्फलं  $१३७ \times २१९३७ \times ४१९३७ \times ३$  । वा  $२७४$  ।  $५४८१४९९$  इदं स्वस्वहरेण विभज्य त्रिधा तच्छेषाङ्कमानमिदं  $११४१३$  कर्माख्यकोष्ठे चोर्ध्वमध्याधः क्रमेण स्थापयेत् । एवं कर्माख्यकोष्ठसाधनं जातम् ।

अथाधानकोष्ठसाधनार्थं प्रथमाङ्कवृन्देनव दत्त्वा यत्तृतीयाङ्कवृन्दं जातं  $(१३२+९)=(१४१)$  इदं पूर्ववत्त्रिधा स्थापयित्वा स्वस्वगुणेन सङ्गुण्य जातं त्रिधा फलं  $१४१ \times २१९४१ \times ४१९४१ \times ३$  । वा  $२८२$  ।  $५६४$  ।  $४२३$  इदं स्वहरेण विभज्य त्रिधा तच्छेषाङ्कमानं  $२१४३$  आधानकोष्ठे पूर्ववदूर्ध्वमध्याधः क्रमात्स्थापयेत् । इत्याधानकोष्ठानयनं जातम् ।

अथ पिण्डकोष्ठानयनं कथ्यते । तत्र जन्मादिकोष्ठत्रयस्य शून्यपङ्क्तनवसु-  
पार्णा स्वस्वध्रुवकानां योगेन चतुर्दशमितेन  $(१४)$  सम पिण्डकोष्ठज ध्रुवाङ्कमाने  
प्रथमाङ्कवृन्दे संयोज्य तच्चतुर्थाङ्कवृन्दं जातं  $(१३२+१४)=(१४६)$  इदं  
पूर्ववत्त्रिधा फलं  $१४६ \times २१९४६ \times ४१९४६ \times ३$  वा  $२९२१५८४१४३८$  इदं  
स्वस्वहरेण विभज्य त्रिधा तच्छेषाङ्कमानं  $५१०१०$  पिण्डाख्यकोष्ठके चोर्ध्व-  
मध्याध क्रमात्स्थापयेत् । इत्येवं पिण्डाकोष्ठानयनं जातम् ।

अत्र छिद्रकोष्ठानयनमुच्यते । तत्र कोष्ठकचतुष्कोद्भवान् स्वस्वध्रुवकाना-  
मेतेषां  $०१५१९१४$  योगेनाष्टविंशतिमितेन तुल्यं छिद्र कोष्ठकज ध्रुवाङ्कमानं  
प्रथमाङ्कवृन्दे दत्त्वा जातं प्रथमाङ्कवृन्दं  $[१३२+३८]=(१६०)$  इदं  
त्रिधा विन्यस्य स्वस्वगुणकेन सङ्गुण्य जातं त्रिधा फलं  $१६० \times २१९६० \times$   
 $४१९६० \times ३$  वा  $३२०१६४०१४८०$  इदं स्व स्वहरेण विभज्य त्रिधा तच्छेषा-  
ङ्कमानं  $५१०१०$  इदं छिद्राख्यकोष्ठे पूर्ववत् त्रिधा स्थापयेत् । इति छिद्राख्य-  
कोष्ठकं जातम् एवं साधितानां कोष्ठकानां स्थापनवशाज्जातं नैसर्गिक-  
वाक्कमिति रूपं ।



## नैसर्गिकचक्रम् ।

ज	क	आ	पि	छि
५	१	२	५	५
०	४	४	०	०
०	३	३	०	०

(२) अथ चलचक्रोदाहरणमुच्यते । तत्र वर्णस्वरचक्रे [इ] स्वराद्यं स्वं कर्म कोष्ठाख्यं तेनात्र नैसर्गिकचक्रं कर्मकोष्ठा यद्यत्तदेवजन्मकोष्ठाभिधं चलचक्रे लेख्यम् । ततश्चाध्यानाभिधं कर्मसंज्ञकम् । एष तृतीयं पिण्डकोष्ठाख्यमाधान-संज्ञकम् । ततश्चतुर्थं छिद्रकोष्ठाख्यं पिण्डसंज्ञकम् । ततः पञ्चमं जन्मकोष्ठाख्यं छिद्राभिधम् । एष वृत्ते जातं चलचक्रस्वरूपमिदम् ।

ज	क	आ	पि	छि
१	२	५	५	५
४	४	०	०	०
३	३	०	०	०

अथ योगचक्रोदाहरणमुच्यते । तत्र साधिनचक्रद्वये जन्मकोष्ठकद्वयस्यास्य

५१

०४

०३

योगमाने ६ । ४ । ३ इत्यधुष दत्वा यथास्थितं तत्तरेव गुणकेन्द्रिचक्रभिर्गु-  
णितं जातं १२।१६।९ इदं जन्मकोष्ठाख्यं तदेवैर्भक्तं जातं दोषत्रयं ५।०।३  
जन्मकोष्ठे-चोर्ध्वमध्याधं क्रमेण स्थापयेत् ।

एवं नैसर्गिकचक्रे कर्मकोष्ठात् १।४।३ तथा चलचक्रे कर्मकोष्ठात् २।४।३ एषां योगेऽस्मिन् ३।८।६ पञ्चमिदं स्वभुक्तिकमानं दत्वा जातं  
८।१३।११ इदं स्वस्वगुणकेन सहृष्यं जातम् । ११।६।५२।३३ स्वरावहरेण तदं  
२।४।३ इदं कर्मकोष्ठे चोर्ध्वमध्याधं क्रमेण स्थापयेत् ।

अथ नैसर्गिकचक्रजातमाधानकोष्ठाङ्कमानं २।४।३ तथा चलचक्रजमाधानकोष्ठाङ्कमानं ५।०।० अस्याङ्कमानद्वयस्य योगेऽस्मिन् ७।४।३ नव प्रमितं स्वध्रुवाङ्कमानं दत्त्वा जातं १६।१३।१२ इदं स्वस्वगुणकेन सद्गुण्य जातं ३२।५२।३६ स्वस्वहरेण विभज्य शेषत्रयं ४।४।० आधानकोष्ठे पूर्ववदूर्ध्वमध्याधः क्रमात्स्थापयेत् ।

एवं नैसर्गिकचक्रजातं पिण्डकोष्ठाङ्कमानं ५।०।० तथा चलचक्रजं तदङ्कमानं ५।०।० अनयोर्योगेऽस्मिन् १०।०।० चतुर्दशसमं स्वक्षेपकं क्षेप्यं जातं ३४।१४।१४ इदं स्वस्वगुणकेन गुणितं जातं ४८।५६।४२ इदं स्वस्वहरेण विभज्य शेषत्रयं ६।०।० इदं पिण्डकोष्ठे पूर्ववत्स्थापयेत् । अथ नैसर्गिकचक्रजं छिद्रकोष्ठाङ्कमानं ५।०।० तथा चलचक्रजं तदङ्कमानं ५।०।० अनयोर्योगेऽस्मिन् १०।०।० स्वक्षेपकमष्टाविंशतिमितं दत्त्वा जातं ३८।२८।२८ इदं स्वस्वगुणकेन सद्गुण्य जातं ७६।११२।८४ इदं स्वस्वहरेण विभज्य शेषत्रयं ६।०।० छिद्रकोष्ठे पूर्ववत्स्थापयेत् । एव कृते जात योगचक्रस्वरूपमिदम् ।

जन्म	कर्म	आधान	पिण्ड	छिद्र
५	२	४	६	६
०	४	४	०	०
३	३	०	०	०

अथ नैसर्गिकचक्रसाधने मतान्तरं प्रतिपादयते । बयोरदयश्च तदा स्वस्वन्मराशस्वराङ्काश्चैकीकृत्य तत्रिधा विन्यस्य क्रमेण द्विचतुश्चिन्मि. सद्गुण्य सप्तारशसौविभज्य शेषत्रयं जन्म कोष्ठे चोर्ध्वाधः क्रमेण स्थापयेत् । ततो जन्मस्वराद्द्वितीये कर्माख्यकोष्ठे ये स्वतिथ्यशास्त्रायाः पूर्वोक्तयोरदयश्चोर्ध्वाधैकीकृत्य त्रिधा संस्थाप्य स्वस्वगुणकेन सद्गुण्य जाते त्रिधा गुणनपले प्रत्येकपत्रे दत्त्वा ततस्वस्वहरेण विभज्य शेषत्रयं पूर्ववत्कर्मकोष्ठे स्थापयेत् । एवं पूर्वोक्त

योरश्वत्था स्ववर्णस्वरात्तृतीयकोष्ठे चाधानाख्ये ये तिथ्यश्वत्थानेकीकृत्य  
 त्रिधा विन्यस्यस्वस्वगुणकेन सङ्गुप्य त्रिषु स्थानेषु स्थितेषु गुणनफलेषु प्रत्येक  
 नव दत्त्वा ततस्तत्स्वस्वहरेण विभज्य शेषत्रयमाधानकोष्ठे पूर्ववन्वसेत् । एव  
 पूर्वोक्तवयोरश्वत्था वर्णस्वराच्चतुर्थे पिण्डाख्यकोष्ठे स्वतिथ्यश्वत्थैकीकृत्य  
 त्रिधा विन्यस्यस्वस्वगुणकेन सङ्गुप्य स्थानत्रये गुणनफले प्रत्येक चतुर्दशसप्त स्वक्षे  
 पकं दत्त्वा ततस्तत्स्वस्वहरेण विभज्य शेषत्रयं पिण्डकोष्ठके पूर्ववत्स्थापयेत् ।  
 एषं तत पञ्चम छिद्रकोष्ठके तिथ्यश्वत्था पूर्वोक्ता वयोरश्वत्थाैकीकृत्य  
 त्रिधा न्यस्तं कृत्वा स्वस्व गुणकेन सङ्गुप्य त्रिषुस्थानेषु गुणनफलेषु प्रत्येक  
 स्वप्नवात्कमानमशाविंशतिसप्त दत्त्वा स्वस्वहरेण विभज्य शेषत्रयं त्रिधा  
 पूर्ववच्छिद्रकोष्ठके स्थापयेत् ।

पुनर्मतान्तरं प्रदर्श्यते । तद्यथा । तत्र जन्मकोष्ठादित्रयस्य साधनमधुना  
 प्रदर्शितविधिवद्बोध्यम् । अथ पिण्डकोष्ठे तिथ्यश्वत्थावयोरश्वत्थै काश्चै  
 कीकृत्य त्रिधा विन्यस्य स्वस्वगुणकेन सङ्गुप्य स्वस्वहरेण विभज्य  
 शेषत्रये क्माच्छून्य तथा पञ्चमित नवमित च दत्त्वा पुन स्वस्वहरेण  
 विभज्य शेषत्रयं पूर्ववत्पिण्डकोष्ठेस्थापयेत् । अथवा प्रथमशेषे साधातानां  
 जन्मकोष्ठाद्य स्थानां शेषानां योगसप्त तथा द्वितीयशेषे कर्मकोष्ठाद्य स्थस्य  
 शेषत्रयस्य योगसप्त तथा तृतीयशेषे चाधान कोष्ठाद्य स्थस्य शेषत्रयस्य  
 पिण्डकोष्ठे पूर्ववत्स्थापयेत् । अथ छिद्रकोष्ठसाधने तु पूर्वोक्त-  
 वयोरश्वत्था तत्तिथ्यश्वत्थाैकीकृत्य त्रिधा विन्यस्य स्वस्वगुणकेन  
 गुणयित्वा स्वस्वहरेण विभज्य त्रयाणां शेषाणां मध्ये क्रमात्पञ्चमितं  
 तथा नवमितं चतुर्दशमितं च दत्त्वा पुन स्वस्वहरेण विभज्य शेषत्रयं  
 पूर्ववत्त्रिधा पिण्डकोष्ठके स्थापयेत् । अथवा प्रथमशेषे जन्मादिकोष्ठ  
 चतुष्टयोर्ष्वत्थयोगमितं तथा द्वितीयशेषे तन्मध्यात्क्ययोगमितं तथान्वयशेषे  
 तदन्तिमात्क्ययोगमितं दत्त्वा पुन स्वस्वहरेण विभज्य शेषत्रयं छिद्रकोष्ठे  
 पूर्वरीत्यास्थापयेत् । एवमप्ययदोक्षितप्रभृतिभिस्तटटीकाकारैर्यन्त्रैर्नैसर्गिकचक्रसा  
 धनप्रक्रिया प्रदर्शिता । तस्या मूलकारस्त्रार्थबहिर्भूतत्वात्तथा विश्वेश्वरादिप्रणीतव

चनप्रमाणानुकूलार्थं बाह्यगत्वात्साप्रक्रिया नादरणीयेति किन्तु प्रथम यदुदाहरण मया प्रसिद्धं तदेव बहुसम्मतं मनापि मतं स्यादिति सुधीभिर्विभाव्यम् ।

अथ जन्मादिकोष्ठकानां प्रयोजनमुच्यते । जन्मकोष्ठे त्वात्मनः शुभाशुभाज्ञानम् । कर्मकोष्ठे कर्मणः सिद्धयसिद्धिज्ञानम् । आधानाभिधे कोष्ठे पुत्रादेः शुभाशुभं चित्तप्रान्ति । पिण्डकोष्ठे पिण्डसम्बन्धिवन्धुषुविरोधादिज्ञानम् । छिद्रकोष्ठे द्रव्यगत्यबाह्यनादौ शुभाशुभमिति । अथ तत्प्रकारः प्रदर्श्यते । पूर्वरीत्या प्रयाणां वर्षेशानां मध्ये प्रथमाब्दपक्षशनेः स्थूलं फलं प्रथममासचतुष्टयं यावत्कथनीयमिति । तत्रापि यदि जन्मकाले स्वोच्चादिस्थानजातेन बलेन संहितं शनिर्पुन संप्रावगतस्तर्हि तत्फलं श्रेष्ठं जवनावनीशालाभस्तथा वृद्धाङ्गनासुखं च । एव जन्मकाले यदि नीचादिस्थानापलक्षिता निर्वलस्तथाऽनिष्टभावगतः शनिस्तदा तत्फलमधमम्लेश्वादानिस्तथा वृद्धाङ्गनादेर्मयः स्वदेहे वायुप्रकोप । एव सर्वेषामभ्येशानां फलं चोच्यमिति । तथा पुनरुच्चादिस्वराणां द्विसप्ततिदिनात्मकस्य स्वस्ववर्षविभागस्य पूर्वकथितस्यापिभागत्रयं चतुर्विंशतिदिनात्मकं विधेयम् । तत्रापि फलं विचारणीयम् । तथा । नैसर्गिकचक्रं जन्मकोष्ठस्योर्ध्वस्थाने प्रथमपक्षालये पञ्चसङ्ख्योपलक्षितो शुद्धस्तथा चलचक्रं तत्कोष्ठस्योर्ध्वस्थाने रूपसङ्ख्योपलक्षितो रविः । तेनात्र गुरोरन्तरं रविफलं स्यात्पूर्वोक्तदशान्तर्दशानुकूलरूपम् । तथा शनेः शुभाशुभफलं निश्चितमिति प्रथमविभागे चतुर्विंशतिदिनात्मके लेखनीयमिति । अथाने द्वितीयविभागे चतुर्विंशतिदिनात्मके तु नैसर्गिकचक्रं जन्मकोष्ठस्य मध्यस्थाने शून्योपलक्षितो राहुस्तथा चलचक्रं वेदसङ्ख्योपलक्षितो शुद्धस्तेनात्र तयो फलं कथितविधिना लेख्यम् । तदने तृतीयविभागे चतुर्विंशतिदिनात्मके तु नैसर्गिकचक्रं जन्मकोष्ठस्य अधोस्थाने राहुस्तथा चलचक्रं कुजरस्तेनात्र तयोः फलमुक्तप्रकारेण लेख्यम् । एवं द्वितीयमासादिषु द्विसप्ततिदिनमितेषु फलं लेखनीयमिति ॥ ८५ ॥

भा० टी०—पूर्व श्लोक से जन्म कोष्ठ का साधन कर इससे कर्म, आधान, पिण्ड और छिद्र स्वर के कोष्ठ को साधन बताते हैं कि आधान कोष्ठ के साधन में पूर्वोक्त अंक योग में ९ योग करना चाहिये तथा कर्म कोष्ठ के साधन में पूर्वोक्त अंक योग में ५ तथा पिण्ड कोष्ठ साधन में पूर्वोक्त

योरश्वत्था स्ववर्णस्वरात्तृतीयकोष्ठे चाधानाक्ये ये तिथ्यङ्कास्तानेकीकृत्य त्रिधा विन्यस्यस्वस्वगुणकेन सङ्गुण्य त्रिषु स्थानेषु स्थितेषु गुणनफलेषु प्रत्येकं नव दत्त्वा ततस्तत्स्वस्वहरेण विभज्य शेषत्रयमाधानकोष्ठे पूर्ववन्वसेत् । एव पूर्वोक्तयोरश्वत्था वर्णस्वराच्चतुर्थे पिण्डाख्यकोष्ठे स्वतिथ्यङ्कैकीकृत्य त्रिधा विन्यस्यस्वस्वगुणकेन सङ्गुण्य स्थानत्रये गुणनफले प्रत्येकं चतुर्दशसप्तं स्वसे पकं दत्त्वा ततस्तत्स्वस्वहरेण विभज्य शेषत्रयं पिण्डकोष्ठेके पूर्ववत्स्थापयेत् । एवं ततः पञ्चम छिद्रसप्तके तिथ्यङ्कास्तथा पूर्वोक्ता योरश्वत्थाङ्कैकीकृत्य त्रिधा न्यस्तं कृत्वा स्वस्व गुणकेन सङ्गुण्य त्रिषुस्थानेषु गुणनफलेषु प्रत्येकं स्वध्रुवाङ्कमानमष्टाविंशतिसप्तं दत्त्वा स्वस्वहरेण विभज्य शेषत्रयं त्रिधा पूर्ववच्छिद्रकोष्ठके स्थापयेत् ।

पुनर्मतान्तरं प्रदर्शयति । तद्यथा । तत्र जन्मकोष्ठादित्रयस्य साधनमधुना प्रदर्शितविधिवद्बोध्यम् । अथ पिण्डकोष्ठे तिथ्यङ्कास्तथायोरश्वत्थाङ्कैकीकृत्य त्रिधा विन्यस्य स्वस्वगुणकेन सङ्गुण्य स्वस्वहरेण विभज्य शेषत्रये क्रमाच्छून्यं तथा पञ्चमितं नवमितं च दत्त्वा पुनः स्वस्वहरेण विभज्य शेषत्रयं पूर्ववत्पिण्डकोष्ठेस्थापयेत् । अथवा प्रथमशेषे साधितानां जन्मकोष्ठाद्य स्थानां शेषानां योगसप्तं तथा द्वितीयशेषे कर्मकोष्ठाद्य स्थस्य शेषत्रयस्य योगसप्तं तथा तृतीयशेषे चाधान कोष्ठाद्यः स्थस्य शेषत्रयस्य पिण्डकोष्ठे पूर्ववत्स्थापयेत् । अथ छिद्रकोष्ठसाधने तु पूर्वोक्तयोरश्वत्थाङ्कस्तथा तत्तिथ्यङ्कैकीकृत्य त्रिधा विन्यस्य स्वस्वगुणकेन गुणयित्वा स्वस्वहरेण विभज्य त्रयाणां शेषाणां मध्ये क्रमात्पञ्चमितं तथा नवमितं चतुर्दशमितं च दत्त्वा पुनः स्वस्वहरेण विभज्य शेषत्रयं पूर्ववत्त्रिधा पिण्डकोष्ठके स्थापयेत् । अथवा प्रथमशेषे जन्मादिकोष्ठ-चतुष्टयोर्ध्रुवाङ्कयोगमितं तथा द्वितीयशेषे तन्मध्याङ्कयोगमितं तथान्यशेषे तदन्तिमाङ्कयोगमितं दत्त्वा पुनः स्वस्वहरेण विभज्य शेषत्रयं छिद्रकोष्ठे पूर्वरीत्यास्थापयेत् । एवमप्ययदोक्षितप्रश्रुतिभिस्तट्टीकाकारैर्यन्त्रैर्नैसर्गिकचक्रसाधनप्रक्रिया प्रदर्शिता । तस्या मूलकारसुशार्थबहिर्भूतत्वात्तथा विश्वेश्वरादिप्रणीतव



चनप्रमाणानुकूलार्थबाह्यगत्वात्साप्रक्रिया नादरणीयेति किन्तु प्रथम श्रुदाहरण  
मभा प्रशित तदेव बहुसम्मत ममापि मत स्यादिति सुधीभिर्विभाव्यम् ।

अथ जन्मादिकोष्ठकानां प्रयोजनमुच्यते । जन्मकोष्ठे स्वामन  
शुभाशुभाज्ञानम् । कर्मकोष्ठे कर्मणः सिद्धयसिद्धिज्ञानम् । आधाना  
भिधे कोष्ठे पुत्रादेः शुभाशुभं चित्तप्रान्ति । पिण्डकोष्ठेपिण्डसम्बन्धिवन्धुपुत्रि  
रोपादिज्ञानम् । छिद्रकोष्ठे इन्द्रियवाहनादी शुभाशुभमिति । अथ तत्प्र  
कारः प्रदर्श्यते । पुरीत्या अशाणां वर्षेशानां मध्ये प्रथमाब्दपक्षशने स्थूल फलं  
प्रथममासचतुष्टयं यावत्कथनीयमिति । तत्रापि यदि जन्मकाले स्वोच्चादि  
स्थानजातेन बलेन सहित शनिर्पुनः सप्तावगतस्त्वर्हि तत्फल श्रेष्ठ जवना  
धनीशास्त्राभस्तथा वृद्धाङ्गनासुखं च । एव जन्मकाले यदि नीचादिस्थानोपलक्षितो  
निर्वलस्तथाऽनिष्टभावागत शनिस्तदातत्फलमधमम्लेभादानिस्तथा वृद्धाङ्गनादेर्भ  
य स्वदेहे वायुप्रकोपः । एव सर्वेषाम्देशानां फलं बोध्यमिति । तथा पुनरुदि  
तादिस्वराणां द्विसप्ततिदिनात्मकस्य स्वस्ववर्षविभागस्य पूर्वकथितस्यापिभागत्रय  
चतुर्विंशतिदिनात्मक विधेयम् । तत्रापि फलं विचारणीयम् । तद्यथा । नैसर्गिक  
चक्रं जन्मकोष्ठस्थोर्ध्वस्थाने प्रथमपक्षाहये पञ्चसङ्घोपलक्षितो गुरुस्तथा चल  
चक्रे तत्कोष्ठस्थोर्ध्वस्थाने रूपसङ्घोपलक्षितो रविः । तेनात्र गुरोरन्तर रविफल  
स्यात्पूर्वोक्तदशान्तर्देशानुकूलरूपम् । तथा शने शुभाशुभफलं निश्चितमिति  
प्रथमविभागे चतुर्विंशतिदिनात्मके लेखनीयमिति । अथाग्ने द्वितीयविभागं चतु  
र्विंशतिदिनात्मके तु नैसर्गिकचक्रे जन्मकोष्ठस्य मध्यस्थाने शून्योपलक्षितो राहु  
स्तथा चलचक्रे वेदसङ्घोपलक्षितो बुधस्तेनात्र तयो फलं कथितविधिना  
लेख्यम् । तदग्रे तृतीयविभागे चतुर्विंशतिदिनात्मके तु नैसर्गिकचक्रे जन्मको  
ष्ठस्थाने राहुस्तथा चलचक्रे कुजस्तेनात्र तयोरप्युक्तफलमुक्तप्रकारेण  
लेख्यम् । एव द्वितीयमासादिषु द्विसप्ततिदिनमितेषु फलं लेखनीयमिति ॥ ८५ ॥

भा० टी०—पूर्व श्लोक से जन्म कोष्ठ का साधन कर इससे कर्म,  
आधान, पिण्ड और छिद्र स्वर के कोष्ठ को साधन बताते हैं कि आधान कोष्ठ  
के साधन में पूर्वोक्त एक योग में ९ योग करना चाहिये तथा कर्म कोष्ठ के  
साधन में पूर्वोक्त एक योग में ५ तथा पिण्ड कोष्ठ साधन में सर्वांक व्यापित

अर्थात् जन्म कर्म और आधान का ध्रुवांकयोग १४ ( अर्थात् जन्म का ० कर्म का ५ आधान का ९ योग १४ ) जोड़ना चाहिये । एवं छिद्र कोष्ठ के साधन में श्रेणीव्यवस्थित अंक अर्थात् जन्म कर्म आधान और पिण्ड का ध्रुवांकयोग  $०+५+९+१४=२८$  योग करना चाहिये । एवं पूर्वोक्त अंक योग में कर्म आधान पिण्ड और छिद्र कोष्ठ के साधन के लिये क्रमशः ५, ९, १४, २८ का योग कर पूर्वोक्त रीति से अंक साधन करे । अर्थात् कर्म कोष्ठ साधन में पूर्वोक्त अंक योग में ५ जोड़ कर तीन स्थान में स्थापित कर क्रम से २ दो, ४ चार और ३ तीन से गुणित कर क्रमशः सात ७ आठ ८ और ६ छव से भाग देकर शेषाङ्को को क्रमशः अधोऽधः कर्म कोष्ठ में लिखे । एवं आधान कोष्ठ साधन में पूर्वोक्त अंक योग में ९ जोड़ कर तीन स्थान में स्थापित कर क्रमशः २, ४, ३ से गुणित कर ७, ८, ६ से भाग देकर शेषाङ्कों को क्रमशः अधोऽधः आधान कोष्ठ में लिखे । ऐसे ही १४ युक्त पूर्वोक्त अङ्क योग से पिण्ड के, तथा २८ युक्त पूर्वोक्त अङ्क योग से छिद्र संशुद्ध कोष्ठ की पूर्ति करे । इस प्रकार सभी कोष्ठों का साधन हुआ ॥ ८५ ॥\*

• इस प्रकार साधन किये गये को नैसर्गिक चक्रकल्पना किया गया है । अथ यद्यपि यहाँ ग्रन्थकार ने चल चक्र और योग चक्र के प्रक्रिया को नहीं लिखा है तथापि ज्योतिर्विदों के सम्प्रदाय में सिद्ध होने के कारण मैं भी संक्षेप से किञ्चित् दिग्दर्शन करता हूँ—अथ प्रथम चल चक्र का साधन प्रकार लिखता हूँ वर्णस्वर चक्र में जो स्वर वर्ण स्वर हो वह जन्मादि १५ स्वर में जिस कोष्ठ में हो वह कोष्ठ नैसर्गिक चक्र में जिस कोष्ठ में हो उन्ही को जन्म स्वर मान कर उससे द्वितीय को कर्म कोष्ठ तृतीय को आधान कोष्ठ चतुर्थ को पिण्ड और पंचम को छिद्र कोष्ठ कल्पना कर चल चक्र साधन करे । अथ योग चक्र साधन प्रकार—पूर्वाक्त रीति से नैसर्गिक चक्र तथा चल चक्र लिख कर नैसर्गिक चक्र स्थित जन्मादि कोष्ठ के साधित अङ्कों को चक्र चक्र स्थित जन्मादि कोष्ठ के अङ्कों में यथा क्रम से योग करे अर्थात् प्रथम शेषाङ्क को प्रथम में, द्वितीय को द्वितीय में तृतीय को तृतीय में योग करके स्वरचक्र बाजू जोड़ कर उन्ही गुणनाम्नो से गुणा कर बैठे ही यथा क्रम से

अथतिथ्याद्यानयनमाह—

गणयित्वा निर्णयं वर्षे वर्षप्रभाग कल्पना ।

पञ्चभिश्च हृते शेषे नन्दाद्या मृत्यु कारणम् ॥ ८६ ॥

सं० टी०—पञ्चस्वरचक्रं विधाय तत्र वक्ष्यमाणबोधैर्गृह्यं निश्चित्य तत्काल-  
जनितं तिथ्याद्यानयनं प्रदर्शयति । वर्षे निर्णयं मरण निश्चयं गणयित्वा श्लात्वा  
तदा वर्षप्रभागकल्पना कार्या किन्तु कस्मिन् विभागेऽर्थात्कस्मिन्दितादिस्वरजानां  
द्विसप्ततिदिनात्मकमासानामन्तरे मृत्युर्भविष्यतीति विचारणीयम् । तद्यथा ।  
पूर्वोक्तवयोरशिश्वराङ्गानां योगसमे प्रथमाद्गृह्णन्दे पञ्चभक्तौ सत्येकादिशेषवशा-  
द्विहितोदितादिस्वरुदधःस्थे द्विसप्ततिदिनात्मके मासे मृत्युः वक्ष्यनीयः ।  
अत्रेदमवधेयम् । एकशेषे पूर्वविहितोदितस्वरस्य वर्षभागे । चेद्द्वौ शेषौ  
तदा अमितस्वरस्य वर्षभागे । त्रिशेषे ध्रान्तस्वरस्य वर्ष विभागे चतुर्मिते  
शेषे सन्धास्वरवर्षभागे पञ्चमिते शेषेऽस्तस्वरवर्षभागे द्विसप्ततिदिनात्मके  
मरणं वदेत् । एवं पञ्चस्वराणां मध्ये यस्मिन् जन्मादिकोष्ठे मरणमायाति  
तत्रापि द्विसप्ततिदिनानां मध्ये कस्मिन् त्रिभागे चतुर्विंशतिदिनात्मके मरणं  
भवेदितिज्ञानमुच्यते । यस्मिन् जन्मादिकोष्ठे मरणनिर्णयं प्राप्तं तत्रोर्ध्व-  
मध्याधःस्थे स्थानत्रये यस्मिन् शून्यं स्यात्तद्विभागे मरणं भवेत् । अथ भावः ।  
उर्ध्वस्थाने शून्ये तदा प्रथमत्रिभागे चतुर्विंशतिदिने । यदि मध्यस्थानेऽह्माव-  
स्तदा चतुर्विंशतिदिनपरभृत्चत्वारिंशद्दिनापरं द्विसप्ततिदिनं यावन्मरणं भवेत् ।  
अत्रैवं यदि चोर्ध्वमध्याधः स्थानत्रये सर्वस्मिन् शून्यानि वा स्थानद्वये च शून्यं  
तदा कस्मिन् त्रिभागे मरणं भवेदिति प्रतिपाद्यते । तदा पूर्वं वर्षेऽथयमाये यो  
बली तस्य शून्यं किन्तु शून्यकोष्ठस्यचतुर्विंशतिदिनाभ्यन्तरे मरणं भवेत्परमेवं  
तदेव यदि त्रयो वर्षेऽंशाः पापाः स्युः । अथ यदि तेषु वर्षेषु शुभप्रदेषु तदा  
जन्मकाले वैश्विक्कोणादतिरिक्तस्थानेषु स्थित सौम्यप्रदजनितोर्ध्वमध्याधःस्थेषु-

७८६ से भाग देर जो शेष हो उनको नैसर्गिक चक्र के ही रीति में अर्धोऽधः  
स्थापित करे । एवं योग बना होता है ।

विंशतिदिनाभ्यन्तरे मृत्युर्वाच्यः । अथवा वर्षेऽशम्बन्धाभावानामपि पापानां कोष्ठभागे चतुर्विंशतिदिनाभ्यन्तरे मृत्युः । तत्र यदि स्थानत्रये सौम्या एव तदा जन्मकाले केन्द्रत्रिकोणेतरगतसौम्यभागे मरणम् । अथ चतुर्विंशतिदिममध्येऽपि कश्चिन् दिने निधनं स्यादिति परामर्शे अप्ययदीक्षितनामा गणको वदति । तद्यथा । तत्र स्वरोदयोक्तसर्वतोमद्रचक्रोक्तपञ्चविद्धं यत्र दृश्यते तत्र दिने मृत्युर्वाच्यः । अथ नन्दादिज्ञानमुच्यते पूर्वोक्ते प्रथमाकृन्दे पञ्चभिर्भक्ते रूपशेषे नन्दायाम् । द्विशेषे भद्रायाम् । त्रिशेषे ज्ञायाम् । चतुःशेषे रिक्तायाम् । पञ्चशेषे पूर्णायाम् । इति मरणं विभाव्यम् । अथैवं नन्दादितिज्ञाने सति षट्सु नन्दासु कस्यां नन्दायां मरणं भविष्यतीतिज्ञानं प्रदर्शयते । तद्यथा । पूर्वोक्ते प्रथमाकृन्दे षड्भक्ते रूपशेषे प्रथमनन्दायामर्थाच्छुक्लप्रतिपदि । द्विशेषे द्वितीयनन्दायां शुक्लषष्ठ्याम् । त्रिशेषे तृतीयनन्दयां शुक्लैकादश्याम् । चतुःशेषे चतुर्थनन्दायां कृष्णप्रतिपदि । पञ्चशेषे पञ्चनन्दायां कृष्णषष्ठ्याम् । षट्शेषे षष्ठनन्दायां कृष्णैकादश्याम् । एवं प्रथमाकृन्देऽप्यष्टमकाद्विशेषेन ज्ञायाम् । भद्रायां सत्यां षट्सुभद्रासु कस्यां भद्रायामितिज्ञानं प्रथमाकृन्देऽप्यष्टमकादेकादशेशेषशेषैकविधिता भवेत् । एवं सर्वत्र बोध्यम् । अथ तिथिज्ञाने मतान्तर प्रतिपाद्यते । पूर्वोक्ताकृन्दे पञ्चभक्ते रूपादिशेषवशाद्यस्मिन् जन्मादिस्वरे मरणमायाति तत्स्वराधःस्था या नन्दादिका तिथिर्वर्णस्वरचक्रे भवति तस्यां मरणं वदेदेयंनक्षत्रादिकतिर्णयमपि भवेदिति कैश्चिदुद्धितम् ॥ ८६ ॥

भा० टी०—एवं पूर्वोक्तं रीति से पञ्चस्वर चक्र की रचना करके आगे कथित "रवि मन्दकुजे वर्षे" इत्यादि षोडश योगों से मृत्यु का निश्चय करके वर्ष प्रभाग की कल्पनाकरे यथान् किस द्विसप्तति ७२ दिनारमक मास में मृत्यु होगी । इसका ज्ञान प्रकार पूर्वोक्त जो "बयो, राशि, स्वराब्, "का योग है उसमें ५ पांच से भाग देने से यदि १ एक शेष हो तो उदितस्वर के वर्ष भाग में २ दो शेष रहे तो प्रमित स्वर के वर्ष भागमें एवं ३ तीन रहे भ्रान्त स्वर के वर्ष भाग में तथा ४ शेष रहे तो सन्ध्या स्वर के और ५ पांच शेष रहे तो अस्त स्वर के वर्ष विभाग में मरण कहना चाहिये । इस ७२ द्विसप्तति दिनारमक मास का

तीन विभाग करना चाहिये, जिस कोष्ठ में मरण प्राप्त हो उस कोष्ठ के उर्ध्व स्थान में शून्य हो प्रथम विभाग में मध्य में शून्य हो तो द्वितीय स्थान में तथा यदि नोचे के स्थान में शून्य हो तृतीय भाग में मृत्यु होती है । यदि तीनों स्थान में अथवा दो स्थान में शून्य हो तो वर्षेशों के बलाबल के अनुसार प्रथम द्वितीय अथवा तृतीय भाग में मृत्यु कहना चाहिये । अथ उत्तरार्ध से नन्दादि तिथियों का ज्ञान कहते हैं । पूर्वोक्त योगांक में ५ के भाग देने से यदि १ शेष बचे तो नन्दा तिथि में २ शेष बचे तो मद्रा तिथि में एव तीन शेष से जया तिथि में ४ शेष से रिषा तिथि में ५ शेष से पूर्ण तिथि में मरण कहना चाहिये ॥ ८६ ॥

अथ तिथ्यादि ज्ञानमाह—

पड्भिर्भक्त्वा तिथिर्ग्राह्या वारो ग्राह्यश्च सप्तभिः ।

पक्षेन्दुशेषिते लग्नं घटीभिश्च घटीं घदेत् ॥ ८७ ॥

अथ प्रथमाङ्कवृन्दं पड्भिर्भक्त्वा शेषमिता तिथिर्ग्राह्या तथा तदङ्कवृन्दं सप्तभिर्भक्त्वा शेषमिती वारो ग्राह्यदिवारो ग्राह्यः । तदङ्कवृन्दे पक्षेन्दुशेषिते द्वादशशेषिते सति लग्नं वदेत् । तदङ्कवृन्दे घटीभिर्लग्नप्रमाणदण्डैर्भक्ते सति शेषाच्च घटीमर्षाच्छेषतुल्ये लग्नदण्डे मृत्युं वदेत् । अयं भावः । तत्र तिथ्या-नयनं पूर्वश्लोकार्थव्याख्यानावसरे स्फुटं वर्णितमेव । तदङ्कवृन्दे सप्तभक्ते रूपशेषे रविवासरः । द्विशेषे चन्द्रवासरः । त्रिशेषे कुज-वेदशेषे शुभः । पक्षशेषे गुरुः । रसावशेषेशुक्रः । सप्तशेषे शनिः । पक्षान्तरे “वारो ग्राह्यस्तुपञ्चभिरित्यन्ये” तत्रैकशेषे रविभौमी द्वौ चेतदा चन्द्रबुधौ त्रयश्चेद्गुरुशतघारधतदा शुक्रः । पञ्चमिनावशेषे शनिरिति बोध्यम् । अथ लग्नानयनमुच्यते । तदङ्कवृन्दे द्वादशभिर्भक्ते सति रूपशेषे मेघलग्नं तथा द्वादशावशेषे मीनलग्नमेवान्यदपि बोध्यम् । तदङ्कवृन्दे लग्नप्रमाणदण्डैर्भक्ते शेषमिती तल्लग्नदण्डे मृत्युः स्यात् । अत्र वारादौ नियमो नास्ति किन्तु तिथिपर्यन्तमेव मृत्युकारणं घटेदिति ज्योतिर्विदां सम्प्रदायः ॥ ८७ ॥

भा० टी०—पूर्वं श्लोक से नन्दादि तिथियों का ज्ञान हुआ परस किस

नन्दा तिथि वा क्विभद्रादि तिथि को मरण होगा इससे इसका ज्ञान बताते हैं । पूर्वोक्त जो प्रथमांक योग ( बसो राशि स्वरांक योग ) में ६ से भाग दे यदि १ शेष हो प्रथम नन्दा ( अर्थात् शुक्ल पक्ष के प्रतिपद ) को एवं प्रथम भद्रादि तिथियों ( शुक्लपक्ष के २, ३, ४, ५, तिथियों ) को मरण होगा एवं दो शेष हो तो द्वितीय नन्दादि तिथियों ( शुक्लपक्ष के ६।७।८।९।१० ) को मरण होगा । अर्थात् प्रथम श्लोक से नन्दा तिथि का ज्ञान हुआ पुनः पूर्वोक्त योग में ६ से भाग दिया तो यदि १ शेष रहा तो प्रथम नन्दा अर्थात् शुक्ल पक्ष के प्रतिपद को २ शेष से द्वितीय नन्दा अर्थात् शुक्लपक्ष के ६ पष्टी को ३ शेष से शुक्ल पक्ष के ११ एकादशी को चार शेष से कृष्ण पक्ष के प्रतिपद को, ५ शेष से कृष्ण पक्षकी षष्ठी, ६ शेष हो तो कृष्ण पक्ष के ११ एकादशी को मरण कहना चाहिये एवं भद्रादि तिथियों का भी पृथक् पृथक् निश्चय करना चाहिये ।

अथ वारानयन—पूर्वोक्त प्रथमांक योग में ७ से भाग दे यदि १ शेष रहे रविवार २ शेष से चन्द्रवार ३ शेष से मंगलवार एवं ४।५।६।७ शेष से क्रमशः बुध गुरु शुक्र शनिवार जानना चाहिये । परशु दैवज्ञान प्रायः तिथि ज्ञान ही पर्यन्त आदेश करते हैं वार ज्ञान को नहीं आदेश है ।

लग्नानयन ज्ञानमाह—एवं पूर्वोक्त योग में १२ का भाग दे यदि १ शेष बचे तो मेष तथा दो शेष से मृग एवं ३ तीन आदि शेष से मियुनादि लग्न जानना चाहिये ।

तथा घटीभिध पटी वदेत् अर्थात् जब लग्न का ज्ञान हो गया तो पूर्वोक्त योगांक में लग्न प्रमाण दण्ड से भाग देकर शेष परिमित तुल्य उस लग्न में भी दण्ड गत जानना चाहिये ।

अथ पूर्वोक्तयोगाङ्क के क्षेपमाह—

एकं देयं तु द्वयं वा त्रयं वा इति सङ्ग्रहे ।

न द्वयं वा न द्वयं वा मध्ये चेच्छुक्लं शृणयोः ॥ ८८ ॥

यदा जन्मकाले चन्द्रः पूर्णबलस्तदा साधिते तदङ्कान्दे चैकं योग्यम् ।

यदा जन्मसमयेचन्द्रः क्षीणबलस्तदा तदङ्गुलान्दे चैकं हेयं शोध्यम् । एव शुक्ल-  
कृष्णयोर्मध्ये यदा जन्म किन्तुसमबले चन्द्रे यदा जन्मस्तदा न योज्यं नशोध्यं  
किन्तु यथास्थितमेव । अत्र शुक्लदशमीभारभ्य कृष्णपञ्चमी यावत्पूर्णबलच-  
न्द्रः । एवंकृष्णपट्टीभारभ्य दशान्तं यावत्क्षीणचन्द्रः । शुक्लप्रतिपदारभ्य दशमी  
यावन्मध्यमचन्द्रः । अत्र तिस्रसङ्ग्रह इतिपाठान्तरे केविदेवं वर्णयन्ति  
जन्मकाले वर्षाधिपचन्द्र पूर्णबलो वर्षेचैकं देयम् । यदि जन्मकाले वर्षेशसम्ब-  
न्धाभायचन्द्रः पूर्णबलस्तदा त्रिषावैकं देयम् । अन्यत्पूर्वदिति ॥ ८८ ॥

भा० टी०—यदि जन्म काल में चन्द्रमा पूर्ण बलवान् हो तो पूर्वोक्त साधित  
योगांक में ( वयोराशि स्वरांक योग में ) १ एक योग करे । यदि क्षीण बल  
हो तो योगांक में १ घटाना चाहिये एवं शुक्ल कृष्ण के मध्य अर्थात् चन्द्रमा  
सम बल युक्त हो तो न जोड़ना चाहिये और न घटाना चाहिये ।

अथ निघनस्य योगचक्रजान्पोडशयोगानाह—

रविमन्दकुजे वर्षे राहौ वा द्वित्रि सस्थिते ।

सप्त शून्यानि चैतत्र मृत्युर्भवति नान्यथा ॥ ८९ ॥

पूर्वविहिते पताकोचक्रत्रये चेद्यदि रविमन्दभौमा वर्षेशाः स्युर्वा राहौ  
द्वित्रिसंस्थिते वर्षेशद्वये वा वर्षेशत्रये प्राप्ते सति पुनर्यदि योगजचक्रे सप्त  
शून्यानि भवन्ति तत्र वर्षे तदाऽवश्यं मृत्युर्भवति । अन्यथा कथितयोगामात्र  
स्तदा न मृत्यु ॥ ८९ ॥

तथा च खना वाक्यम्—

सातशून्यबहुतरपापा ताहा जीवन नहि रे बापा ।

हँसे रोले नाकरे भिला अवश्य हँसा करे पयाना ॥ १ ॥

रे बापा अहो तान् यत्रसातशून्यशून्यसप्तकं पुनर्यदि बहुतरपापा त्रयोपि  
वर्षशाः पापाः स्युः । तहा तत्र जीवन प्राणो नहि नतिष्ठति । तत्र हँसा जीवो  
हस हास्यं रोलेरोलन नाकरे न करोति किञ्चावश्यं भिलास्वर्गाय पयाना प्रयाणं  
करे करोति ॥ १ ॥

७ यथाहः—मारो तु शुक्ल प्रतिपत्प्रवृत्तेः पूर्वे शशी मध्यबलोद्ग्राहे ।

घेष्ठा द्वितीमेऽल्प बलस्तृतीये शीमेऽथ दृष्टो बलवान्सदैव ॥ १ ॥

भा० टी०—यदि पूर्व कथित तीनों पताकी चक्रों ( केतुपताकी, केतु-कुण्डली और गुरु कुण्डली चक्र ) में सूर्य, मंगल और शनि वर्षेश हो अथवा दो या तीन प्रकार से राहु वर्षेश हो और जन्मादि कोष्ठ साधन चक्र में यदि सात शून्य हो तो अवश्य मृत्यु होती है । अन्यथा यदि कथित योग का अभाव हो तो मृत्यु नहीं होती है किन्तु अरिष्ट मात्र होता है ॥ ८९ ॥

भा० टी०—जहाँ ( जिस वर्ष ) सात शून्य हो तथा तीनों वर्षेश पाप ग्रह हों बाप रे बाप ? वहाँ ( उस वर्ष ) प्राण नहीं रहता है । वहाँ प्राण ( जीव ) हँसता खेलता नहीं है किन्तु यात्रा ( कूच ) कर जाता है ॥ ९ ॥

अथवा पाप संयुक्ते दश शून्यानि सन्ति चेत् ।

तदा मृत्युं ब्रजेदेव देवराज समोपि वा ॥ ९० ॥

सं० टी०—अथ वा प्रकारान्तरेण पापसंयुक्ते किन्तु वर्षेशत्रये पापे सति पुनर्यदि योगचक्रे राहुरूपाणि दश शून्यानि भवेयुस्तदा देवराजसमोपि शक्रतुल्योपि नरो मृत्युं ब्रजेत्प्राप्नोति वा निश्चयार्थं ॥ ९० ॥

भा० टी०—अथवा वर्षेश तीनों पाप ग्रह हों तथा जन्मादि कोष्ठ साधन चक्रों में १० शून्य हो तो इस योग में इन्द्र तुल्य पराक्रमी व्यक्ति की भी मृत्यु होती है ॥ ९० ॥

योगान्तरमाह—

आदौ चन्द्रो द्वि शून्यं च अन्ते कुज चतुष्टयम् ।

मथ्ये बुध प्रयं चैव गुरोर्मध्येथ वा रयिः ॥ ९१ ॥

पापद्वये त्रये वापि संयुक्ते ह्यायनेऽपि च ।

मरणं तत्र घक्तव्यं नात्र कार्या विचारणा ॥ ९२ ॥

आदौ प्रथमे चन्द्रस्ततो द्विशून्यं स्थानद्वये शून्यम् । पुनर्यदि चान्ते बुधचतुष्टयं चत्वारो मङ्गलाः । पुनर्यदि मथ्ये मध्यकोष्ठे बुधप्रयं त्रयो बुधाः । तत्र गुरोर्मध्ये रविर्वा पुनर्यदि ह्यायने वर्षे पापद्वये वा पापत्रये संयुक्ते सद्विते सति । तदा तत्र वर्षे मरणं वक्तव्यं कथनोपयम् । अत्र विचारणा न कार्या ।



अग्नेदमवधेयम् । जन्मकोष्ठे चोर्ध्वस्थाने द्वितीयाङ्गरूपधन्द्रः । तथा जन्मकोष्ठे मध्याधः स्थानद्वयेऽपि शून्योपलक्षितो राहुः । अन्त्येसर्वाधःस्थाने कर्मादि कोष्ठ-  
चतुष्टयेपि त्र्यंकरूपो मङ्गलः । पुनर्यदि मध्ये जन्मरन्ध्रकाष्ठयोर्मध्ये किन्तु  
कर्मादिकोष्ठत्रयेपि मध्यस्थाने च चतुर्धाकरूपा बुधः । अवशेषस्थानेषु पञ्चसु  
प्रहनियमामाव । अत एव जातं तच्चक्रस्य रूपम् ।

प्रथम चक्रम् ।

जन्म	कर्म	आधान	पिण्ड	छिद्र
२				
०	४	४	४	
०	३	३	३	३

सं० टी०—अथवा कर्मादिकोष्ठचतुष्टयेपि गुरोर्मध्ये रविःस्वादर्शादूर्ध्वा-  
न्त्यस्थानद्वये पश्चाकरूपो गुरुस्तथा मध्यस्थाने चैकाङ्करूपो रवि । तदापि योगो  
भवत्यर्थाथवा प्रदर्शितकुजबुधनिवेशेन वशाघरफल सरफलमेवार्कगुहनिवेशजे  
योगे स्यात् । पुनर्यदि पताकीत्रयजानां वर्षेशानां मध्ये प्रयः पापा स्युर्वा द्वी  
पापी तदा मरणं स्यात् । अत्र वर्षेशानां मध्ये कथितपापामावस्तदा मरणस्य  
विचारणा न कार्याऽर्थात्तत्रमरणं न स्यात् । अत्र केचिदेवं वदन्ति । पूर्वोक्तपद्हा-  
नियमस्थानेषु स्थानद्वये किन्तु कर्माधानकोष्ठयोः । वा कर्मपिण्डयोः । कर्मर-  
न्ध्रयोः । आधानपिण्डयोः । आधानछिद्रयोः । एकत्रिशून्याकौपलक्षित १।३।०  
पाप । अथवा पापत्रये स्थानत्रये पापः स्यादर्थात्कर्माधानपिण्डेषु । तथा कर्मा-  
धानच्छिद्रेषु । वा कर्मपिण्डच्छिद्रेषु । वा आधानपिण्डच्छिद्रेषु । यथा संभव  
पापः स्यात् । तत्र हायने वर्षं मरणं कथनीयम् । एवं सति तत्राप्ते किं भवि-  
ष्यतीति विचारणा न कर्तव्या किन्त्ववश्यं तदा मृत्युर्भवति । परमोद् परमतं  
नादरणीयमिति सपीभिर्विभाष्यम् । अतः “अथवा पापसंयुक्तेजायते संशयो-  
महान्” इति पापवर्षे संशये प्राप्ते सति तस्मिन्नाय मेऽसिक्तचक्रप्रयानयनं विधि-

तमर्थात्पापवर्षाभावे सति तच्चक्रत्रयमपि न विचारणीयमिति । अत्र पूर्वोक्तमेव समीचीनं स्यादिति मम मतम् ॥ ९१ ॥ १२ ॥

भा० टी०—जन्म कोष्ठ के प्रथम स्थान में चन्द्रमा हो ( अर्थात् २ अङ्क हो ) तथा शेष दो स्थानों शून्य हो तथा अन्त में चार मंगल हो अर्थात् कर्मादि चारों कोष्ठके तृतीय स्थानमें ३ सङ्ख्योपलक्षित मंगल हों और मध्यके तीन स्थानों में ४ सङ्ख्योपलक्षित बुध हो अर्थात् कर्म आधान और पिण्ड कोष्ठों के मध्य स्थान में बुध हो ( जो कि उपरोक्त चक्र में स्पष्ट है ) तथा शेष जो पांच स्थान है उनमें चाहे कोई ग्रह हो । अथवा कर्मादि चारों कोष्ठ में गुरु के मध्य में रवि हो अर्थात् उर्ध्वाधर स्थानों गुरु में हो तथा मध्य में रवि हो ( यह नीचे लिखे गये चक्र में स्पष्ट है ) ऐसी यदि चक्र की स्थिति हो और वर्ष में भी दो पापग्रह वर्षेश हों अथवा तीनों वर्षेश पापग्रह हों तब मृत्यु होती है । अन्यथा यदि ऐसे वर्षेश न हों तो मृत्यु नहीं होती है ॥ ९१ ॥ १२ ॥

द्वितीय चक्रम् ।

ज	क	आ	पि	छि
२	५	५	५	५
०	१	१	१	१
०	५	५	५	५

योगान्तरमाह—

स्थानत्रये यदा सूर्यः सूर्यादौ शून्ययुग्मकम् ।

अवश्यं मरणं चैव तस्मिन् वर्षे भवेत्तदा ॥ ९३ ॥

यदा स्थानत्रये सूर्यः पताकीत्रये वर्षेशाः सूर्याः । तथा यदि पञ्चस्वरेषु चादौ सूर्यस्वदमे सर्वत्र शून्यद्वये तदा तस्मिन् वर्षेऽवश्यं मृत्युः ॥ ९३ ॥

भा० टी०—तीनों ( पताकी चक्रों से ) वर्षेश रवि हो तथा जन्मादि पञ्चस्वरा चक्र में आदि स्थानों में सूर्य हो तथा शेष दो स्थान शून्य से युक्त हो तो उस वर्ष अवश्य मृत्यु होती है ॥ ९३ ॥

चक्रम् ।

ज	क	। आ	पि	डि
१	१	१	१	१
०	०	०	०	०
०	०	०	०	०

योगान्तरगाह—

बुधेपि शून्ययुगले रवौ वर्षशतां गते ।

बुधेप्यन्तर्गते चैव मरणं तन्न संशयः ॥ ९४ ॥

यदि रवौ वर्षशतां गते पताकीत्रयेपि वर्षेशः सूर्यः । तथा पयस्वरेषु चादौ बुधे सति ततः शून्ययुगले शून्यद्वयं स्यादयमेको योगः । यदि पयस्वरेषु मध्ये बुधस्वराऽऽदावन्ते च शून्यद्वयं पुनर्बुधे पताकीत्रयोत्थो वर्षेशः सूर्यः । तदा मरणं स्यादिति संशयो न । तयोक्तमन्यैः “शः शून्ययुगमथ बुधः खमध्येऽर्के-  
न्देधरे तत्र निमीलने स्यात् । खमध्ये शून्य द्वयमध्ये बुधः । निमीलनं मरणं स्यादन्वत्सुगमम् ॥ ९४ ॥

भा० टी०—यदि तीनों पताकी चक्रों में वर्षेश रवि हो तथा यदि पयस्वरा चक्र में सभी आदि स्थानों में बुध हो तथा शेष स्थानों में शून्य हो तो मृत्यु होती है । अथवा पयस्वरा चक्र में सभी मध्य स्थानों में बुध हो तथा शेष उर्ध्वाधर सभी स्थान शून्य हो युक्त हो ( तथा तीनों प्रकार से वर्षेश रवि हो ) तो अवश्य मृत्यु होती है ॥ ९४ ॥

प्रथम चक्रम् ।

जन्म	कर्म	आधान	पिण्ड	छिद्र
४	४	४	४	४
०	०	०	०	०
०	०	०	०	०

## द्वितीय चक्रम् ।

जन्म	कर्म	आधान	षष्ठ	छिद्र
०	०	०	०	०
४	४	४	४	४
०	०	०	०	०

अथ योगान्तरमाह—

गुरौ शून्यद्वये प्राप्ते कुजश्चान्ते भवेद्यदि ।

प्राणत्यागो भवेत्तत्र पापे वर्षेशतां गते ॥ ६५ ॥

पापे वर्षेशतां गते पताकीत्रये पापा वर्षेशा । तथा यदि पञ्चस्वरमध्ये चादौ गुरौ शून्यद्वये प्राप्ते गुरु शून्यद्वयसंयुतः । तथाऽन्ते छिद्रकोष्ठे सर्वाध-स्थाने च कुज स्यात् । तत्र प्राणत्यागो भवेत् ॥ ६५ ॥

भा० टी०—यदि तीनों पताकी चक्रों में वर्षेश पापग्रह हों तथा यदि पञ्चस्वरा चक्र में आदि कोष्ठ ( जन्म कोष्ठ ) में बृहस्पति दो शून्य से युक्त हो तथा अन्त में अर्थात् छिद्र कोष्ठ के अन्त में ) यदि मंगल हो तो अवश्य मृत्यु होती है ॥ ( शेष स्थानों में कोई ग्रह हो ॥ ६५ ॥

जन्म	कर्म	आधान	षष्ठ	छिद्र
५				
०				
०				३

तथा खनावाक्यम्—

गुरु प्रथम दुर्दृश्य आहसे अन्त्ये कुज काले पसे ।

हसे खेलै नाकरे भिजा अवश्य हँसा करे पयाना ॥ २ ॥

प्रथमगुरु प्रथमं गुरुः । ततो दुःखं शून्यं शून्यद्वयं आइसे आयाति ।  
तथा अन्ये कुज छिद्रकोष्ठेऽधः स्थाने मङ्गलः । तदा कालपेसे तस्य मरस्य  
कालप्राप्तं किन्तु मरणम् । अन्यत्पूर्ववत् ॥ २ ॥

भा० टी०—उपरोक्त अर्थ से तथा चक्र से स्पष्ट है ॥ २ ॥

योगान्तरमाह—

शून्यद्वये कुजे प्राप्ते चान्त्येपि कुजसम्भवे ।

विशेषेण मृतिर्ज्ञेया वर्षे वै पाप संयुते ॥ ९६ ॥

कुजे शून्यद्वये प्राप्ते पञ्चस्वरेष्वादी शून्यद्वयविशिष्टः कुजः । तथाऽन्ते  
छिद्रकोष्ठेऽधः स्थानेपि कुजसम्भवे सति कुजस्य स्थितिः स्यात् । पुनर्यदि पाप-  
संयुते वर्षे पताकीत्रये पापा अद्देशाः स्युः । तत्र विशेषेण मृतिर्ज्ञेया । तथान्यै-  
रुक्तम् “शून्ये कुजधान्तपगतः कुजधेति ॥ ९६ ॥

भा० टी०—यदि पञ्चस्वरा चक्र में आदि स्थान में मंगल शून्य द्वय  
करके युक्त हो तथा अन्त में भी मंगल हो तथा यदि तीनों पताकी चक्र में  
पाप ग्रह वर्षेश हो तो अवश्य मृत्यु होती है ( शेष स्थानों में कोई  
ग्रह हों ) ॥ ९६ ॥

चक्रम् ।

जन्म	कर्म	आधान	पिण्ड	छिद्र
३				
०				
०				३

योगान्तरमाह—

शुके शून्यद्वये प्राप्ते वर्षे वै पापसंयुते ।

द्वितीयस्वरसंयोगे मरणं तस्य निश्चितम् ॥ ९७ ॥

पापसंयुते वर्षे पताकीप्रयोक्त्या वर्षेशाः पापाः । पुनर्यदि द्वितीयस्वरसंयोगे शून्यद्वये प्राप्ते शुके सति किन्तु कर्मकोष्ठस्वरे चादौ शुकेस्तथा शून्यद्वयं च स्यात् तदा तस्य भरणं निश्चितमिति । प्रथान्तरे चास्मिन् योगे कुजसम्बन्ध उक्तः शुक्रः सयुग्मं रुपिरोऽथवेति ॥ ९७ ॥

भा० टी०—यदि तीनों पताकी चक्र से वर्षेश पाप ग्रह हों तथा द्वितीय स्वर अर्थात् कर्म स्वर के कोष्ठ में शुक्र दो शून्य से युक्त हो तो भवदम् मृत्यु होती है ॥ ९७ ॥

जन्म	कर्म	आधान	पिण्ड	छिद्र
	९			
	०			
	०			

शेष कोष्ठों में कोई ग्रह हो ।

योगान्तरमाह—

प्रथम त्रीणि शून्यानि छिद्रे च कुजसंस्थितिः ।

वर्षे तत्क्लेशदं क्षेयं शुभयोगे शुभप्रदम् ॥ ९८ ॥

प्रथमं जन्मकोष्ठे त्रीणि शून्यानि चोर्ध्वमध्वाप स्थानेषु शून्यानि । तथा यदि छिद्रकोष्ठेऽथ स्थाने कुजसंस्थितिर्मङ्गलत्वावस्थानं स्यात् । तथाऽब्देशाश्च पापास्तदा तद्वर्षं क्लेशदं क्षेयम् । तत्र योगे शुभयोगे सति किन्तु यदा वर्षेशाः शुभास्तदा तद्वर्षं शुभप्रदं क्षेयमिति ॥ ९८ ॥

भा० टी०—यदि पञ्च स्वरा चक्र के, जन्म कोष्ठ में तीनों स्थान शून्य से युक्त हो तथा छिद्र कोष्ठ के अन्त में मंगल हो तब यदि वर्षेश पाप ग्रह हों तो क्लेश होता है अन्यथा यदि वर्षेश शुभ ग्रह हों तो वह वर्ष शुभ प्रद होता है ॥ ९८ ॥

जन्म	कर्म	आधान	पिण्ड	छिद्र
०				
०				
०				३

शेष कोष्ठो मे' कोई  
ग्रह हो ।

पुनर्भोगान्तरमाह --

दश शून्यानि यत्र स्युर्घर्षे वै गुरु शुक्रयोः ।

फलेश भात्रं विजानीयाज्जोवने नात्र संशयः ॥ ९९ ॥

गुरुशुक्रयोर्वर्षे किन्तु गुरुशुक्रौ वर्षेशौ तथा यदि पञ्चस्वरेषु यत्र कुत्रचि  
दश शून्यानि स्युः । तदा तत्र वर्षे क्लेशमार्त्तं विजानीयात् । तत्र जोवने  
प्राणधारणे संशयो न स्यात् । अर्थान्मृत्युर्नेति बोध्यम् ॥ ९९ ॥

भा० टी०—जिस वर्ष में वर्षेश बृहस्पति तथा शुक्र हो तथा पञ्चस्वरा  
चक्र में जन्मादि सभी कोष्ठों में मिलकर दश शून्य हो तो उस वर्ष में क्लेश  
मात्र होता है ॥ मृत्यु नहीं होती है ॥ ९९ ॥

योगान्तरं दर्शयति—

छिद्रे बुधे द्वये शून्ये जन्मनि ह्यद्वये कुजे ।

शुके कर्मणि शून्ये द्वे मृत्यु भवति नान्यथा ॥ १०० ॥

छिद्रे छिद्रकोष्ठे चादौ बुधे ततो मध्यस्थः स्थाने शून्ये द्वये सति तथा  
जन्मनि जन्मकोष्ठे शून्ये बुधद्वये कुजे सति किं कुजः स्यात् । तथा शुके  
कर्मणि कर्मकोष्ठे द्वे शून्ये शून्यद्वयं स्यात् । तदा मृत्युर्भवति । अन्यथा न  
स्यात् ॥ १०० ॥

भा० टी०—यदि पञ्चस्वरा चक्र के छिद्र कोष्ठ के प्रथम स्थान में  
बुध और मध्य तथा अन्त कोष्ठ में शून्य हो तथा जन्म कोष्ठके प्रथम द्वितीय  
स्थान में बुध तृतीय स्थान में मंगल और कर्म कोष्ठमें शुक्र दो शून्य करके  
बुध हो तो अवश्य मृत्यु होती है अन्यथा नहीं होती है ॥ १०० ॥

## चक्रम् ।

जन्म	कर्म	आधान	पिण्ड	छिद्र
४	६			४
४	०			०
३	०			०

शेष कोष्ठो में  
कोई ग्रह हो ।

योगान्तरमाह—

जन्मन्यर्कगुरु कर्मण्यथ राहु दिवाकरौ ।

आधाने मन्द भौमौ च जन्तोर्मरणमादिशेत् ॥ १०१ ॥

जन्मनि जन्मकोष्ठे ऽर्कगुरु तथा कर्मणि कर्मकोष्ठे राहुदिवाकरौ स्याताम् ।

पुनर्गदि चाधाने मन्दभौमौ शनिमङ्गलौ स्त । अत्रापि यदि वर्षेशाः पापाः  
स्युरित्यनुक्तमपि बोध्यम् । तदा जन्तोः पुरुषस्य मरणं वदेत् प्रन्थान्तरेप्युक्तम्  
'जन्तुषि प्रपन्नपूज्यौ कर्मण राहुर्मानुष्य कर्मण्यवनिजरविजौ चेतृतीये स्वरे स्यान्मृत्यु  
रिति' ॥ १०१ ॥

यदि पञ्चस्वरा चक्र के जन्म कोष्ठ में सूर्य, बृहस्पति कर्म कोष्ठ में राहु  
सूर्य और आधान कोष्ठ में यदि शनि मंगल हो तो ( यदि वर्षेश पाप ग्रह  
हों तो ) मरण होता है ॥ १०१ ॥

## चक्रम् ।

जन्म	कर्म	आधान	पिण्ड	छिद्र
१	०	७		
५	१	३		

शेषकोष्ठो कोई ग्रह हो ।



योगान्तरं दर्शयति—

विधूराह विधूश्चेति योगो वाऽन्योन्य सम्भवे ।

गुरुचन्द्रशनेर्वर्षे तदापि मृत्युमादिशेत् ॥ १०२ ॥

अत्र पशुसु कोष्ठेषु विधुराहू तथा विधुः पुनश्चन्द्र इत्येषां परस्परसम्भवे घृति यदि योगः । अर्थात्पशुसु कोष्ठेषु प्रथमं चन्द्रस्तदग्रे राहुस्तदग्रे चन्द्र इति । तथा गुरुचन्द्रशनेर्वर्षे गुरुचन्द्रशनीनां वर्षे तदापि मृत्युमादिशेत् । कथं येत् ॥ १०२ ॥

भा० टी०—यदि पञ्चस्वरा चक्र में जन्मादि सभी कोष्ठों में क्रमशः चन्द्रमा राहु और चन्द्रमा हों तथा बृहस्पति चन्द्रमा और शनि वर्षेश हों तो अवश्य मृत्यु होती है ॥ १०२ ॥

चक्रम् ।

जन्म	कर्म	आधान	विण्ड	छिद्र
२	२	२	२	२
०	०	०	०	०
२	२	२	२	२

योगान्तरमाह—

पापद्वयान्विते वर्षे शून्यपट्टकं भवेद्यदि ।

कुजध्वान्ते भवेद्यस्य तस्य मृत्युर्न संशयः ॥ १०३ ॥

वर्षे पापद्वयान्विते सत्यर्थात्पताकीत्रयोस्थानां वर्षेशानां मध्ये पापद्वयं तथा यदि पञ्चस्वरेषु राहुरूपं शून्यपट्टकं भवेत् । तथा यदि चान्ते छिद्रकोष्ठेषु स्थाने कुजो मङ्गलः । एवं सत्य भवेत्तस्य तदा मृत्युः स्यादिति संशयो न स्यात् ॥ १०३ ॥

भा० टी०—यदि पताकी चक्रों से दो पाप ग्रह वर्षेश हों ( तीनों वर्षेशों में से कोई दो पाप ग्रह वर्षेश हों ) तथा पञ्चस्वरा चक्र के जन्मादि सभी कोष्ठों में मिलकर ६ शून्य हो और छिद्र कोष्ठ के अन्त में यदि मंगल हो तो अवश्य मृत्यु होती है इसमें सन्देह नहीं ॥ १०३ ॥

तथा च खनावाक्यम्—

दुइ पाप षट् शून्य तदीशाः अन्ते कुज काल परे ।

हैसे खोलै नाकरे भित्ता अवश्य हँसा करे पयानः ॥ ३ ॥

दुइ पाप षण्शून्य पापरूप तथा षट्शून्यं शून्यषट्कं यथा अन्ते कुज छिद्रकोष्ठाधः स्थाने कुजो भवेत् । तदा कालपरे मृत्युर्भवेत् । उत्तरार्धस्यार्धः पूर्ववदवधेयः ॥ ३ ॥

स्पष्टम् ।

योगान्तरं दर्शयति—

बुधत्रयं कुजद्वयं दश शून्यं भवेद्यदि ।

मन्दाकार युते वर्षे राहौ वा स्यात्तदा मृतिः ॥ १०४ ॥

वर्षे मन्दाकारयुते पताकीत्रये क्रमेण शनिरविमौमा वा राहुर्वर्षेशाः । तथा पञ्चस्वपुरे बुधत्रयं तथा त्र्यङ्गरूपं भौमद्वयम् । तथा यदिदशशून्यम् । तदा मृतिः स्यात् ॥ १०४ ॥

भा० टी०—यदि तीनों पताकी चक्र में क्रमशः शनि सूर्य और मंगल वर्षेश हों अथवा राहु वर्षेश हो तथा यदि पञ्चस्वरा चक्र के जन्मादि कोष्ठों में कहीं भी तीन स्थान में बुध और दो स्थान में मंगल हो और शेष दश कोष्ठों में शून्य हो तो अवश्य मृत्यु होती है ॥ १०४ ॥

तथा च खनावाक्यम्—

तीनबुध दुइ मङ्गल आइसे लिखिआ दश शून्य जहार आइसे ।

शनि रवि मङ्गल राहु गणना सेइ धत्तर मरण बोले खना ॥ ४ ॥

तीन बुध बुधत्रयं दुइ मङ्गल मङ्गलद्वयम् । दशशून्यं दशशून्यानि लिखिआ रणयित्वा जहार यस्य आइसे आगच्छेयुः । शनिरविमङ्गलराहुगणना शनिरविमङ्गलानां वा राहोश्चाब्देश मध्ये गणना स्यात् । सेइ धत्तर तस्मिन्नेव वर्षे मरणबोले मरणं वदति ॥ ४ ॥

। भा० टी०—पूर्व श्लोक के अर्थ से स्पष्ट है ॥ ४ ॥

योगान्तरमाह—

पञ्च स्वरे यदा भौमः पञ्चमः सप्तमो भवेत् ।

पाप प्रयान्विते वर्षे तथैव मृत्युमादिशेत् ॥ १०५ ॥

पञ्चस्वरे पञ्चस्वरमध्ये यदा भौमः पञ्चमः पञ्चमस्थानगतः किन्तु कर्मकोष्ठ-  
स्य मध्यस्थानेस्थितः । तथा सप्तमः सप्तमस्थानगतः किञ्चाधानकोष्ठस्योर्ध्वस्थाने  
स्थितो भवेत् । तथा यदि पापप्रयान्विते वर्षे सस्यर्थात्पताकीत्रयोत्पा अङ्गदेशाः  
पापाः स्युः । तथैव मृतिमादिशेत् । तथान्यैरप्युक्तम् ।

‘भौमो यदा कर्मणिमध्यगः स्यात्कोष्ठे तृतीये प्रथमो भवेत्सः ।

मृत्युप्रजेदेवहिं हायनेऽस्मिन् तथैव पापत्वमस्युतेऽन्द इति’ ॥ १०५ ॥

तथा च खनावल्यम्—

मङ्गल सप्तमः पञ्चमः वा प्रमाण,

जीवन मरण स्फुट तत्क्षण जान ॥ ५ ॥

स्पष्टम् ॥ ५ ॥

भा० टी०—यदि पञ्चस्वरा चक्र के पञ्चम तथा सप्तम स्थान में  
( अर्थात् कर्म कोष्ठ के मध्य में और आधान कोष्ठ के प्रथम स्थान में )  
यदि मङ्गल हो और पताकी चक्रों से यदि तीनों वर्षों पाप ग्रह हों तो उस  
वर्ष में अवश्य मृत्यु होती है ॥ १०५ ॥

विशेषमाह—

पापग्रहदशायान्तु पापस्यान्तर्दशा यदि ।

अरियोगे भवेन्मृत्यु मित्रयोगे न सशय ॥ १०६ ॥

यदा पापग्रहस्य महादशायां पापग्रहस्यैवान्तर्दशा भवेत् । तद्ग्रहदश्यारि-  
योगे सत्यर्थात्तयोर्दशान्तर्दशास्वामिनोः शत्रुत्वे मृत्युर्भवेत् । यथा यदि तयो-  
र्मित्रयोगे मित्रत्वे मृति संशयो न स्यादर्थात्मृत्युर्न स्यात् । किन्तु क्लेशमार्त्रं  
स्यात् । अत्र शुभदशायामप्यरियोगे मृत्युः स्यादिति ॥ १०६ ॥

भा० टी०—यदि पाप ग्रह की दशा में पाप ग्रह की अन्तर्दशा हो तथा दशा नाथ और अन्तर्दशा के स्वामी परस्पर शत्रु हो तो उस अन्तर्दशा में मृत्यु होती है । अन्यथा यदि दशा और अन्तर्दशा के स्वामियों परस्पर मित्रता हो तो मृत्यु नहीं होती है परन्तु क्लेश अवश्य होता है ॥ १०६ ॥

उपसंहार भाह—

ज्योतिर्विदः प्रपश्यन्तु ग्रहाणां सुविचारकाः ।

पञ्चस्वरादितो यद्वै सङ्गं गृहीतं सुनिश्चितम् ॥ १०७ ॥

ग्रहाणां सुविचारका ज्योतिर्विदः ज्योतिः शास्त्रज्ञा इदं प्रपश्यन्तु । पञ्चस्व-  
दितः पञ्चस्वरावलम्बनवशान्मया प्रजापतिदासनाम्ना गणकेन यच्छुभाशुभं  
सुनिश्चितं सुनियतं सङ्गगृहीतमिति । अत्रायमाशयः । जन्मलग्नस्य पापविदे  
पापग्रहाणां यामार्घदण्डयोजनम् चायं सर्वभरणयोगानां सहायकः । तथा  
विद्वेष्वरोपि—

“यत्राच्ये बहवः क्रूराः सौम्या न्यूनाश्च यत्र हि ।

तत्र क्लेशं विजानीयात्कार्यमात्रेण सशयः ॥ १ ॥

स्वोच्चादिपदगाः क्रूराः सदा सफलदायकाः ।

नीचादिपदगाः सौम्या न शुभाः सर्वथा नृणाम् ॥ १०७ ॥

इति श्रीप्रजापतिदासविरचितः पञ्चस्वराख्यो ग्रन्थः समाप्तः ।



भा० टी०—मैं “प्रजापति दास” नामक ज्योतिषी अक्षरादि पाचों स्वरो’  
के आधार पर जो कुछ सग्रह करके निश्चय किया हूँ उसे श्रेष्ठ ज्योतिषी लोग ने  
विचार पूर्वक गौर से देखें । अर्थात् मेरे परिश्रम को सफल करें ॥ शुभम् ॥

इतीह मृत्यु निर्णये चलाख्यचक्रसम्भवे ॥

प्रपूर्णतां सुबोधिनी मनीषितोषकारिणी ॥ १ ॥



चन्द्रसूर्यगृहे राहुश्चन्द्रः सूर्ययुतो यदि ।

सौरिभौमेक्षितं लग्नपक्षमेकं न जीवति ॥ १ ॥

अथ बहुषु पुस्तकेषु स्थिताः श्लोकाः सङ्गृहीतरूपा ये तानपि प्रसङ्गाद्  
दृशाख्यास्यामः ।

यस्य जन्मकाले राहुश्चन्द्रमूर्यगृहे कर्कसिंहराशी स्थितः । तथा यदि चन्द्रः  
सूर्ययुतः सूर्येण सहितः । तथा यदि लग्नं जन्मकालिकलग्नं सौरिभौमेक्षितं  
शनिमङ्गलाभ्यां दृष्टम् । तदा स च बालकः पक्षं जन्मतः पञ्चदशदिनं यावन्न  
जीवति किन्तु पञ्चदशदिनाभ्यन्तरे प्राणवियोगं करोति ॥ १ ॥

भा० टी०—जिस के जन्म समय राहु कर्क अथवा सिंह राशि का हो  
चन्द्रमा सूर्य से युक्त हो और लग्न शनि तथा मंगल से दृष्ट हो तो वह बालक  
१५ दिन के अन्दर ही मृत्यु को प्राप्त करता है ॥ १ ॥

मात्रासहारिष्टयोगः—

कर्मस्थाने स्थितः सौरिः शत्रुस्थाने कला निधिः ।

क्षितिजः सप्तमस्थाने स मात्रा त्रियते शिशुः ॥ २ ॥

सं० टी० सौरिः शनिः कर्मस्थाने लग्नादशमस्थाने स्थितः । तथा यदि  
कलानिधिश्चन्द्रः शत्रुस्थाने स्थितः । पुनर्यादं क्षितिजो मङ्गल सप्तमस्थाने गतः ।  
एवं विधे योगे जातः शिशुः स मात्रा मातृसहितो त्रियते प्राणवियोगं  
करोति ॥ २ ॥

भा० टी०—जिस के जन्म समय में शनि दशम स्थान में तथा चन्द्रमा  
षष्ठ में और मंगल सप्तम स्थान में स्थित हो उस बालक की माता के साथ  
मृत्यु होती है ॥ २ ॥

अरिष्ट योगमाह—

लग्ने भास्करपुत्रश्च निघने चन्द्रमापदि ।

उतोपस्थो यदा जीयः स याति यममन्दिरम् ॥ ३ ॥

यदि भास्करपुत्रः शनिर्लग्ने जन्मलग्ने स्थितः । पुनर्यदि चन्द्रमा निघने-  
ऽष्टमे स्थितः । पुनर्यदा जीवो बृहस्पतिस्तृतीयस्थः । यत्सैवं विधे योगे जन्म  
स यममन्दिर यमगृहं मृत्युं याति प्राप्नोति ॥ ३ ॥

जिसके जन्म समय लग्न में शनि, अष्टम में चन्द्रमा और तृतीय स्थान  
में यदि बृहस्पति स्थित हो तो वह बालक शीघ्र मृत्यु को प्राप्त करता है ॥३॥  
अन्यच्च—

• होरायाः सप्तमे सूर्यः सप्तमे च शनैश्वरः ।

एकादशे गुरुः शुक्रो मासमेकं न जीवति ॥ ४ ॥

सूर्यो होरायाः किन्तु लग्नात्सप्तमे स्थितः । पुनर्यदि शनैश्वरः सप्तमे  
स्थितः । गुरुः शुक्रैकादेश स्थितः । तदा शिशुरेकं मासं न जीवति किन्तु  
मासाभ्यन्तरे जातस्य मृत्युः ॥ ४ ॥

भा० टी०—जिस के जन्म समय जन्म लग्न से सप्तम में सूर्य शनि  
और एकादश में यदि गुरु शुक्र हों तो वह बालक १ मास के अन्दर ही  
मृत्यु को प्राप्त करता है ॥ ४ ॥

अन्यच्च—

लग्नसंस्थौ शनिकुजावष्टमस्थो यदाशशी ।

भवेत्पष्टे यदा जीवो जीवनं तस्य दुर्लभम् ॥ ५ ॥

शनिकुजौ शनिमङ्गलौ लग्नसंस्थौ सः । तथा यदि शशी चन्द्रोष्टमस्थः ।  
तथा यदा जीवः पष्टे स्थितः । पष्टेऽष्टमे भवेज्जीवो ११ इति पाठान्तरे जीवः  
पष्टेऽष्टमे गतः । एवं विधे योगे यस्य जन्मतस्य जीवनं दुर्लभं स्यादर्थात्स न  
जीवति ॥ ५ ॥

भा० टी०—जिस के जन्म समय लग्न में शनि मंगल और अष्टम में  
चन्द्रमा तथा पष्ट में यदि बृहस्पति हो तो उस का जीवन दुर्लभ है ॥ ५ ॥

अन्यच्च—

अरिगेहस्थितश्चन्द्रो भास्करोपि यदा भवेत् ।

मार्कण्डेयसमोपि स्यान्मासमेकं न जीवति ॥ ६ ॥

चन्द्रस्तथा भास्करः सूर्यो यदाऽरिगेहस्थितः षष्ठस्थाने गतस्तदा मार्कण्डेय-  
समोपि मार्कण्डेयेन मुनिना दीर्घायुषा तुल्योपि नर एकं मासं न जीवति ॥ ६ ॥

भा० टी०—जिस के जन्म समय सूर्य तथा चन्द्रमा युगपत् यदि षष्ठ स्थान में हो वह एक मास जीवित नहीं रहता है, यदि मार्कण्डेय मुनिके समान भी दीर्घायु पुरुष का यदि इस योग में जन्म हो तो वह भी एक मास के अन्दर ही सुर लोक को प्राप्त करता है ॥ ६ ॥

अन्यथ—

अष्टमस्थो यदा पापः सौम्यश्चद्वादशे स्थितः ॥

तदा मृत्युं व्रजेदेव देवराज समयदि ॥ ७ ॥

यदा पापः पापग्रहो लग्नाद्दृष्टमस्थः । पुनर्यदा सौम्यः शुभग्रहो द्वादशे  
स्थितः । षष्ठाष्टमे १ इति पाठान्तरम् । तदा देवराजसम इन्द्रतुल्योपि नरो  
मृत्युं व्रजेत् ॥ ७ ॥

भा० टी०—यदि जन्म समय अष्टम में पाप ग्रह तथा द्वादश में शुभ  
ग्रह स्थित हों तो इन्द्र के समान पराक्रमी पुरुष भी मृत्यु को प्राप्त करता  
है ॥ ७ ॥

पितृभ्यासहमृत्युयोगः—

षष्ठाष्टमगतश्चन्द्रो रविजः सप्तमे स्थितः ॥

पितृमातृ विनाशो स्यान्मास मेकं न जीवति ॥ ८ ॥

चन्द्रः षष्ठाष्टमगतः । तथा यदिरविजः शनिः सप्तमस्थितः । तदैव विधे  
योगे जातः शिशुः पितृमातृविनाशी किन्तु पितृमातृविनाशकरः स्यात्तथा स्वयम्-  
प्येकं मासं न जीवति ॥ ८ ॥

जिस के जन्म समय शनि से षष्ठ अथवा अष्टम में चन्द्रमा और सप्तम  
में यदि शनि हो तो वह बालक माता पिता का नाश करके स्वयं भी १ मास  
के अन्दर ही मृत्यु को प्राप्त करता है ॥ ८ ॥

धरिष्टयोगमाह—

शुभे लग्ने यदा जातश्चाष्टमे च निशाकरः ॥

शनैश्चरश्च बन्धुस्थो द्विमासे मृत्युमिच्छति ॥ ९ ॥

सं० टी०—यदा शुभे शुभराशौ लग्ने जात उत्पन्नो नरो भवेत् । तथा यदि निशाकरश्चन्द्रोऽष्टमे गत । पुनर्यदि शनैश्चरो बन्धुस्थः “मृत्युस्थः” इति पाठान्तरे चाष्टमगतः । तदा स च नरो द्विमासे मृत्युमिच्छति किन्तु जन्मतो मासद्वयं यावन्मृत्युं प्राप्नोति ॥ ९ ॥

भा० टी०—यदि जन्म लग्न में शुभ ग्रह की राशि हो तथा अष्टम में चन्द्रमा और चतुर्थ में शनि हो तो २ मास के अन्दर ही मृत्यु होता है ॥ ९ ॥

अन्यत्र—

यस्य जन्मघिलग्नस्थाः सूर्यशुक्रशनैश्चराः ॥

द्वादशस्थो गुरुश्चैव पञ्चमासं न जीवति ॥ १० ॥

यस्य सूर्यशुक्रशनैश्चरा जन्म लग्नस्थाः स्युः । तथा यदि गुरुर्द्वादशस्थाः स च पञ्चमासं न जीवत्यर्थात्पञ्चमासाभ्यन्तरे मृत्युं प्राप्नोति ॥ १० ॥

जिस के जन्म समय जन्म लग्न में सूर्य शुक्र तथा शनैश्चर और द्वादश स्थान में यदि गुरु हों तो वह बालक ५ मास के अन्दर मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ १० ॥

अथ मातृरिष्ट योगमाह—

पूर्वमुक्तं शिशोरिष्टं मातृरिष्टमथोच्यते ॥

दिवा शुक्रो भवेन्माता रात्रौ माता च चन्द्रमा ॥ १ ॥

पूर्वार्धे स्वष्टम् । यस्य दिवा दिवसे जन्मतस्य शुक्रो माता किन्तु मातृकारकः स्यात् । एव यस्य रात्रौ जन्म तस्य चन्द्रमा माता मातृघंशकः स्यात् ॥ १ ॥

भा० टी०—प्रथमं बालरिष्टं कह कर अथ मातृरिष्ट योगों को कहता हूँ । यदि दिन में जन्म हो तो शुक्र मातृकारक और यदि रात्रि में जन्म हो तो चन्द्रमा मातृ कारक होते हैं (अथवा यों कह सकते हैं कि दिन में शुक्र माता घंशक तथा रात्रि में चन्द्रमा माता घंशक होते हैं) ॥ १ ॥



प्रसवे च दिवाभागे शुक्रे च पापसंयुते ॥

अथवा पाप सन्दृष्टे माता च म्रियते ध्रुवम् ॥ २ ॥

दिवाभागे दिवसे प्रसवे जन्मनि सति । तथा शुक्रे पापसंयुते पापग्रहसहिते सति-। अथवा शुक्रे पापसन्दृष्टे पापग्रहदृष्टे सति । जातस्य माता ध्रुवं निश्चितं म्रियते ॥ २ ॥

यदि दिन में जन्म हो और शुक्र पाप ग्रह युक्त अथवा पाप ग्रह से दृष्ट हो ( शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट न हो ) तो जातक के माता की निश्चय मृत्यु होती है ॥ २ ॥

आत्मगेहस्थितः शुक्र पापान्तः पापसंयुतः ।

अथवा पापसन्दृष्टो माता च म्रियते ध्रुवम् ॥ ३ ॥

यदि शुक्र आत्मगेहस्थितः स्वराशावर्षाद्विषतुलाराशी गत । तथा पापान्तः पापग्रहमध्यगतस्तथा पापसंयुतः । अथवा तादृशः शुक्रः पापसन्दृष्ट । तदा ध्रुवं निश्चितं माता म्रियते ॥ ३ ॥

भा० टी०—यदि षष्ठ अथवा तुला राशि स्थित शुक्र पाप ग्रहोंके मध्य में हो पाप ग्रह से युक्त हो अथवा पाप ग्रह से दृष्ट हो तो निश्चय माता की मृत्यु होती है ॥ ३ ॥

प्रसवे रात्रिसमये चन्द्रः पापग्रहेक्षितः ।

माता च म्रियते तस्य यदि पापसमन्वितः ॥ ४ ॥

सं० टी०—रात्रिसमये प्रसवे सति तथा चन्द्रः पापग्रहेक्षितः पापग्रह-सन्दृष्टः । पुनर्यदि पापसमन्वितः पापग्रहयुत । अस्यैवं विधो योगो जनो भवेत्तस्य माता म्रियते ॥ ४ ॥

भा० टी०—जिसका जन्म रात्रि के समय हो और चन्द्रमा पाप ग्रह से दृष्ट होकर पाप ग्रह से युक्त हो तो उसकी माता मृत्यु को प्राप्त होती है ॥ ४ ॥

“आत्मगेह स्थितः शुक्र” इति पूर्वोक्तस्य भङ्गमाह—

आत्मगेहस्थितः शुक्रो पापे च परक्षेत्रगे ।

शुभग्रहाः प्रपद्यन्ति रिष्टमद्गो मयेत्तदा ॥ ५ ॥

सं० टी०—यदि शुक्र आत्मगेहस्थितः स्वराशौ स्थितः । पुनर्वदि पापे पापग्रहे परक्षेत्रगे स्वराद्यन्यराशिगते सति । तत्र यदि तं शुक्रं शुभग्रहाः प्रपश्यन्ति बिलोकयन्ति । तदा “आत्मगेहस्थितः शुक्रः पापान्तः पापसंयुतः” इति योरिष्टस्त्वस्य भङ्गो नाशो भवेत् ॥ ५ ॥

भा० टी०—यदि शुक्र स्वराह का हो परख पाप ग्रह अन्य की राशियों में हों तथा शुक्र शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो “आत्मगेह स्थितः शुक्रो” इत्यादि पूर्वोक्त श्लोक से कहे गये अरिष्ट का नाश होता है ॥ ५ ॥

अथवा क्षीणचन्द्रं च पापाः पश्यन्ति सर्वतः ।

शुभग्रहा न पश्यन्ति माता च म्रियते तदा ॥ ६ ॥

सं० टी०—अथवा पापाः पापग्रहाः क्षीणचन्द्रं नष्टवीर्यं चन्द्रं सर्वतः पश्यन्ति । तथा यदि तं क्षीणचन्द्रं शुभग्रहा न पश्यन्ति । तदैवं विधे योगे ज्ञातस्य माता म्रियते ॥ ६ ॥

भा० टी०—जिसके जन्म के समय क्षीण चन्द्रमा को सभी पाप ग्रह देखते हैं शुभ ग्रह बिलकुल न देखते हैं तो उसके माता की निधन मृत्यु होती है ॥ ६ ॥

निघनारिगतश्चन्द्रो भीमश्च सप्तमे भवेत् ।

तस्य मातृविनाशः स्याद्यदिपापैः समन्वितः ॥ ७ ॥

सं० टी०—यदि चन्द्रो निघनारिगतः किंवाष्टपष्ठस्थानगतः । पुनर्वदि भीमः सप्तमे स्थाने भवेत् । तत्र यदि पापैः पापखेटैश्चन्द्रः समन्वितो युतो भवेत् । एवं विधे योगे यस्य जन्म तस्य मातृविनाशः स्यात् ॥ ७ ॥

भा० टी०—जिसके जन्म समय चन्द्रमा पाप ग्रहों से युक्त होकर पष्ठ में अथवा षष्ठम में हो और सप्तम में मंगल हो तो उसके माता की मृत्यु होती है ॥ ७ ॥

चन्द्राष्टमगते भीमे शशुस्थे म्रूयीक्षिते ।

मातुस्तस्य भवेद्भानि पिता तस्य विदेशगः ॥ ८ ॥

सं० टी०—भामे मङ्गले चन्द्राष्टमगते चन्द्रादष्टमस्थे तथा शत्रुस्थे लग्नात्पष्टस्थे तथा क्रूरवीक्षिते पापग्रहदृष्टे सति । तस्य मातृहानिर्विनाशः स्यात् । तथा तस्य पिता विदेशगः स्यादर्थाद्विदेशगस्य पितुः परोक्षस्य जन्म स्यात् ॥ ८ ॥

भा० टी०—जिसके जन्म समय चन्द्रमा से अष्टम में और लग्न से षष्ठ में यदि मंगल हो ( अर्थात् लग्न से षष्ठ में मंगल एकादश में चन्द्रमा हो ) एवं स्थित मंगल पाप ग्रह से दृष्ट हो तो पिता के परोक्ष में उसका जन्म होता है तथा उस की माता मृत्यु को प्राप्त होती है ॥ ८ ॥

लग्नाद्यतुर्थगः पापो यदि स्याद्वलवत्तरः ।

तदा मातृबधं कुर्याच्चन्द्रोपेतो विशेषतः ॥ ९ ॥

सं० टी०—यदि पापः पापग्रहो लग्नाद्यतुर्थगस्तथा बलवत्तरौ बीयाधिकः तदा स च पापो मातृबधं मातृनाशं कुर्यात् । अथैवं यदि तादृशः पापश्चन्द्रोपेतश्चन्द्रेण सहितः । तदा विशेषतः मातृनाशो भवेत् ॥ ९ ॥

भा० टी०—यदि जन्म समय सति बलवान् पाप ग्रह लग्न से चतुर्थ में हो तो माता की मृत्यु करता है । यदि एव भूत पाप ग्रह चन्द्रमा से युक्त हो तो निधय माता की मृत्यु करता है ॥ ९ ॥

शनिमङ्गलयोर्मध्ये यदि तिष्ठति चन्द्रमा ।

तदा मातृबधो ज्ञेयो भौमाकीं संयुतौ तथा ॥ १० ॥

सं० टी०—यदि चन्द्रमा शनिमङ्गलयोर्मध्ये तिष्ठति तथा यदि भौमाकीं संयुतौ रविमङ्गलावेकत्र स्थितौ तदा मातृबधो ज्ञेयो गणकेनेति शेषः ॥ १० ॥

भा० टी०—यदि जन्म समय चन्द्रमा शनि और मङ्गल के अन्तर्गत ( मध्यगत ) हो तथा मंगल रवि युक्त हो तो माता की मृत्यु होती है ॥ १० ॥

चन्द्रः पापसमायुक्तो लग्नात्केन्द्रगतो यदि ।

तदा मातृबधो ज्ञेयः सप्ताहाद्वात्र संशयः ॥ ११ ॥

यदि चन्द्रः पापसमायुक्तः पापग्रहितः । पुनर्यदि लग्नात्केन्द्रग्रहितः । तदा सप्ताहात्सप्तवारान्मातृबधो ज्ञेयः । इति संशयो न ॥ ११ ॥

भा० टी०—यदि जन्म समय चन्द्रमा पाप ग्रहों से युक्त होकर लग्न से केन्द्र स्थान में हो तो १ सप्ताह के अन्दर ही माता की मृत्यु होती है इसमें संशय नहीं है ॥ ११ ॥

इति मात्ररिष्टम् ।



दिवसे तु पिता मित्रः पिता रात्रौ शनैश्चरः ।

भ्राता दिवाकरो रात्रौदिवसे च शनैश्चर ॥ १ ॥

दिवसे प्रसवे सति मित्रः सूर्यः पिता पितृसंज्ञकः स्यात् । रात्रौ प्रसवे सति शनैश्चरः पिता स्यात् । तथा रात्रौ प्रसवे सति दिवाकरः सूर्यो भ्राता भ्रातृसंज्ञकः स्यात् । दिवसे प्रसवे सति शनैश्चरश्चशब्दोपादानाद्भ्रातृसंज्ञकः स्यात् ॥ १ ॥

भा० टी०—यदि दिन में जन्म हो तो सूर्य पितृकारक होते हैं तथा रात्रि में जन्म हो तो शनैश्चर पितृकारक होते हैं । एवं दिन में जन्म हो तो शनैश्चर तथा रात्रि में जन्म हो तो सूर्य भ्रातृ कारक होते हैं ॥ १ ॥

निघने च गते सूर्ये सौरिभौमेक्षिते यदि ।

शुक्रगुर्वोर्नचालोकः सपिता म्रियते शिशुः ॥ २ ॥

सं० टी०—यदि सूर्ये निघने लग्नादष्टमे गते तथा सौरिभौमेक्षिते शनि-  
मङ्गलाभ्यां दृष्टे 'सौरिभौमयुते' इति या पाठान्तरे ताभ्यां सहिते । तथा विधे  
सूर्ये सूर्योपरि यदि शुक्रगुर्वो शुक्रवृहस्पतिमहद्वयस्य चावलोक्य दृष्टिर्निरित तदा  
सपिता पितृसहितः शिशुम्रियते ॥ २ ॥

भा० टी०—यदि जन्म समय शनि और मंगल से दृष्ट सूर्य लग्न से अष्टम में हो और वृहस्पति अथवा शुक्र इन दोनों में से किसी से दृष्ट न हो तो पिता के साथ नवजात शिशु की मृत्यु होती है ॥ २ ॥

अष्टमस्थो यदा चन्द्रो गुरुराह द्वितीयगौ ।

सौरिभौमाश्विते सूर्ये पितृदा सप्तधारात् ॥ ३ ॥

यदा चन्द्रो लग्नादष्टमस्यः । तथा गुरुराहू द्वितीयगो । तथा यदि सूर्ये सौरिभीमान्विते शनिमङ्गलसहिते सति । जातः शिशुः सप्तवासरात्पितृहा पितृ-  
नाशकरः स्यात् ॥ ३ ॥

भा० टी०—यदि जन्म लग्न से अष्टम स्थान में चन्द्रमा, द्वितीय में गुरु और राहु हों तथा यदि सूर्य मंगल और शनि से युक्त होकर किसी स्थान में हो तो सात दिन के अन्दर ही पिता की मृत्यु होती है ॥ ३ ॥

लग्नाष्टमगते भीमे द्वादशे वा द्वितीयगे ।

पितृनाशो भवेत्तस्य शुभै र्यदि न दृश्यते ॥ ४ ॥

स० टी०—भीमे लग्नाष्टमगते वा द्वादशे वा द्वितीयगे तथा यदि शुभैः स च भीमो न दृश्यते तदा तस्य शिशो पितृनाश स्यात् । वा पष्टाष्टमगते भीमे रिष्के पापद्वये त्रये इति पाठान्तरे तु भीमे पष्टाष्टमगते तथा रिष्के द्वादशे पाप-  
द्वये द्वौ पापमहौ वा त्रये त्रयः पापा । अन्यत्पूर्ववदिति ॥ ४ ॥

भा० टी०—यदि जन्म लग्न से अष्टम वा द्वादश अथवा द्वितीय में यदि मंगल हो तथा एव पिघ मंगल शुभ ग्रह से यदि दृष्ट न हो तो शीघ्र पिता की मृत्यु होती है ॥ ४ ॥

अष्टमस्थो यदा भानुर्लग्ने राहुसमन्विते ।

पिता वा म्रियते तस्य स्वयं च म्रियते शिशुः ॥ ५ ॥

यदा भानु सूर्योऽष्टमस्थस्तथा लग्ने राहु समन्विते राहुयुते सति । तस्य पिता म्रियते वा स्वयं शिशुम्रियते ॥ ५ ॥

भा० टी०—यदि जन्म लग्न से अष्टम में सूर्य तथा जन्म लग्न में राहु हो तो उसके पिता की मृत्यु होती है । अथवा बालक स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

सोम सिद्धान्ते—

भीमे वा निधने चन्द्रः पापयुक्तो भवेत्तदि ।

पितृघातो परोक्षे च माता वा म्रियते ध्रुवम् ॥ ६ ॥

• ' भौमो मङ्गलो वा चन्द्रो यदि निघनेऽष्टमे स्थितस्तथा पापयुक्तः पापग्रह-  
युतः । तदैवं विधे योगे जातः शिशुः पितृघाती पितृनाशकरः । वा तस्य परोक्षे  
शुभं निश्चितं माता म्रियते ॥ ६ ॥

भा० टी०—जिस के जन्म लग्न से अष्टम में मंगल अथवा चन्द्रमा  
पाप ग्रहों से युक्त हों तो जातक के पिताकी मृत्यु होती है अथवा पिताके  
परोक्ष में माताकी मृत्यु होती है ॥ ६ ॥

रन्धेऽर्के सप्तमे भौमे निघनस्थे च सूर्यजे ।

पितृमृत्युर्भवेत्तस्य शुभैयदि न दृश्यते ॥ ७ ॥

अर्के रवौ रन्धेऽष्टमस्थे तथा यदि भौमे सप्तमे तथा च यदि सूर्यजे शनि-  
धरे निघनस्थेऽष्टमस्थे सति । एवं विधौ योगो यदि शुभैर्न दृश्यते तदा तस्य  
बालकस्य पितृमृत्युर्भवेत् ॥ ७ ॥

भा० टी०—जिस के जन्म लग्न से अष्टम में सूर्य और शनि तथा  
सप्तम में मंगल हों तथा ये ग्रह यदि शुभ ग्रह से दृष्ट न हों तो पिता की  
मृत्यु होती है ॥ ७ ॥

सूर्याच्च सप्तमस्थाने शनिर्भौमौ यदा स्थितौ ।

तदा पितृघ्नो ज्ञेयस्तयोर्मध्येऽथवा रविः ॥ ८ ॥

यदा सूर्यात्सप्तमस्थाने शनिर्भौमौ स्थितौ स्यातामित्येको योगः । अथवा  
रविस्तयोः शनिमङ्गलयोर्मध्ये स्थितः । तदा पितृघ्नो पितृनाशो ज्ञेयः ॥ ८ ॥

भा० टी०—जिस के जन्म समय सूर्य से सप्तम में यदि मंगल तथा  
शनि हो अथवा शनि और मंगल के मध्यगत रवि जिस किसी स्थान में हो  
तो पिता की मृत्यु की करता है ॥ ८ ॥

कुजेन सहितो भानुः शनिना यदि वीक्षितः ।

शनिना संयुतो वापि कुजेन यदि वीक्षितः ॥ ९ ॥

स० टी०—यदि भानुः सूर्यः कुजेन मङ्गलेन सहितस्तथा शनिना वीक्षितः  
सन्दृष्टः । अथवा भानुः शनिना संयुतः कुजेन वीक्षितः । तदैवं विधे योगद्वये  
जातस्थोऽक्षरफलं स्यात् ॥ ९ ॥

भा० टी०—जिस के जन्म समय मंगल से युक्त सूर्य को शनि देखता हो अथवा शनि से युक्त सूर्य को मंगल देखना हो तो उसके पिताकी मृत्यु होती है ॥ ९ ॥

दशभिश्च खौ भोने पञ्चभिश्चन्द्रमाहरौ ।

द्वाभ्यां चैव कुजे मेवे पितृहासप्तवासरात् ॥ १० ॥

खौ दशभिर्मनि तथा चन्द्रमां पञ्चभिर्हरोसिहे । तथा कुजे द्वाभ्यां मेवे तदा सप्तवासरात्पितृहा स्यात् ॥ १० ॥

भा० टी०—जिस के जन्म समय सूर्य मीन के १० अंश पर चन्द्रमा सिद्ध में ५ अंश पर और मंगल मेघ में २ अंश पर हो तो एवं विध योग में सात दिन के अन्दर उसके पिताकी मृत्यु होती है ॥ १० ॥

पञ्चभिर्भाग्ये युग्मे यद्विना म्रियतेशिशुः ॥

अष्टाविशान्मृगे भौमे पितृहा सप्तवासरात् ॥ ११ ॥

भाग्ये शुके पञ्चभिर्युग्मे मिथुने तदा शिशुर्बहिना म्रियते । अथ भौमे चाष्टाविशान्मृगे किंवाष्टाविशतिभिर्मकरे तदा सप्तवासरात्पितृहा स्यात् ॥ ११ ॥

भा० टी०—जिस के जन्म समय शुक मिथुन में ५ अंश पर हो उस बालक की मृत्यु अग्नि से होती है । तथा जिसके जन्म समय मंगल मकर में २८ अंश पर हो उसके पिता की मृत्यु ७ दिन के अन्दर होती है ॥ ११ ॥

इति पितुरिष्टम् ।



• जयानुक्तकारिष्टः स्वर्गातिप्रामनि तथा तस्कालपरितान्मन्त्रह कीरराह

मिदिरानार्थं मणीते बृहज्जातके—

सोमे स्थानं गतवति एतन्मन्त्रे स्वंवा ठनुशुद्धमया ।

पापैर्दृष्टे बहवति मरणं वर्षरपान्तः किल मुनि गदिनम् ॥ १ ॥

अथ पुंस्त्री जन्मज्ञानमाह—

पुरुषः पुरुषक्षेत्रं यदि पश्यति सर्वथा ।

तदा पुमान् संजानीयादन्यथा युवतिर्भवेत् ॥ १ ॥

योपिक्षेत्रगतः शुक्रो बुधो वा यदि पश्यति ।

तदा कन्यां विजानीयादन्यथा पुरुषो भवेत् ॥ २ ॥

सं० टी०—यदि पुरुषः पुरुषाभिष. खेटः पुरुषक्षेत्रं पुरुषसंज्ञकं राशिं सर्वथा पश्यति तदा पुमान् नरजन्म संजानीयात् । अन्यथा किन्तु स्त्रीसंज्ञकः खेटः स्त्रीराशिं पश्यति तदा युवतिः कन्या भवेत् ॥ १ ॥

यदि शुक्रो वा बुधो योपिक्षेत्रगः स्त्रीराशिगतः । तथा वा स्त्रीराशिं पश्यति तदा कन्यां विजानीयात् । अन्यथा पुरुषो भवेत् ॥ २ ॥

भा० टी०—जिस जन्माङ्क में पुरुषसंज्ञकग्रह (सूर्य मङ्गल और बृहस्पति) पुरुष संज्ञक (मे. मि. सि. तु. घ. कुं.) जन्म लग्नको देखते हों उसमें पुरुष का जन्म कहना चाहिये । अन्यथा स्त्री ग्रह यदि स्त्री संज्ञक जन्म लग्नको देखते हों तो कन्या का जन्म कहना चाहिये ॥ १ ॥

अथ यदि स्त्रीराशिगत शुक्र या बुध स्त्री राशि संज्ञक जन्म लग्न को देखे तो स्त्री का जन्म का जन्म कहना चाहिये अन्यथा पुरुष का जन्म कहना चाहिये ॥ २ ॥

अथ क्लीबजन्मज्ञानमाह—

सौरिदृष्टे बुधयुते शुभयोगविवर्जिते ।

बुधमन्दग्रहे जातः क्लीबं पच न संशयः ॥ ३ ॥

शनिदृष्टे युते वापि कन्या भवति निश्चितम् ।

सुतस्थाने द्विपापे च त्रिपापे घाघ संयुते ॥ ४ ॥

तदा स्त्रीपुरुषौ कन्यो विशेषौ शत्रुबोद्धितौ ॥ ५ ॥



जिस जन्माङ्ग में मिथुन कन्या मकर कुंभ इनमें से कोई जन्म लग्न बुध से युक्त और शनि से दृष्ट हो तथा शुभ ग्रह के योग से रहित हो तो जातक नपुंसक होता है ॥ ३ ॥

यदि पञ्चम भाव शनि से दृष्ट युक्त हो तथा दो २ या तीन ३ पाप ग्रह यदि पञ्चम भाव में हों और शत्रु ग्रह से दृष्ट हों तो इस योग में उत्पन्न कन्या तथा पुरुष दोनों सन्तान रहित होते हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥

अथ द्रेष्काण वशेन स्त्री पुरुष ज्ञानञ्चाह—

मेपादिद्वादशे राशौ द्रेष्काणं च विनिर्दिशेत् ।

एकैकेन तु ऋक्षेण तृतयं तृतयं भवेत् ॥ १ ॥

आदिमध्यान्तभागैश्चातव्यः पुरुषः स्त्रियः ।

स्त्रीभागो च भवेत्कन्या पुंभागे पुरुषो भवेत् ॥ २ ॥

भा० टी०—मेपादि बारह राशियों में प्रत्येक राशि में तीन तीन द्रेष्काण होता है । अर्थात् प्रत्येक राशि में आदि मध्य और अन्त्य भाग होता है वक्ष्यमाण प्रकार से स्त्री पुरुष द्रेष्काण ज्ञात कर अर्थात् स्त्री द्रेष्काण में स्त्री और पुरुष द्रेष्काण में पुरुष का जन्म होता है ॥ १ ॥ २ ॥

मेपस्य प्रथमे भागे द्रेष्काणे पुरुषो भवेत् ।

क्रोधनो चक्रनेत्रश्च कृष्णवर्णो दुरासदः ॥ ३ ॥

द्वितीयभागे सम्प्राप्ते नारी भवति निश्चितम् ।

स्थूलोदरी स्थूलमुखी युवती लोहिताकृतिः ॥ ४ ॥

तृतीये पुरुषः शूरो निर्भयश्चाति दुर्मतिः ।

कपिलोदारुणश्चैव सत्यशौचविचर्जितः ॥ ५ ॥

भा० टी०—मेव राशि के प्रथम द्रेष्काण में क्रोधी चक्र ( तिरछी ) नेत्र से युक्त कृष्ण वर्ण तथा भयङ्कर पुरुष का जन्म होता है ॥ ३ ॥

द्वितीय द्रेष्काण में निश्चय करके स्थूल उदर (पेट) तथा मुख से युक्त और लाल वर्ण वाली स्त्री का जन्म होता है ॥ ४ ॥

तथा तृतीय द्रेष्काण में शूर निर्भय अति दुष्ट तथा कण्ठ (भूरा) वर्ण से युक्त कठोर और मत्स्य तथा पवित्रता से रहित पुरुष का जन्म होता है ॥ ५ ॥

अथ वृषराशिस्थद्रेष्काणजस्वरूपमाह—

वृषस्य प्रथमे भागे भवेन्नारी पतिव्रता ।

स्थूलोदरी दग्धपटा स्वल्पकेशो प्रियंवदा ॥ ६ ॥

द्वितीयभागे सम्प्राप्ते कुशलः सर्वकर्मसु ।

बृहत्कायो बृहत्पादस्तृतीये पुरुषो महान् ॥ ७ ॥

भा० टी०—वृष राशि के प्रथम द्रेष्कारण में स्थूल उदर (पेट) से युक्त जले या फटे कपड़ों से युक्त तथा स्वल्प केशों से युक्त और मधुर बोलनेवाली तथा पतिव्रता स्त्री का जन्म होता है ॥ ६ ॥

द्वितीय द्रेष्काण में सभी कार्यों में चतुर तथा बृहत् शरीर और बृहत्पाद (चरणों) से युक्त पुरुष का जन्म होता है । एवं वृष के तृतीय द्रेष्काण में श्रेष्ठ पुरुष का जन्म होता है ॥ ७ ॥

मिथुनराशिस्थद्रेष्काणज स्वरूपमाह—

द्रेष्काणे प्रथमे युग्मे नारी भवति सुन्दरी ।

द्वितीये पुरुषः शूरो धनुर्विद्याविशारदः ॥ ८ ॥

तृतीये पुरुषो धन्यो पण्डितो रत्नसयुतः ।

गोघनैरपि संयुक्तः कृषि कर्मणि तत्परः ॥ ९ ॥

भा० टी०—मिथुन लग्न के प्रथम द्रेष्काण में सुन्दरी स्त्री का जन्म होता है । द्वितीय द्रेष्काण में शूर तथा धनुर्विद्या में चतुर पुरुष का जन्म होता है ॥ ८ ॥

एवं तृतीय द्रेष्काण में धनुषधारी चतुर रत्नों से युक्त तथा गो घन ( गाय बैल इत्यादि ) से युक्त और कृषि कार्य में तत्पर पुर्ष को जन्म होता है ॥ ९ ॥

कर्कराशिस्वद्रेष्काणज स्वरूपमाह—

कर्कटप्रथमे भागे शरीर हस्तिवद्दृढम् ।

मुखं सूकरवज्जोयं जायते पुरुषो महान् ॥ १० ॥

द्वितीये सुन्दरी नारो तृतीये सुन्दरः पुमान् ।

जनप्रियः सुरूपश्च नौकावाणिज्यतत्परः ॥ ११ ॥

भा० टो०—कर्क लग्न के प्रथम द्रेष्काण में हाथी के तरह दृढ शरीर तथा सूकर के तरह सभ्य मुख वाले श्रेष्ठ पुरुष का जन्म होता है ॥ १० ॥

द्वितीय द्रेष्काण में सुन्दर लोक प्रिय तथा शोभनाकर से युक्त और नौका से वाणिज्य करने वाले पुरुष का जन्म होता है ॥ ११ ॥

अथ सिंह तथा कन्या राशिस्वद्रेष्काणज स्वरूपमाह—

पुरुषः प्रथमे सिंहे मुख जम्बुकवद्दृढम् ।

द्वितीये पुरुषो धन्वी उच्चनाशः सुरूपकः ॥ १२ ॥

तृतीये पुरुषो जातः उच्चनासो हि कन्धरः ।

कन्यायाः प्रथमे नारी द्वितीये खेलकः पुमान् ॥ १३ ॥

तृतीये सुन्दरी नारो तुङ्गघोतार्द्रवाससा ।

हास्ययुक्ता चन्द्रमुखो लज्जासन्तार्जिता ॥ १४ ॥

भा० टो०—सिंह लग्न के प्रथम द्रेष्काण में शिपार के तरह दृढ मुख से युक्त पुरुष होता है । द्वितीय द्रेष्काण में धनुष को धारण करने वाला तथा उच्च नासिका से युक्त सुन्दर पुरुष होता है । तृतीय द्रेष्काण में उत्पन्न उच्च नासिका तथा कन्धे युक्त पुरुष होता है ॥ कन्या लग्न के प्रथम द्रेष्काण में

स्त्री का जन्म होता है, द्वितीय द्रेष्काण में खेल ( क्रीडा ) करने वाले पुरुष का जन्म होता है । तृतीय द्रेष्काण में सुन्दर कन्या का जन्म होता है जो कि श्रेष्ठ धीत ( घुले हुए ) तथा आर्द्र वस्तुओं से युक्त हास्य युक्त और चन्द्र-मुखी होती है परम लज्जा तथा सन्तान से रहित होती है ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥

अथ तुला वृश्चिकयोः राशिस्थयोः द्रेष्काण फलमाह—

पुरुषः प्रथमे चैवतुलायाश्च तुलाघरः ।

धुधितस्तुपितश्चैव द्वितीये पुरुषो भवेत् ॥ १५ ॥

तृतीये पुरुषो दीनो सदा दीर्घमुखः स्मृतः ।

स्थाने च्युता भवेन्नारी वृश्चिकप्रथमे भवेत् ॥ १६ ॥

द्वितीये च भवेन्नारी सुखं चाञ्छति सर्वदा ।

तृतीये पुरुषश्चैव तस्करश्चञ्चलो भवेत् ॥ १७ ॥

भा० टी०—तुला लग्न के प्रथम द्रेष्काण में तराजू तौलने वाले तथा भूखे प्यासे पुरुष का जन्म होता है । तथा द्वितीय भाग में भी पुरुष का जन्म होता है । तृतीय द्रेष्काण में दीन तथा दीर्घ मुख पुरुष का जन्म होता है । वृश्चिक लग्न के प्रथम द्रेष्काण में श्याम भ्रष्टा नारी का जन्म होता है । द्वितीय द्रेष्काण में सर्वदा सुख को चाहने वाली कन्या का जन्म होता है । तथा तृतीय द्रेष्काण में पुरुष का जन्म होता है जो कि तस्कर और चञ्चल होता है ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥

अथ धनुर्मकरराशिस्थयोः द्रेष्काणफलमाह—

धनुषः प्रथमे धन्यी पुरुषो जायते महान् ।

सदा सुरूपा गौराङ्गी द्वितीये सुन्दरी भवेत् ॥ १८ ॥

तृतीये पुरुषः शूरो धनुर्विद्याविशारदः ।

मकरप्रथमे भागे पुरुषो जायते महान् ॥ १९ ॥

स्वर्णालङ्कारसंयुक्ता द्वितीये सुन्दरी भवेत् ।

तृतीये पुरुषो धन्यी भवेत्स्थूलमुपः सदा ॥ २० ॥

भा० टी०—घन लग्नके प्रथम द्रेष्काण में श्रेष्ठ तथा धनुषधारी पुरुष का जन्म होता है । द्वितीय द्रेष्काण में सर्वदा पुरुष गौरवर्ण युक्त सुन्दरी कन्या का जन्म होता है । तृतीय द्रेष्काण में शूर तथा धनुर्विद्या में कुशल पुरुष का जन्म होता है ; मकर लग्न के प्रथम द्रेष्काण में श्रेष्ठ पुरुष का जन्म होता है । द्वितीय द्रेष्काण में सुवर्ण के आभूषणों से संयुक्त सुन्दरी का जन्म होता है । तथा तृतीय द्रेष्काण में स्थूल मुख तथा धनुष धारण करने वाला पुरुष का जन्म होता है ॥ ८ ॥ १९ ॥ २० ॥

अथ कुम्भमीन राशिस्थयोः द्रेष्काण फलमाह—

कुम्भस्य प्रथमे भागे पुरुषस्थूलदन्तकः ।

स्थिरबुद्धिः सती चैव द्वितीये सुन्दरी भवेत् ॥ २१ ॥

तृतीये पुरुषः श्यामो रोगकर्णो भवेत्सदा ।

पुरुषः प्रथमे मीने भवेत्लोकप्रियः सदा ॥ २२ ॥

द्वितीये सुन्दरी गौरी तृतीये पुरुषो भवेत् ।

नारीपुरुषयोर्माभ्ये सर्वभेदः प्रकीर्तितः ॥ २३ ॥

इति स्त्रीपुरुषविचारः ।



भा० टी०—कुम्भ लग्न के प्रथम द्रेष्काण में स्थूल दांत वाले पुरुष का जन्म होता है । द्वितीय द्रेष्काण में स्थिर बुद्धि तथा पतिव्रता स्त्री का जन्म होता है । तृतीय द्रेष्काण में पुरुष का जन्म होता है जो कि श्याम वर्ण तथा कर्णरोग से युक्त होता है । मीन लग्न के प्रथम द्रेष्काण में लोक प्रिय पुरुष का जन्म होता है । द्वितीय द्रेष्काण में सुन्दरी तथा गौरवर्णा स्त्री कन्या का तथा तृतीय द्रेष्काण में पुरुष का जन्म होता है । ये सभी स्त्री पुरुष के ज्ञान के लिये कहे गये हैं ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥

इति स्त्री पुरुष विचारः ।

अथ जारजकन्याजन्मयोगमाह—

द्वादश्यां तु द्वितीयायां सप्तम्यां भग्नऋक्षके ।

रविमन्दकुजे जाता जारजा परिकीर्त्तिता ॥ १ ॥

सं० टी०—द्वादश्यां वा द्वितीयां वा सप्तम्यां त्रिथौ तथा भग्नऋक्षके\* तथा रविमन्दकुजे वासरे । जाता किञ्चोत्पन्ना कन्या जारजा अम्योत्पन्ना परिकीर्त्तिता कथिता ॥ १ ॥

भा० टी०—त्रिसके जन्म समय रविवार भौमवार शनिवार इनमें से कोई एक दिन हो तथा भग्न नक्षत्रों ( कृ. पुन. उ. फा. वि उ. पा. पूमा, ) में से कोई एक नक्षत्र हो द्वादशी द्वितीया सप्तमी में से एक कोई तिथि हो अर्थात् इन दिन नक्षत्र और तिथियों में से एक २ का योग हो तो इस योग में जन्मी हुई कन्या जार से ( अन्य से ) पैदा होती है ॥ १ ॥

जारजातमङ्गमाह—

जीवक्षेत्रेऽथजीवाढ्ये जीवेनालोकितेऽथवा ।

जीवांशकादिसम्बन्धे जारयोगविभङ्गहृत् ॥ २ ॥

सं० टी०—जीवक्षेत्रे गुरुराशौ, तथा जीवाढ्ये गुरुयुते । अथवा जीवेनालोकिते गुरुरदष्टे । तथा जीवांशकादिसम्बन्धे गुरोर्नवांशकादिपङ्क्तौ सति । तदा जारयोगविभङ्गकृद्दर्शात्पूर्वोक्तजारयोगस्य नाशकृत्स्यात् ॥ २ ॥

इति सामान्यजारयोगः ।†



\* भद्राख्य तिथि युक्तेषु, त्रिपादशान्वितेषु च ।

मन्दार्क भौमवारेषु शतमन्योद्भवं विदुः ॥ १ ॥

† यदुक्तं भगवान्गार्गिः—

गुरुक्षेत्रगते चन्द्रे तद्गुक्ते चान्यराशिगे ।

तद्भेष्वाणे तद्देशेवा न परैर्जात इष्यते ॥ १ ॥

। भा० टी०—यदि जन्म समय जन्म लग्न अथवा चन्द्रमा कोई भी बृहस्पति की राशि में हो अथवा बृहस्पति से युक्त हो अथवा बृहस्पति के अर्शादि ( द्वेष्काण वा नवांश वा द्वादशांश या त्रिंशांश ) में हो तो जारजात योग का नाशक होता है अर्थात् एवं योग में जात बालक अपने पिता का औरस पुत्र होता है ॥ २ ॥



अथाङ्गभङ्ग योगानाह--

भौमक्षेत्रे गते लग्ने रविक्षेत्रे शनैश्चरे ।

स पापेन युतो न्यापि भुजच्छेदो भवेदध्रुवम् ॥ १ ॥

सं० टी०—लग्ने भौमक्षेत्रगते मेघवृद्धिकराशिमे तथा शनैश्चरे रविक्षेत्रे सिंहराशियते तथा स च पापेन पापग्रहेण युतः सहितः । तदा ध्रुवं निश्चितं भुजच्छेदो हस्तनाशो भवेत् ॥ १ ॥

भा० टी०—जिसके जन्म समय मेघ या वृद्धिक लग्न हो और शनि पाप ग्रह से युक्त होकर सिंह राशि में हो तो उसका निश्चित भुजच्छेद ( अर्थात् हाथ किसी शस्त्र से कट जाता है ) होता है ॥ १ ॥

शत्रुगेहे यदा शौरिः शत्रुयुक्तोरिवोक्षितः ।

एकपादकरच्छेदः प्राक्तनैः परिकीर्तितः ॥ २ ॥

यदा शौरिः शनिः शत्रुगेहे स्वशत्रुराशिगः । तथा शत्रुयुक्तः स्वशत्रुणा सहितः । तथारिवोक्षितः शत्रुदृष्टः । तदा प्राक्तनैः प्राचीनगणद्वैरेकपादकरच्छेदः स्यादपदिकचरणस्य तथैकहस्तस्य च नाशो भवेत् । इति कथितः ॥ २ ॥

भा० टी०—जिस के जन्म समय शनि शत्रु ग्रह से युक्त और शत्रु से दृष्ट होता हुआ शत्रु ग्रहकी राशि में हो तो उसके एक हाथ तथा एक पैर का भंग ( नाश होता है ) ॥ २ ॥

मृत्युस्वानगतो भौमः शनिराश्रुयुतेक्षितः ।

चतुर्हस्तपदच्छेदो मुनिभिः परिर्फीर्तितः ॥ ३ ॥

भौमौ मृत्युस्थानगतौ लग्नादष्टमस्थानस्थितः । तथा शनिराहुयुतेऽसित  
शनिराहुभ्यां युतदृष्टः । तदा मुनिभिश्चतुर्हस्तपदच्छेदः परिकीर्तितः किन्तु  
चतुर्हस्तस्तथा चरणनाशश्च कथितः ॥ ३ ॥

भा० टी०—जिस के जन्म समय शनि तथा राहु से युक्त दृष्ट भौम  
अष्टम स्थान में हो तो उसके चारों हाथ धीरे धीरे का भंग होता है ॥ ३ ॥

शनिगेहे यदा राहुः शशी सिहेभवेद्यदि ।

शिरच्छेदाख्ययोगोऽयं विष्णुना परिकीर्तितः ॥ ४ ॥

सं० टी०—राहु शनिगेहे मकरकुम्भराशौ गतः । तथा शशी चन्द्र  
सिहे भवेत् । तदा विष्णुनाऽयं शिरच्छेदाख्ययोगः परिकीर्तितः कथितः ॥ ४ ॥

भा० टी०—जिसके जन्म समय राहु मकर या कुम्भ में हो तथा चन्द्रमा  
यदि सिंह राशि में हो तो उसका शिरच्छेद होता है ( अर्थात् चोट आदि से  
शिर कुछ कट जाता है अर्थात् घाव बगैरह होने से चीड़ा जाता है ) यह  
शिरच्छेद योग श्री विष्णु भगवान से कहा गया है ॥ ४ ॥

अष्टमस्थो यदा सोमो रवियुक्तोभवेद्यदि ।

शिरच्छेदाख्ययोगोऽयं विष्णुना प्रकीर्तितः ॥ ५ ॥

सं० टी०—यदा सोमधन्वोऽष्टमस्थस्तथा यदि रवियुक्तः । तदा विष्णुने-  
वार्यं शिरच्छेदाख्ययोगं प्रकीर्तितः ॥ ५ ॥

भा० टी०—यदि सूर्य से युक्त चन्द्रमा अष्टम में हो तो यह भी शिर  
च्छेद योग होता है यह भी श्री विष्णु भगवान् से कहा गया है इस योग में  
उत्पन्न बालक का शिर किसी कारण से चीड़ा फाड़ को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

नेत्रनाशयोगमाह—

पापप्रययुतः सोम शशुगेहे व्यवस्थितः ।

शुभप्रहा न पश्यन्ति चश्रुनांशो भवेद्भ्रुवम् ॥ ६ ॥

यदा सोमधन्वः पापप्रययुतः पापप्रदश्रवणेन सहितस्तथा शशुगेहे स्वशशु-  
राशौ व्यवस्थितः संस्थितः । तथा शुभप्रहास्तं चन्द्रं न पश्यन्ति । तदा भ्रुव-  
ं , चश्रुनांशो नेत्रनाशो भवेत् ॥ ६ ॥



भा० टी०—यदि तीन पाप ग्रहों से युक्त होकर चन्द्रमा पृष्ठ स्थान ( भाव ) में हो तथा कोई भी शुभ ग्रह उसे देखता नहीं हो तो निश्चित नेत्र नाश करता है ॥ ६ ॥

अथ खण्डयोगमाह—

कण्टकस्थो यदा सौरिः शशियुक्तो भवेद्यदि ।

शुभग्रहा न पश्यन्ति खलौ भवति नान्यथा ॥ ७ ॥

यदा सौरिः शनिः कण्टकस्थः केन्द्रगतस्तथा शशियुक्तश्चन्द्रसहितः । तथा शुभग्रहास्तु शनि न पश्यन्ति तदा जातः खलुः पद्मभवंति । अन्यथा न स्यात् । कर्कटस्थो” इति पाठान्तरम् ॥ ७ ॥

भा० टी०—यदि चन्द्रमा से युक्त शनि केन्द्र स्थान में हो तथा शनि को शुभ ग्रह नहीं देखते हों तो जातक खलु अर्थात् पद्म होता ॥ ७ ॥

अथ काणयोगमाह—

अष्टमस्थो यदा भानुः शशिशुक्रावलोक्तिः ।

रिपुगेहे विशेषेण काणयोगो भवेद्भ्रुवम् ॥ ८ ॥

सं० टी०—यदा भानुरष्टमस्थस्तथा शशिशुक्रावलोक्तिश्चन्द्रशुक्राभ्यां सन्दृष्टः । तथा रिपुगेहे शत्रुराशी स्थितः । तदा विशेषेणार्थं भ्रुवं काणयोगो नेत्रनाशकयोगो भवेत् ॥ ८ ॥

भा० टी०—यदि चन्द्रमा तथा शुक्रसे दृष्ट सूर्य यदि शत्रु ग्रहके राशिके होकर अष्टम स्थान में हो तो विशेष करके काण योग होता है ॥ ८ ॥

अथ महापातक योगमाह—

राहुणा सहितो मन्दः पापशैशत्रुयोक्षितः ।

महापातकयोगोऽयं यदि ब्रह्मसमो भवेत् ॥ ९ ॥

सं० टी०—यदा मन्द धनी राहुणा सहितस्तथा पापशैश पापराशो गतस्तथा शत्रुवीक्षितः शत्रुदृष्टस्तदाऽयं महापातकयोगः स्यादर्थादस्मिन् योगे मस्य

जन्म स च महत्पापकारको भवेत् । यदि ब्रह्म समोभवेत्तथापि जातो महत्पाप-  
कारकः ॥ ९ ॥

भा० टी०—यदि शत्रु ग्रह से दृष्ट तथा राहु से युक्त शनि पाप ग्रहके  
राशि में हो तो यह पातक योग होता है इस योग में उत्पन्न नर यदि  
ब्रह्मा के तुल्य भी हो तो महत्पाप कारक अर्थात् ब्रह्म घाती होता है ॥ ९ ॥

अन्यत्र माह—

पापत्रययुतश्चन्द्रो रविभौमावलोकितः ।

स भवेद्ब्रह्मघाती च शनियुक्तश्च गोवधी ॥ १० ॥

यदा चन्द्र पापत्रययुतस्त्रिभिः पापग्रहैः सहितः । तथा रविभौमावलोकितः ।  
तदा स च जातो ब्रह्मघाती ब्रह्महत्यादिपापकारकः । अत्रैवं यदि स चन्द्रः  
शनिना युक्तस्तदा जातो गोवधी गोहननकारकः स्यात् ॥ १० ॥

भा० टी०—जिसके जन्म समय सूर्य तथा भौम से दृष्ट चन्द्रमा तीन  
पापग्रहों से युक्त हो वह ब्रह्मघातक होता है । अथ यदि रवि तथा मंगल से  
दृष्ट चन्द्रमा केवल शनि से युक्त हो तो जातक गोघातक होता है ॥ १० ॥

अथ आत्मघातकयोगमाह—

एकत्र च त्रय पापा ग्रहास्तिष्ठन्ति यस्य च ।

शूलयोगो भवेत्तस्य नात्र कार्या विचारणा ॥ ११ ॥

यस्य जन्म समये त्रयः पापग्रहा एकत्रस्थाने तिष्ठन्ति । तस्य शूलयोगो  
भवेत् । अत्रास्तिन् शूलयोग विचारणा न कार्या । अर्थादस्मिन्योगे समुत्पन्नस्य  
नरस्य किमुतफल वक्ष्यं किन्तु स्वतः स च शूलादिना पापकारकः ॥ ११ ॥

भा० टी०—जिसके जन्म समय तीन पाप ग्रह एकत्र स्थित हो ( परम  
शुभ से युक्त दृष्ट न हों ) तो वह जातक स्वयं फाँसी आदि लगाकर आत्म  
हत्या करता है । इस में विचार ने की आवश्यकता नहीं है ॥ ११ ॥

अथ पापिष्ठयोगमाह—

पापत्रययुतः सूर्यः शुकाचार्यविवर्जितः ।

पापिष्ठं कुरुते नित्यं स्वल्पायुश्च न संशय ॥ १२ ॥

यदा सूर्यः पापत्रययुतः पापग्रहत्रयेण सहितः । तथा शुकाचार्यविवर्जितः ।  
[केन युतो न तथा दृष्टो न स्यात् । तदा स चार्कः पापिष्ठं नरं नित्यं कुरुते  
।या स्वल्पायुश्च भवेदिति संशयो न स्यात् ॥ १२ ॥

भा० टी०—जिसके जन्म समय शुक्र के योग तथा दृष्टि रहित सूर्य  
तीन पाप ग्रहों से युक्त हो तो जातक जिस अत्यन्त पाप करने वाला होता  
है तथा अत्यायु होता है । १२ ॥

अन्यथ—

पापगेहे पापखगो रविभौमावलीकितः ।

ब्रह्मघाती भवेन्नित्यं सूर्यपुत्रेण गोवधी ॥ १३ ॥

यदि पापगेहे पापखगो पापखग पापग्रहस्तथा रविभौमावलीकितः ।  
तदा नित्यं स च जातो ब्रह्मघाती भवेत् । तथा यदि स च पापग्रह सूर्यपुत्रेण  
शनिना सहितस्तदा स च गोवधी स्यात् ॥ १३ ॥

भा० टी०—जिसके जन्म समय सूर्य तथा मंगल से दृष्ट कोई पाप ग्रह  
( राहु या केतु अपना शनि ) किसी पाप ग्रह के राशि में हो तो वह जातक  
ग्रह जातक होता है तथा यदि शनि से युक्त वह पाप ग्रह हो तो गोमप  
करने वाला होता है ॥ १३ ॥

अथ पशुभिर्हन्त योममाह—

चन्द्रसूर्यगृहे राहुधन्द्रसूर्ययुतो यदि ।

सृत्सुर्यो मदनस्थो वा पशुभिर्हन्त्यते तदा ॥ १४ ॥

यदा राहुधन्द्रसूर्यगृहे चरें वा सिंहगतः तथाचन्द्रसूर्ययुतः । तथा तादृशो  
राहुधन्द्रसूर्यो मदानादशमस्थो वा मदनस्थः सप्तमगतः । तदा स च नर  
पशुभिर्हन्त्यते ॥ १४ ॥

भा० टी०—जिसके जन्मसमय कर्क अथवा सिंह राशि का राहु अष्टम अथवा सप्तम में हो तथा चन्द्रमा सूर्य के साथ हो तो वह जातक पशु से मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

अथ जलजन्तुनिर्माण योगमाह—

शत्रुगेहे यदा सौम्यः शत्रुयुक्तोरिवीक्षितः ।

पष्ठाष्टमस्थितश्चन्द्रो ह्यन्यतेजलजन्तुभिः ॥ १५ ॥

यदा सौम्यः शत्रुगेहे स्थितस्तथा शत्रुयुक्तः । वारिवीक्षितः शत्रुदृष्टः । तथा चन्द्रः पष्ठाष्टमस्थितः । तदा जातो नरो जलजन्तुभिः किन्तु गोधादिकैर्हैन्यते ॥ १५ ॥

भा० टी०—यदि बुध शत्रु से युक्त या दृष्ट होकर शत्रु प्रदकी राशि में हो तथा चन्द्रमा षष्ठ या अष्टम में हो तो जातक गोधादिकों से मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ १५ ॥

अथ सर्पेण मृत्यु योगमाह—

मृत्युस्थो यदि वा भौमः शत्रुगेहेन्दुसयुतः ।

एष नाशकरो योगो द्विजिह्वेन न संशयः ॥ १६ ॥

यदि वा भौमो मृत्युस्थोः कृषादष्टमगास्तथाशत्रुगेहे स्थिः । तसेन्दुसयुतबन्धसहितः । तथा “शनियुक्तस्तथा रिषीर्यहे स्वशत्रुराशौ गतः । तदैष योगोद्विजिह्वेन सर्पादिना नाशकरो मृत्युकरः स्यात् । इति संशयो न ॥ १६ ॥

भा० टी०—जिसके जन्म समय मंगल अपने शत्रु प्रद के राशि में चन्द्रमा से युक्त हो तो उसकी सर्प से मृत्यु होती है । इसमें संशय नहीं है ॥ १६ ॥

अथ अतिदृष्ट योगमाह—

अष्टमे सप्तमे वापि रविराहुकुजार्कजाः ।

ध्रुवमद्वार्ति नीचान्नं यदि स्यान्मघधानपि ॥ १७ ॥

यदि रविराहुकुजाकजा अष्टमे वा सप्तमेस्थिताः स्युः । तदैवं योगे जातो ध्रुवं नीचाक्षं हीनवर्णस्यासमदनाति भक्षति यदि मघवानिन्द्रोपि स्यात्तदैवं योगे जातिघ्नो भवेत् ॥ १७ ॥

यदि रवि राहुमङ्गल और शनि यदि ये चारों ग्रह सप्तम या अष्टम में हो तो इस योग में यदि इन्द्र भी जन्म ले तो वह भी नीचजाति के अन्न को खाते है तो अन्य पुरुष की गणना ही क्या ॥ १७ ॥

अन्यथा—

लगाद्भव्यगतो राहुः पातित्यं कारयेत् ध्रुवम् ।

पापक्षेत्रत्विद् घाच्यं मिथ्यावादं शुभालये ॥ १८ ॥

यदा राहुर्लगाद्भव्यगतो द्वादशस्थः । तदोत्पन्नं नरं ध्रुवं पातित्यं जातिघ्नं कारयेत् । परदैवं तदैव यदा स च राहुः पापक्षेत्रे पापराशौ स्थितः । यदि तादृशो राहुः शुभालये शुभराशौ गतस्तदा मिथ्यावादं कारयेत् ॥ १८ ॥

भा० टी—यदि अन्न लग्न से व्यय भाव में राहु हो तो जाति घ्न करता है परस यदि उक्त राहु पाप ग्रहके राशि में हो तो उक्त फल होता है यदि शुभ ग्रह के राशि में हो तो मिथ्या अपवाद होता है ॥ १८ ॥

अथ रिपुभिर्नाश योगमाह—

शत्रुस्थाने स्थितो जीवो रिपुगेहे घुषेक्षितः ।

एष शत्रुहृत्तो योगो यदि शक्रसमो भवेत् ॥ १९ ॥\*

यदि जीवो मृदस्पतिः शत्रुस्थाने लग्नात्यग्रस्थाने स्थितः । तथा रिपुगेहे स्वशत्रुराशौ गतस्तदा घुषेक्षितो मृधदृष्टः । तदैव योगः शत्रुहृत्तो स्वशत्रुणा नाशकरो भवेत् । यदि शक्रसम स्यात्तपापीदं फलं भवेत् ॥ १९ ॥

इति प्रजापतिदाससंशुद्धीतो दुर्मरणयोग समाप्तः ।



\* स्वगेहे शुभगेहे वा पशे शुद्धरमित्रहा ।

शत्रुये अरिणा दृष्टः शत्रुपीडां ददाति स ॥ होरा रत्ने ॥ गोविन्दः

भा० टी०—जिस के जन्म समय लग्न से दृष्ट स्थान में बृहस्पति शत्रु मूला की राशि में हो तथा बुध से दृष्ट हो तो यदि जातक इन्द्र तुल्य भी पराक्रमी हो तो भी शत्रु से मारा जाता है ॥ १९ ॥

इति गणितफलितज्योतिषाचार्य पण्डित श्रीगोविन्द शर्म  
पाण्डेय कृता सरला भाषा-टीका समाप्ताः ।



भीभाइनाथोज्जनि विद्वरिष्टः,  
तज्जयेष्टपुत्रो बबुए पटिष्टः ।  
नेनाभिधानः किलतत्कीलतत्कनिष्टः,  
तत्पृष्टजातो निजधर्मनिष्टः ॥ १ ॥  
कैलूसमाख्योऽस्य च पृष्टजन्मा,  
सुकुन्दमूर्त्तिस्तु सुकुन्दनामा ।  
ज्येष्ठात्मनाथो विदितैकनामा,  
सोनेसमाख्यः सुकृतैकधामा ॥ ४ ॥  
तस्यानुजः श्रीयुतनन्दलालः,  
स्वविक्रमेणाखिललोकलालः ।  
तत्पृष्टजः माहसुतन्त्रजालः,  
श्रीलादिनायाद्वरजः सुशीलः ॥ ३ ॥  
श्रीकृष्णदत्तोऽकृत वै विशुद्धां,  
सुयोधिनीं सत्स्वरगाद्यजतम् ।  
रसाग्निनागन्दुगुरुज्जनाते,  
पापैर्जतियावीनपुत्रेऽनुरूपे ॥ ४ ॥

टीकाकर्तृवैशंपरिचयः ।



नागनन्दनिधिभूमितेऽदके रामजन्मनि त्रिव्यो शुभे मथौ ।  
या स्वरेविवृतिराशुगादिमे सा समर्पिषिवयोः पदोऽभ्युजे ॥१॥

अस्ति श्रीवलिवापुरस्य सविधै पूरतिनाम्नाश्रुतो  
ग्रामो भूमिसुरैः सुभापितशतैर्भ्रजिन्मुखैः सन्धितः ।  
तत्रोदारगुणावलीकलयितो जातो विदामग्रणीः,  
शश्वत्थ्रीपति पादपद्मनिरतो रामोऽपि योलक्षणेणः ॥ २ ॥

तस्य श्रीकमलापतेरिव भुजाश्रत्वार आसन् सुतो,  
ज्यायान् रामउमदेपाण्डितवराज्योतीर्विर्हा समतः ।  
द्वैतोयोक उदारशक्तिरतुलोलोकेगणेशः सुधीः,

तार्त्वीयक इहास्ति भूमिवलये मान्यो महेशो युः ॥ ३ ॥  
भ्राता तस्य लघुर्गुणैः किलगुरुर्विन्ध्येश्वरी संज्ञया,  
वित्तोऽसौ भुवने मसादपरया दोषज्ञः पूडामणिः ।  
यः साँमित्रिरिवाग्रजस्य सततं सेवापरः सादरं,

श्रीपन्तं मनुते महेशविचुधं मूर्त्यन्तरं शङ्करम् ॥ ४ ॥  
श्रीपन्महेशस्य सुतः सुतीव्र तपःमभावोज्ज्वलितस्य लोके ।  
गोविन्दशर्माऽस्मिमयान्यथापि पञ्चस्वरे विवृतिरत्र ह्यद्या ॥ ५ ॥

अन्नपूर्णाविश्वनाथौ जननी जनकाविव ।  
सर्वस्वं मम तायेव विश्वस्मिन्मङ्गलप्रदौ ॥६॥

॥ इति शुभम् ॥